



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34]
No. 34]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 25, 1973 (भाद्र 3, 1895)

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 25, 1973 (BHADRA 3, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.)

भाग I—खण्ड 4

PART I—SECTION 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 1973

सं० 2087, दिनांक 19 जुलाई 1973—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी ग्रेड-1 अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव श्री एस० कोटेश्वरन को 5-7-73 से 23-8-73 तक की अवधि के लिए योजना अधिकारी (वायु सेना) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 2088, दिनांक 20 जुलाई 1973—असम सरकार से स्थानान्तरित होने पर श्री ए० के० पाण्डे, आई० ए० एस० को राष्ट्रपति दिनांक 18 जुलाई 1973 से रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० एन० राय, अवर सचिव

(सेना विभाग)

सं० 2089, दिनांक 30 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

श्री आर० के० शर्मा स्थाई सहायक को 14 मई 1973 से 13 जुलाई 1973 तक स्थानापन्न रूप से ए० सी० एस० ओ० के पद पर, श्री आई० पी० गोयल के स्थान पर जो अवकाश पर थे।

अ० दा० आनन्द, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

1-204GI/73

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 2090, दिनांक 31 जुलाई 1973—राष्ट्रपति महोदय सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री सुरेश कुमार, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, अनुसंधान तथा विकास संस्थापन (इंजीनियर्स), पूना को रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद में अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2 के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर—दिनांक 17 अप्रैल 1973 (पूर्वाह्न)।

श्री शिव चरण, स्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ठोसावस्था भौतिकी प्रयोगशाला, दिल्ली को इसी संस्थापन में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2 के पद पर, दो वर्ष की परखावधि पर—दिनांक 5 जून, 1973 (पूर्वाह्न)।

वी० आर० रामास्वमी, उप निदेशक

रक्षा उत्पादन विभाग

सं० 2091, दिनांक 27 जुलाई 1973—निम्नलिखित अधिकारी उनके सामने दी हुई तिथि से सेवा निवृत्त हुये:—

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री एस० मिश्रा, अस्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (स्थाई वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1) निरीक्षण नियन्त्रणालय (घातु), ईशापुर को, 30 जून 1973 (अपराह्न)।

(935)

श्री टी० एन० दार, अस्थाई प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (स्थाई वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II), निरीक्षणालय छोटे हथियार, कानपुर, 20 जुलाई 1973 (अप्राप्त) ।

एस० एस० गुप्ता, उपनिदेशक (प्रशासन)

तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु)

सं० 2092, दिनांक 4 अगस्त 1973—राष्ट्रपति महोदय सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

रक्षा विज्ञान सेवा

एस० बी० प्रसाद, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (सहायक निरीक्षण अधिकारी), मुख्य निवासी निरीक्षक का कार्यालय, तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु), नासिक, में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II (निरीक्षण अधिकारी) के पद पर उसी संस्था में दो वर्ष की परखावधि पर दिनांक 19-7-1973 (पूर्वाह्न) से नियुक्त किया ।

ति० वे० शंकरन्, निदेशक

राष्ट्रीय कैंडेट कोर

सं० 2093, दिनांक 26 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित को कमीशन प्रदान करते हैं:—

सीनियर डिवीजन (थल सेना स्कंध)

2/लेफ्टि० के रूप में

महाराष्ट्र

वसन्त रामचन्द्र पाटिल (ए० सी० सी०/930), 26 मार्च, 1970 ।

तमिल नाडु

कंडासानी रमैया (ए० सी० सी०/14129), 27 फरवरी 1971 ।

एदयारपलयम कृष्णकोनार रामस्वामी (ए० सी० सी०/14130), 21 जुलाई 1972 ।

आन्ध्र प्रदेश

निप्पटल श्रीनिवासुलू (ए० सी० सी०/11014), 1 जुलाई 1972 ।

पंजाब

करमजीत सिंह ग्रेवाल (ए० सी० सी०/6428), 7 अप्रैल 1971 ।

हरिन्दर सिंह, सिधू (ए० सी० सी०/6430), 9 फरवरी 1972 ।

मलिनंदर सिंह लाम्बा (ए० सी० सी०/6431), 25 मार्च 1971 ।

हाकम सिंह ब्रार (ए० सी० सी०/16432) और सबंजीत सिंह बसी (ए० सी० सी०/6433), 21 सितम्बर 1971 ।

राजस्थान

मोहन लाल शर्मा (ए० सी० सी०/9510), 8 जुलाई 1972 ।

एस० एस० तनेजा, कामिक निदेशक

सं० 2094, दिनांक 19 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

सीनियर डिवीजन (थल सेना स्कंध)

कैप्टन की मेजरों के रूप में

महाराष्ट्र

एस० बी० पंडित (ए० सी० सी०/91) और ए० पी० शर्मा (ए० सी० सी०/92), 15 जुलाई 1971 ।

लेफ्टि० की कैप्ट० के रूप में

महाराष्ट्र

बी० आर० जोशी (ए० सी० सी०/467), आर० एम० पै (ए० सी० सी०/487), और एस० बी० पाटिल (ए० सी० सी०/472), 30 जून 1971 ।

के० एस० गुंडावर (ए० सी० सी०/367), 1 अप्रैल 1971 ।

तमिल नाडु

के० आर० वत्कट रामनन (ए० सी० सी०/1404), 1 अप्रैल 1971 ।

उत्तर प्रदेश

जे० पी० श्रीवास्तव (ए० सी० सी०/4418) और एस० पी० सिंह (ए० सी० सी०/4288) 28 जून 1969 ।

आर० ए० सिंह (ए० सी० सी०/4940), यू० बी० सिंह (ए० सी० सी०/4927) और के० एस० चाहर (ए० सी० सी०/4937), 1 अक्टूबर 1971 ।

एस० सी० सिधल (ए० सी० सी०/4258), 26 जुलाई 1967 ।

सोरन सिंह (ए० सी० सी०/4601), 1 अप्रैल 1971 ।

सी० एल० पाडियर (ए० सी० सी०/4488), 27 जून 1970 ।

राजेन्द्र गिरी (ए० सी० सी०/4750), एस० जी० सिबटैन (ए० सी० सी०/4850), मगमू सिंह (ए० सी० सी०/4812), एम० पी० सिंह तोमर (ए० सी० सी०/4851), जी० रामचन्दानी (ए० सी० सी०/4826), आर० सी० ठोडियाल (ए० सी० सी०/4752), एस० एल० मधवाल (ए० सी० सी०/4796), बी० बी० सिंह (ए० सी० सी०/4860), सी० एम० उपाध्याय (ए० सी० सी०/4808) और जे० के० मेडेवेल (ए० सी० सी०/4786), 12 जुलाई 1971 ।

एम० बी० शाह (एम० सी० सी०/4495), 27 जून 1970 ।

दिल्ली

जे० पी० विद्यालंकार (एन० सी० सी०/5584), 9 जुलाई 1971 ।

हिमाचल प्रदेश

रामशेर चन्द (एन० सी० सी०/6147), 9 जुलाई 1971 ।

मैसूर

डी० के० मूर्ति (एन० सी० सी०/7129), 1 अप्रैल 1971 ।

सी० एस० एम० शंकरप्पा (एन० सी० सी०/7211), 30 जून 1971 ।

जे० विश्व नाथ (एन० सी० सी०/7290), 28 नवम्बर 1971

गुजरात

डी० जी० ढाकन (एन० सी० सी०/9834), आर० एन० जायसवाल (एन० सी० सी०/9823), 30 जून 1971 ।

आई० डी० भट्ट (एन० सी० सी०/9775), 24 दिसम्बर, 1970 ।

2/लेफ्टि० की लेफ्टि० के रूप में

महाराष्ट्र

के० के० खाडे (एन० सी० सी०/824), 9 जनवरी 1970 ।

आर० एन० मोधधरे (एन० सी० सी०/820), 21 जुलाई 1971 ।

आर० एल० जरयाल (एन० सी० सी०/761), 12 दिसम्बर 1970 ।

एम० सी० वाकडे (एन० सी० सी०/788), 1 जुलाई 1971

उत्तर प्रदेश

एस० एस० बेहरे (एन० सी० सी०/5328), जगन्नाथ राम (एन० सी० सी०/5333) और एस० डी० तिवारी (एन० सी० सी०/5339), 30 जून 1971 ।

एम० एम० सरन (एन० सी० सी०/5352), ओ० पी० सोटी (एन० सी० सी०/5344), एस० सी० सक्सेना (एन० सी० सी०/5347), एस० सी० कुठारी (एन० सी० सी०/5349), डी० आर० कुमार (एन० सी० सी०/5354), जे० यू० ए० सिद्दिकी (एन० सी० सी०/5362), वार्ड० एन० मिश्र (एन० सी० सी०/5381), एस० एस० सिंह (एन० सी० सी०/5353), एम० पी० सिंह (एन० सी० सी०/5383), और पी० एन० पांडेय (एन० सी० सी०/5367), 21 जुलाई 1971 ।

आर० एस० विष्ट (एन० सी० सी०/5303), एस० पी० शुक्ल (एन० सी० सी०/5316), सी० बी० द्विवेदी (एन० सी० सी०/5312) और डी० आर० शर्मा (एन० सी० सी०/5313), 6 मार्च 1971 ।

बेचन सिंह (एन० सी० सी०/5385), 1 अगस्त 1971 ।

वी० पी० सरभाई (एन० सी० सी०/5393), 11 मई 1967 ।

एन० के० टक्याल (एन० सी० सी०/5387), 21 नवम्बर 1967 ।

दिल्ली

एन० के० भट्टाचार्य (एन० सी० सी०/5627), 31 जुलाई 1969 ।

केरल

जोसेफ अब्राहम (एन० सी० सी०/8085), 5 जून 1971 ।

सीनियर डिबीजन (नौसेना स्कंध)

सब लेफ्टि० की लेफ्टि० के रूप में

तमिल नाडु

के० परमसिवन (एन० सी० सी०/1323), 30 जुलाई 1969 ।

उत्तर प्रदेश

एल० एन० शर्मा (एन० सी० सी० एन०/4625), 1 अप्रैल 1971 ।

जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)

प्रथम अफसरों की मुख्य अफसरों के रूप में

पश्चिम बंगाल

पी० के० मल्लिक (एन० सी० सी० जे०/14166), 16 जुलाई 1969 ।

डी० डी० इंद्रा, (एन० सी० सी० जे०/14223), 15 जुलाई, 1970 ।

द्वितीय अफसरों की प्रथम अफसरों के रूप में

पश्चिम बंगाल

बी० बी० मैती (एन० सी० सी० जे०/14365), 10 नव०, 1965 ।

के० आर० राय (एन० सी० सी० जे०/14451) और के० एल० कुमार (एन० सी० सी० जे०/14452), 1 जनवरी, 1969 ।

एस० सी० मुखर्जी (एन० सी० सी० जे० 14556), 3 अगस्त 1970 ।

एच० एस० बनर्जी (एन० सी० सी० जे०/14611) और बिमलेन्दुदास (एन० सी० सी० जे०/44631) 2 दिसम्बर 1970 ।

एस० भट्टाचार्य (एन० सी० सी० जे०/14508) 20 दिसम्बर 1970 ।

पी० के० रे (एन० सी० सी० जे०/14534), 24 दिसम्बर 1970 ।

दिल्ली

एच० एस० सोहाल (एन० सी० सी० जे०/6163), 1 अगस्त 1971 ।

आर० एन० कश्यप (एन० सी० सी० जे०/6157), 5 दिसम्बर 1971 ।

पंजाब

जे० एस० नागी (एन० सी० सी० जे०/8020), 16 अगस्त 1972 ।

सुरजीत सिंह सन्धू (एन० सी० सी० जे०/7692) 11 अक्टूबर, 1972।

मैसूर

पी० के० वेन्कटरमन्ना (एन० सी० सी० जे०/23131), 7 सितम्बर 1972।

केरल

टी० सी० टामस (एन० सी० सी० जे०/25266), ए० ए० अब्दुल खदेर (एन० सी० सी० जे०/25268) और टी० बी० एस० बारियर (एन० सी० सी० जे०/25283), 3 दिसम्बर 1971।

पी० कादर (एन० सी० सी० जे०/25299), पी० के० पार्थ-सारथी (एन० सी० सी० जे०/25313) के० एम० औसेफ (एन० सी० सी० जे०/25323), के० श्रीधरन नायर (एन० सी० सी० जे०/25307) और ए० बालकृष्ण पणिकर (एन० सी० सी० जे०/25325), 23 फरवरी, 1972।

सी० बी० शंकरानारायणन (एन० सी० सी० जे०/25352) और बी० सी० पांडे (एन० सी० सी० जे०/25353), 14 जुलाई 1972।

के० फिलिप (एन० सी० सी० जे०/25334), 12 अगस्त 1972।

तृतीय अफसर की द्वितीय अफसर के रूप में पांडीचेरी

रथिनासामी वन्दापाणी (एन० सी० सी० जे०/51540), 12 अक्टूबर, 1972।

पश्चिम बंगाल

पी० जी० परोई (एन० सी० सी० जे०/14635), 17 जुलाई 1966।

आर० के० मंडल (एन० सी० सी० जे०/14984), ए० समद (एन० सी० सी० जे०/14987), के० पी० मंडल (एन० सी० सी० जे०/14996), और के० पी० करफा (एन० सी० सी० जे०/15000) 1 सितम्बर 1969।

एस० पी० बन्धोपाध्याय (एन० सी० सी० जे०/14675) 3 दिसम्बर 1966।

जी० एस० पाल (एन० सी० सी० जे०/14846), 18 दिसम्बर 1966।

आर० आर० मंडल (एन० सी० सी० जे०/14717), के० बी० मुखोपाध्याय (एन० सी० सी० जे०/14777), सी० एस० दे (एन० सी० सी० जे०/14791), और ए० के० हाजारा (एन० सी० सी० जे०/14803), 1 जुलाई 1967।

एन० सी० देबनाथ (एन० सी० सी० जे०/14863) 7 जनवरी, 1968।

बी० के० घोष (एन० सी० सी० जे०/14670), 22 मार्च 1968।

जी० के० भावुडी (एन० सी० सी० जे०/15233), 29 अगस्त 1968।

एस० आर० बयेन (एन० सी० सी० जे०/15026) 1 सितम्बर 1969।

ए० बी० कार (एन० सी० सी० जे०/15070), 20 नवम्बर 1969।

बी० बी० बनर्जी (एन० सी० सी० जे०/15077), 24 जनवरी 1970।

जे० आचार्य (एन० सी० सी० जे०/14896), 12 फरवरी 1970।

जी० एस० चट्टोपाध्याय (एन० सी० सी० जे०/15157), 13 सितम्बर 1970।

जी० डी० दास (एन० सी० सी० जे०/15158), 1 अक्टूबर 1970।

आई० डी० बी० साहस (एन० सी० सी० जे०/15134) 27 अक्टूबर 1970।

डी० आर० चटर्जी (एन० सी० सी० जे०/15169), 5 फरवरी 1971।

बिस्ली

एम० पी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/7795), 27 जनवरी 1970।

बी० एस० वत्स (एन० सी० सी० जे०/7802), 24 जनवरी, 1970।

मोहनूदीन (एन० सी० सी० जे०/7813), बी० पी० मंडल (एन० सी० सी० जे०/7814), बी० एस० मलिक (एन० सी० सी० जे०/7817), ओ० एस० तेवतिया (एन० सी० सी० जे०/7821), और डी० एस० नेगी (एन० सी० सी० जे०/7826) 5 जून 1970।

एच० एस० वत्स (एन० सी० सी० जे०/7853), एस० सी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/7861) और हरि राम (एन० सी० सी० जे०/7862), 22 सितम्बर 1970।

बिक्टर सुन्दर सिंह (एन० सी० सी० जे०/6305), 27 अक्टूबर 1972।

राम मेहर सिंह (एन० सी० सी० जे०/6305), 27 अक्टूबर, 1970।

बी० एन० जोशी (एन० सी० सी० जे०/6283), 22 दिसम्बर, 1970।

पंजाब

फकीर सिंह कस्तूरिया, (एन० सी० सी० जे०/8023), 21 मई 1972।

जी० एस० गोसल (एन० सी० सी० जे०/8202), 12 अक्टूबर, 1972।

हिमाचल प्रदेश

एल० आर० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/23721), और सी० आर० सन्दल (एन० सी० सी० जे०/23722) 1 अप्रैल, 1969।

जे० जी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/23689), 19 जून, 1969।

संगत सिंह (एन० सी० सी० जे०/23654), 6 जुलाई, 1969।

केरल

के० जे० रवि (एन० सी० सी० जे०/25512), एम० वी० जान (एन० सी० सी० जे०/25517), के० सी० वर्धी (एन० सी० सी० जे०/25519), और वी० एन० सुब्रमण्य पिल्लै (एन० सी० सी० जे०/25521), 4 जून 1972।

ए० गोपालकृष्णन (एन० सी० सी० जे०/25503), 4 सितम्बर 1972।

जूनियर डिबीजन (नीसेना स्कंध)

द्वितीय अफसरों की प्रथम अफसरों के रूप में

मध्य प्रदेश

एम० सी० मिश्र (एन० सी० सी० जे० एन०/5452), 17 अप्रैल 1972।

केरल

पी० गोपालन (एन० सी० सी० जे० एन०/25336), स्टेनले राबर्ट परम्बथ (एन० सी० सी० जे० एन०/25339), और के० जी० भट (एन० सी० सी० जे० एन०/25340) 2 अगस्त 1972।

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

केरल

पणमपेलविल नारायण पिल्लै वेलयुध कुरुप (एन० सी० सी० जे० एन०/25534) के० जी० रामचन्द्रन पिल्लै (एन० सी० सी० जे० एन०/25535), और के० सुगुनन पिल्लै (एन० सी० सी० जे० एन०/25536), 6 जुलाई 1972।

जूनियर डिबीजन (बायु सेना स्कंध)

द्वितीय अफसर की प्रथम अफसर के रूप में

पश्चिम बंगाल

एन० सी० गांगुली (एन० सी० सी० जे० ए०/14536), 15 जुलाई 1970।

जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)

प्रथम अफसर की मुख्य अफसर के रूप में

तमिल नाडु

एस० सिंगरवेलु (एन० सी० सी० जे०-9269), 1 अगस्त, 1970।

एल० आर० बालसुब्रमण्यम (एन० सी० सी० जे०-9493), 7 जुलाई, 1972।

एस० लूईसामी (एन० सी० सी० जे०-9460), 10 नवम्बर, 1972।

मध्य प्रदेश

डी० एन० करमाहे (एन० सी० सी० जे०-5331), 7 जुलाई, 1972।

पश्चिम बंगाल

एस० डी० प्रसाद (एन० सी० सी० जे०-14321), 8 सितम्बर, 1972।

बिहार

एम० के० वर्मा (एन० सी० सी० जे०-1198), 6 अगस्त, 1970।

उत्तर प्रदेश

एस० एम० जकारिया (एन० सी० सी० जे०-12271), 8 सितम्बर, 1972।

हरियाणा

के० के० मल्होत्रा (एन० सी० सी० जे०-7246), 15 मार्च, 1971।

झारखण्ड

सीताराम राव प्रभाकर (एन० सी० सी० जे०-23022), 8 सितम्बर, 1972।

उड़ीसा

बिद्याधर परीदा (एन० सी० सी० जे०-11069), 30 दिसम्बर, 1969।

द्वितीय अफसरों की प्रथम अफसरों के रूप में

तमिल नाडु

एस० शेशाद्रि (एन० सी० सी० जे०-51114), 31 अक्टूबर, 1969।

सी० ए० श्रीनिवास राघवन (एन० सी० सी० जे०-51290) 14 जुलाई, 1972।

मध्य प्रदेश

एस० एन० द्विवेदी (एन० सी० सी० जे०-5448), 14 मई 1971।

पी एस० बुन्देला (एन० सी० सी० जे०-5475) और के० सी० राजबेद्य (एन० सी० सी० जे०-5481), 3 दिसम्बर, 1971।

पश्चिम बंगाल

एस० सी० सामन्त (एन० सी० सी० जे०-14600), 7 अगस्त, 1971।

बी० सी० सामन्त (एन० सी० सी० जे०-14737), ए० बागची (एन० सी० सी० जे०-14759) और एस० एस० पांड्या (एन० सी० सी० जे०-14816), 1 जुलाई, 1972।

बिहार

एस० डी० सिंह (एन० सी० सी० जे०-1338), और एस० एन० उपाध्याय (एन० सी० सी० जे०-1344), 2 दिसम्बर, 1970।

उत्तर प्रदेश

एन० एस० राठौर (एन० सी० सी० जे०-13161) और उदय राज सिंह शिशोदिया (एन० सी० सी० जे०-13167), 23 फरवरी, 1972

के० एस० बत्ता (एन० सी० सी० जे०-13316), 8 दिसम्बर, 1972 ।

हरियाणा

एस० के० मेहता (एन० सी० सी० जे०-7864), 1 अक्टूबर, 1972 ।

केरल

के० पी० कृष्णन नायर (एन० सी० सी० जे०-25305), 23 फरवरी, 1972 ।

उड़ीसा

एम० मोहराना (एन० सी० सी० जे०-61114), 1 अक्टूबर, 1972 ।

जम्मू व कश्मीर

एम० एल० भट्ट (एन० सी० सी० जे०-26281), 2 दिसम्बर, 1970 ।

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

महाराष्ट्र

भीमराव खोट (एन० सी० सी० जे०-81568), 15 फरवरी, 1973 ।

तमिल नाडु

एस० कृष्णन (एन० सी० सी० जे०-51494), 7 अक्टूबर, 1970 ।

पेरुमल पिल्लै पद्मानी (एन० सी० सी० जे०-51725), 25 दिसम्बर, 1971 ।

आर० नारायणस्वामी (एन० सी० सी० जे०-51541), 10 अक्टूबर, 1972 ।

के० आर० सुब्रमण्यन (एन० सी० सी० जे०-51552), 1 नवम्बर, 1972 ।

एस० वैदिलिगम (एन० सी० सी० जे०-51548), 15 फरवरी, 1973 ।

मध्य प्रदेश

जी० पी० मिश्र (एन० सी० सी० जे०-5496), 16 मार्च, 1968 ।

एस० एल० गुप्त (एन० सी० सी० जे०-5748), 8 फरवरी, 1969 ।

आर० एन० शर्मा (एन० सी० सी० जे०-5619), 5 जून, 1970 ।

आर० के० तिवारी (एन० सी० सी० जे०-5865), 4 मार्च, 1971 ।

आर० वार्डे पांडेय (एन० सी० सी० जे०-5683), और एल० पी० पांडेय (एन० सी० सी० जे०-5689), 21 जून, 1971 ।

आर० एन० मिश्र (एन० सी० सी० जे०-5862), 21 मई, 1972 ।

ओ० पी० अग्रवाल (एन० सी० सी० जे०-5715), और डी० यादव (एन० सी० सी० जे०-5717), और जी० डी० सोनी (एन० सी० सी० जे०-5723), 4 जून, 1972 ।

ओ० एस० कबाले (एन० सी० सी० जे०-5681), 17 जून, 1972 ।

जी० एस० नामक (एन० सी० सी० जे०-5708), 8 अक्टूबर, 1972 ।

पी० डी० बलैया (एन० सी० सी० जे०-5790), 13 अक्टूबर, 1972 ।

एस० सी० ठाकर (एन० सी० सी० जे०-5676), 30 अक्टूबर, 1972 ।

पश्चिम बंगाल

बी० एन० दत्ता (एन० सी० सी० जे०-14742) और एस० सी० पाल (एन० सी० सी० जे०-14794), 1 जुलाई, 1967 ।

ए० आर० राय (एन० सी० सी० जे०-14895), 1 अप्रैल, 1969 ।

एल० एम० मंडल (एन० सी० सी० जे०-14983), और के० सी० मंडल (एन० सी० सी० जे०-15018), 1 दिसम्बर, 1969 ।

बी० एन० रे (एन० सी० सी० जे०-15203), और पी० जे० राव (एन० सी० सी० जे०-15204) 4 जून, 1972 ।

बिहार

जी० एन० प्रसाद (एन० सी० सी० जे०-1472) और देवबली चौबे (एन० सी० सी० जे०-1474), 21 अगस्त 1969 ।

उत्तर प्रदेश

बी० आर० द्विवेदी (एन० सी० सी० जे०-13388), और आर० एस० लाल (एन० सी० सी० जे०-13389), 12 अक्टूबर, 1972 ।

एस० एन० सिंह (एन० सी० सी० जे०-13395), 22 अक्टूबर, 1972 ।

हरियाणा

योगेन्द्र सिंह (एन० सी० सी० जे०-8095), 12 अक्टूबर, 1972 ।

ओ० पी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०-8153), 15 फरवरी, 1973 ।

हिमाचल प्रदेश

लेख राम (एन० सी० सी० जे०-23713), 14 मार्च, 1970 ।

आर० पी० मिश्र (एन० सी० सी० जे०-23745), 1 अप्रैल 1970 ।

नागालैंड

खालो (एन० सी० सी० जे०-480), 12 अक्टूबर, 1972 ।

मैसूर

एम० नारायण राव (एन० सी० सी० जे०-23391), 4 जून, 1972 ।

केरल

के० ए० राधाकृष्णन (एन० सी० सी० जे०-25516), श्रीर ओ० टी० जोसेफ (एन० सी० सी० जे०-25520), 4 जून, 1972 ।

आर० गंगाधरन उन्नीदन (एन० सी० सी० जे०-25523), 12 अक्टूबर, 1972 ।

गुजरात

बी० के० पटेल (एन० सी० सी० जे०-35362), 15 फरवरी, 1973 ।

जम्मू व कश्मीर

एस० डी० सिंह (एन० सी० सी० जे०-26359), 3 जनवरी, 1969 ।

ओ० पी० मेगोत्रा (एन० सी० सी० जे०-26353), 4 जून, 1972 ।

जूनियर डिबीजन (नौसेना स्कंध)

द्वितीय अफसरों की प्रथम अफसरों के रूप में

तमिल नाडु

डी० एल० फिलिप्स (एन० सी० सी० जे० एन०-51241), 15 अगस्त, 1970 ।

वाई० घर्म राज (एन० सी० सी० जे० एन०-51245), 23 अगस्त, 1970 ।

ए० आर० जम्बुकेश्वरन (एन० सी० सी० जे० एन०-51250), 28 जुलाई, 1971 ।

मध्य प्रदेश

बी० एस० सन्त (एन० सी० सी० जे० एन०-5451), 28 जुलाई, 1971 ।

जूनियर डिबीजन (वायु सेना स्कंध)

प्रथम अफसरों की मुख्य अफसरों के रूप में

मध्य प्रदेश

एस० के० चौधरी, (एन० सी० सी० जे० ए०-5350), 25 फरवरी, 1972 ।

दिल्ली

आर० एस० भार्गव (एन० सी० सी० जे० ए०-6075), और ओ० पी० शर्मा (एन० सी० सी० जे० ए०-6078), 4 नवम्बर, 1972 ।

द्वितीय अफसरों की प्रथम अफसरों के रूप में

मध्य प्रदेश

तिम्बक देव (एन० सी० सी० जे० ए०-5454), 7 जुलाई, 1971 ।

बिहार

ए० के० चटर्जी (एन० सी० सी० जे० ए०-1373), 5 जुलाई, 1972 ।

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

मध्य प्रदेश

एस० एन० चौबे (एन० सी० सी० जे० ए०-5540), 4 जुलाई, 1968 ।

बिहार

मुहम्मद तकीउद्दीन (एन० सी० सी० जे० ए०-1552), 27 जुलाई, 1972 ।

जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)

प्रथम अफसरों की मुख्य अफसरों के रूप में

तमिलनाडु

पी० रामचन्द्रन (एन० सी० सी० जे०-9260), 1 अगस्त, 1970 ।

मध्य प्रदेश

आर० के० खत्री (एन० सी० सी० जे०-5320), 5 नवम्बर, 1972 ।

पश्चिम बंगाल

जे० बी० डे (एन० सी० सी० जे०-14219), 15 जुलाई, 1970 ।

पी० के० प्रमाणिक (एन० सी० सी० जे०-14330), 10 नवम्बर, 1972 ।

द्वितीय अफसरों की प्रथम अफसरों के रूप में

महाराष्ट्र

डी० एल० वेसाई (एन० सी० सी० जे०-81093), 17 सितम्बर, 1971 ।

एन० बी० सिंह (एन० सी० सी० जे०-81197), और एस० आर० नीलपंकर (एन० सी० सी० जे०-81211), 1 जुलाई, 1972 ।

आर० एस० भुजबल (एन० सी० सी० जे०-81174), 20 सितम्बर, 1972 ।

पी० एस० चेदे (एन० सी० सी० जे०-81042) और एम० आर० जोशी (एन० सी० सी० जे०-81088), 18 नवम्बर, 1972 ।

डी० एम० शेल्ले (एन० सी० सी० जे०-81228), 5 मार्च, 1973 ।

एस० बी० टोंपे (एन० सी० सी० जे०-81224), 16 मार्च, 1973 ।

एच० के० घवाटे (एन०सी०सी०जे०-81302), 26 मार्च,
1973।

मध्य प्रदेश

यू० एम० केलकर (एन०सी०सी०जे०-5751), 9 अगस्त,
1969।

एस० ए० मजीद (एन०सी०सी०जे०-5334), 23 मार्च,
1970।

कुवंर जयपाल सिंह रजवी (एन०सी०सी०जे०-5429),
13 अगस्त, 1971।

के० एल० पाठक (एन०सी०सी०जे०-5495), 16 मार्च,
1973।

पश्चिम बंगाल

बी० के० बिस्वास (एन०सी०सी०जे०-14582), 20 जुलाई
1971।

एस० ए० हैदर (एन० सी० सी० जे०-14870), 1 मई,
1972।

आई० बी० भंडी (एन०सी०सी०जे०-14732) और एस०
के० चौधरी (एन०सी०सी०जे०-14755), 1 जुलाई, 1972।

एन० एन० सामन्त (एन० सी० सी० जे०-14862), 1
सितम्बर 1972।

ए० के० पाल (एन०सी०सी०जे०-14892), 1 जनवरी
1973।

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

महाराष्ट्र

बी० टी० जवाले (एन०सी०सी०जे०-81263), 22 जून,
1969।

डब्ल्यू० सी० बाधोन्कर (एन०सी०सी०जे०-81431),
27 अक्टूबर, 1970।

एस० जी० धवदे (एन०सी०सी०जे०-81487), 21
फरवरी, 1971।

एस० बी० सूर्यवन्शी (एन०सी०सी०जे०-81536), 4
जून, 1972।

के० बी० नलवाडे (एन०सी०सी०जे०-81548), और एल०
एस० सोनावले (एन०सी०सी०जे०-81549), 12 अक्टूबर,
1972।

पी० डी० कुलकर्णी (एन०सी०सी०जे०-81563) और
बी० टी० पाटिल (एन०सी०सी०जे०-81569), 15 फरवरी,
1973।

पी० आर० काले (एन०सी०सी०जे०-81603) और एस०
बी० निर्मल (एन०सी०सी०जे०-81604), 25 मार्च, 1973।

डी० के० सैन (एन०सी०सी०जे०-81606), 26 मार्च,
1973।

पी० बी० पाटिल (एन०सी०सी०जे०-81611), 1
जून, 1973।

तमिलनाडु

ए० राजशेकरन (एन०सी०सी०जे०-51769), 13 सितम्बर,
1972।

ए० मेंशानमूर्ति (एन०सी०सी०जे०-51568), 5 फरवरी, {
1973।

बी गणपति (एन०सी०सी०जे०-51567) और आर० जेकब
(एन०सी०सी०जे०-51669), 6 फरवरी, 1973।

एस० एच० संतप्पा (एन०सी०सी०जे०-51545) पी० बी०
राजशेखरन (एन०सी०सी०जे०-51549) और एम० सुब्रमण्यन
(एन०सी०सी०जे०-51550), 15 फरवरी, 1973।

एम० जी० सीतुपादियन (एन०सी०सी०जे०-51569),
1 अप्रैल 1973।

एस० अरोकियाराज (एन० सी०सी०जे०-51571), 1
जून 1973।

मध्य प्रदेश

एस० ए० मजीद (एन०सी०सी०जे०-5334), 1 जुलाई,
1964।

यू० एम० केलकर (एन०सी०सी०जे०-5751), 9 अगस्त
1964।

ए० एन० सिंह (एन०सी०सी०जे०-5662), 27 अप्रैल,
1968।

जे० पी० बंन्कर (एन०सी०सी०जे०-5569), 29 मई
1969।

एस० एन० पाण्डे (एन०सी०सी०जे०-5743), 16 अगस्त
1969।

एस० के० जोशी (एन०सी०सी०जे०-5693), 1 जनवरी,
1970।

जी० एस० रंवाल (एन०सी०सी०जे०-5555), 31 मार्च,
1970।

ए० पी० पालीवाल (एन०सी०सी०जे०-5626), 5 जून,
1970।

एस० एस० निर्भय (एन०सी०सी०जे०-5564), 1 जुलाई
1970।

बी० एल० यादव (एन०सी०सी०जे०-5726), 29
नवम्बर, 1972।

एम० के० श्रीवास्तव (एन०सी०सी०जे०-5764), 3
दिसम्बर 1972।

बी० बी० सिंह (एन०सी०सी०जे०-5733), 15 फरवरी,
1973।

आर० के० पाण्डे (एन०सी०सी०जे०-5361) 3 जुलाई,
1963।

पश्चिम बंगाल

आर० आर० डे (एन०सी०सी०जे०-14781), 1 जुलाई
1967।

एम० पाण्डेय (एन०सी०सी०जे०-14933), 16 जून, 1968।

बी० वी० पाल (एन०सी०सी०जे०-14922), 29 मई, 1969।

एन० पी० मिश्र (एन०सी०सी०जे०-14975), के० के० चौबे (एन०सी०सी०जे०-14990), आर० ए० राय (एन०सी०सी०जे०-15015) और ए० आर० बनर्जी (एन०सी०सी०जे०-15045), 1 दिसम्बर, 1969।

ए० सी० खान (एन०सी०सी०जे०-15154), 12 दिसम्बर, 1969।

ए० एम० पलाधी (एन०सी०सी०जे०-15083), 14 मार्च, 1970।

सी० आर० कार (एन०सी०सी०जे०-15086), 20 अप्रैल, 1970।

आर० एम० गुष्ठैत (एन०सी०सी०जे०-14991), 2 मई, 1970।

एम० ए० अंसारी (एन०सी०सी०जे०-14947), 1 जून, 1970।

जे० के० मंडल (एन०सी०सी०जे०-15137), 27 अक्टूबर, 1970।

पी० के० बनर्जी (एन०सी०सी०जे०-15159), 21 फरवरी, 1971।

एच० वी० झा (एन०सी०सी०जे०-15216), 1 जुलाई, 1971।

एन० वी० मैटी (एन०सी०सी०जे०-15217), 1 फरवरी, 1972।

एस० डी० के० बरनवाल (एन०सी०सी०जे०-15223), 12 अक्टूबर, 1972।

जे० मजूमदार (एन०सी०सी०जे०-15234), 1 नवम्बर, 1972।

जूनियर डिप्लोम (नौसेना स्कंध)

प्रथम अफसर की मुख्य अफसर के रूप में

पश्चिम बंगाल

डी० पी० गांगुली (एन० सी०सी०जे०-एन०-14293), 26 जून, 1972।

द्वितीय अफसर की प्रथम अफसर के रूप में

मध्य प्रदेश

आर० के० तिवारी (एन०सी० सी०जे०-एन०-5572), 28 जुलाई, 1971।

पश्चिम बंगाल

आर० तिवारी (एन०सी०सी०जे०-एन०-14797), 2 अगस्त, 1972।

2—204GI/73

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

मध्य प्रदेश

एम० आर० जोशी (एन०सी०सी०जे०-एन०-5637) और बी० एम० त्यागी (एन०सी०सी०जे०-एन०-5639), 26 जून, 1970।

वी० एम० गोयल (एन०सी०पी०जे०-एन०-5736), 6 जुलाई, 1972।

जूनियर डिप्लोम (वायु सेना स्कंध)

प्रथम अफसर की मुख्य अफसर के रूप में

पश्चिम बंगाल

ए० पी० उपाध्याय (एन०सी०पी०जे०-ए०-14296), 9 जून, 1972।

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

पश्चिम बंगाल

एम० एल० राय सिंह (एन०सी०सी०जे०-ए०-15128), 20 जुलाई, 1970।

एस० के० मण्डल (एन०सी०सी०जे०-ए०-15211), 27 जुलाई, 1972।

जूनियर डिप्लोम (थल सेना स्कंध)

प्रथम अफसरों की मुख्य अफसरों के रूप में

मध्य प्रदेश

आर० के० महेंद्रा (एन० सी० सी० जे०-5204), 21 दिसम्बर 1970।

के० डी० झा (एन० सी० सी० जे०-5222), 27 दिसम्बर 1970।

जी० ए० अष्टेकार (एन० सी० सी० जे०-5270), 15 जुलाई 1971।

महाराष्ट्र

वी० एस० अडगांवकर (एन० सी० सी० सी० जे०-81071), एम० ई० परगांवकर (एन० सी०सी० जे०-81079) और एस० के० मेघेकर (एन० सी० सी० जे०-81084), 3 अगस्त 1970।

टी० टी० लवड़े (एन० सी० सी० सी० जे०-81188), 3 दिसम्बर 1971।

पी० एम० गान्धे (एन० सी० सी० जे०-81178), 14 फरवरी 1972।

तमिलनाडु

एम० एस० विश्वनाथन (एन० सी० सी० जे०-51119), 31 अक्टूबर 1969।

मध्य प्रदेश

आर० के० महेंद्रा (एन० सी० सी० जे०-5204), 21 दिसम्बर 1963।

एल० वी० सिंह (एन० सी० सी० जे०-5468), 6 जनवरी 1969।

जे० के० राय (एन० सी० सी० सी० जे०-5702), 1 जुलाई 1968 ।

एम० चन्द्रोकर (एन० सी० सी० जे०-5450), 30 अगस्त 1970 ।

बी० एस० चौधरी (एन० सी० सी० जे०-5433), 2 दिसम्बर 1970 ।

आर० आर० जोशी (एन० सी० सी० जे०-5427), 3 जून 1971 ।

एस० ए० कादर (एन० सी० सी० जे०-5420), 6 जून 1971 ।

एन० एल० नेमा (एन० सी० सी० जे०-5489), 1 सितम्बर 1971 ।

एम० एस० बुन्देला (एन० सी० सी० जे०-5464) और ए० एस० त्रिपाठी (एन० सी० सी० जे०-5465), 23 सितम्बर 1971 ।

जी० आर० तिवारी (एन० सी० सी० जे०-5472), एस० एल० यदुवंशी (एन० सी० सी० जे०-5473), आर्डी० एल० कश्यप (एन० सी० सी० जे०-5474), के० पी० पांडे (एन० सी० सी० जे०-5477) और के० वी० कुरेशी (एन० सी० सी० जे०-5480) 3 दिसम्बर 1971 ।

बी० के० नायडू (एन० सी० सी० जे०-5486), 23 फरवरी 1972 ।

डी० पी० बेर (एन० सी० सी० जे०-5463), 24 जून 1972 ।

पश्चिमी बंगाल

जे० के० गोस्वामी (एन० सी० सी० जे०-14331), 10 नवम्बर 1965 ।

एस० मित्रा (एन० सी० सी० जे०-15189), 10 जून 1968 ।

के० पी० सिंह (एन० सी० सी० जे०-14469), 1 जनवरी 1969 ।

के० सी० दास (एन० सी० सी० जे०-14557) और एच० डी० बुबे (एन० सी० सी० जे०-14559), 3 अगस्त 1970 ।

पी० सी० चन्द्र (एन० सी० सी० जे०-14612) और बी० एन० चटर्जी (एन० सी० सी० जे०-14628), 2 दिसम्बर 1970 ।

एम० पी० भा (एन० सी० सी० जे०-14552), 28 जून 1971 ।

उधोजी राय (एन० सी० सी० जे०-14576), 1 जुलाई 1971 ।

पी० सी० कुंडू (एन० सी० सी० सी० जे०-14634), 3 नवम्बर 1971 ।

एस० एल० चौधरी (एन० सी० सी० जे०-14682), 3 दिसम्बर 1971 ।

डी० चक्रवर्ती (एन० सी० सी० जे०-14752), वी० पी० कयाल (एन० सी० सी० जे०-14754), पी० सी० मुखर्जी (एन० सी० सी० जे०-14767), जी० सी० चक्रवर्ती (एन० सी० सी० जे०-14831), एस० के० मिश्र (एन० सी० सी० जे०-14836)

और एल० के० मण्डल (एन० सी० सी० जे०-14858), 1 जुलाई 1972 ।

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

महाराष्ट्र

राजेश्वर बुबे (एन० सी० सी० जे०-81448), एम० जी० रोथे (एन० सी० सी० जे०-81452), एल० एच० राने (एन० सी० सी० जे०-81461), पी० टी० नेहता (एन० सी० सी० जे०-81471) और डी० आर० मडकमकर (एन० सी० सी० जे०-81488), 21 फरवरी 1971 ।

ए० डी० अहिरे (एन० सी० सी० जे०-81425), 27 अगस्त 1971 ।

वी० पी० जवाल्कर (एन० सी० सी० जे०-81521), 3 मार्च 1972 ।

ए० एन० देशमुख (एन० सी० सी० जे०-81541), 7 मार्च 1972 ।

एच० जी० भोंसले (एन० सी० सी० जे०-81522), 13 मार्च 1972 ।

मध्य प्रदेश

जे० के० राय (एन० सी० सी० जे०-5702), 1 जुलाई 1964 ।

एम० एस० नंदनवन (एन० सी० सी० जे०-5667), 3 मार्च 1969 ।

पी० के० मुखर्जी (एन० सी० सी० जे०-5611), 1 जनवरी 1970 ।

डी० एम० त्रिपाठी (एन० सी० सी० जे०-5621) और एन० पी० शुक्ल (एन० सी० सी० जे०-5629), 5 जून 1970 ।

एस० पी० श्रीवास्तव (एन० सी० सी० जे०-5643) और एच० आर० पाल (एन० सी० सी० जे०-5647), 7 अगस्त 1970 ।

वी० पी० त्रिपाठी (एन० सी० सी० जे०-5657), ए० के० बोस (एन० सी० सी० जे०-5657) और एम० एल० दलाल (एन० सी० सी० जे०-5664), 22 दिसम्बर 1970 ।

एस० के० गुप्त (एन० सी० सी० जे०-5620), 20 फरवरी 1971 ।

एस० सी० गुप्त (एन० सी० सी० जे०-5671), 21 फरवरी 1971 ।

जे० पी० ताम्रकार (एन० सी० सी० जे०-5679), 30 मार्च 1971 ।

एम० एस० सेंगर (एन० सी० सी० जे०-3686), एस० पी० पांडे (एन० सी० सी० जे०-5688), आर० एम० अवस्थी (एन० सी० सी० जे०-5690) और टी० एन० तिवारी (एन० सी० सी० जे०-5691), 21 जून 1971 ।

बी० एस० ठाकुर (एन० सी० सी० जे०-5750), 16 जलाई 1971 ।

पी० ए० भागवत (एन० सी० सी० जे०-5697), 1 नवम्बर 1971 ।

बी० एस० माटी (एन० सी० सी० जे०-5721), 4 जून 1972 ।

पश्चिमी बंगाल

के० सी० दे सरकार (एन० सी० सी० जे०-14820), 1 जुलाई 1967 ।

एस० के० रायचौधरी (एन० सी० सी० जे०-14944), 31 जुलाई 1969 ।

एम० एम० मल (एन० सी० सी० जे०-15013), 1 सितम्बर 1969 ।

बी० सी० रे (एन० सी० सी० जे०-14899), 2 फरवरी 1970 ।

एस० एम० तिवारी (एन० सी० सी० जे०-15165), 21 फरवरी 1971 ।

एस० सी० घोष (एन० सी० सी० जे०-15175), 21 जून 1971 ।

बी० के० घोष (एन० सी० सी० जे०-15140), 27 अक्टूबर 1971 ।

के० एल० मैथी (एन० सी० सी० जे०-15185), 1 नवम्बर 1971 ।

जी० भट्टाचार्य (एन० सी० सी० जे०-15205), 4 जून 1972 ।

के० एन० शोभा (एन० सी० सी० जे०-15218), 1 जुलाई 1972 ।

जूनियर डिबीजन (नौसेना स्कांध)

द्वितीय अफसरों की प्रथम अफसरों के रूप में

तमिलनाडु

मनिका कन्नियन (एन० सी० सी० जे० एन०-51107), 6 अगस्त 1969 ।

मध्य प्रदेश

बी० एस० अधिहारी (एन० सी० सी० जे० एन०-5330), 16 जुलाई 1967 ।

पश्चिमी बंगाल

बी० बी० सिंह (एन० सी० सी० जे० एन०-14641), 28 जुलाई 1971 ।

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

महाराष्ट्र

एम० एस० पंडित (एन० सी० सी० जे० एन०-81510), 7 जुलाई 1971 ।

मध्य प्रदेश

पी० एस० बग्गा (एन० सी० सी० जे० एन०-5634), 18 दिसम्बर 1970 ।

पश्चिमी बंगाल

आर० सी० भट्टाचार्य (एन० सी० सी० जे० एन०-14798), 2 अगस्त 1967 ।

जे० ब्राउन (एन० सी० सी० जे० एन०-15187), ए० के० रे (एन० सी० सी० जे० एन०-15192) और एस० ससमल (एन० सी० सी० जे० एन०-15193), 7 जुलाई 1971 ।

जूनियर डिबीजन (वायु सेना स्कांध)

प्रथम अफसरों की मध्य अफसरों के रूप में

मध्य प्रदेश

के० डी० रत्नपाखी (एन० सी० सी० जे० ए०-5351), 4 अगस्त 1971 ।

पश्चिमी बंगाल

बी० एन० भजूमदार (एन० सी० सी० जे० ए०-14299), 9 जून 1972 ।

द्वितीय अफसरों की प्रथम अफसरों के रूप में

पश्चिमी बंगाल

एन० सी० दास (एन० सी० सी० जे० ए०-14653), टी० बी० गुप्त (एन० सी० सी० जे० ए०-14656) और एस० मुखर्जी (एन० सी० सी० जे० ए०-14659), 7 जुलाई 1971 ।

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

मध्य प्रदेश

एस० एन० द्विवेदी (एन० सी० सी० जे० ए०-5542) और डी० आर० सिन्हा (एन० सी० सी० जे० ए०-5570), 7 फरवरी 1969 ।

जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कांध)

प्रथम अफसरों की मुख्य अफसरों के रूप में

बिहार

आर० पी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०-1201), 26 जुलाई, 1971 ।

आर० डी० विश्वकर्मा (एन० सी० सी० जे०-1240), 10 नवम्बर, 1972 ।

उत्तर प्रदेश

नरबदेश्वर आजाद (एन० सी० सी० जे०-12249), 12 फरवरी, 1971 ।

डी० बी० जोशी (एन० सी० सी० जे०-12285), 10 नवम्बर, 1972 ।

द्वितीय अफसरों की प्रथम अफसरों के रूप में

बिहार

जगदीश प्रसाद (एन० सी० सी० जे०-1289), 3 जुलाई, 1968 ।

बी० पी० सिंह (एन० सी० सी० जे०-1299), 1 जनवरी, 1969।

एस० पी० साह गुप्त (एन० सी० सी० जे०-1312), 31 अक्टूबर, 1969।

जी० एल० सेनापति (एन० सी० सी० जे०-1315), 14 जनवरी, 1970।

चन्द्रिका प्रसाद (एन० सी० सी० जे०-1357) 3 अगस्त, 1970।

उत्तर प्रदेश

एस० एन० त्रिपाठी (एन० सी० सी० जे०-13006), 9 नवम्बर, 1966।

पी० बी० सिंह (एन० सी० सी० जे०-13084), 1 जनवरी, 1970।

भोला सिंह (एन० सी० सी० जे०-13140), 3 दिसम्बर, 1971।

के० एस० अवस्थी (एन० सी० सी० जे०-13131), 19 दिसम्बर, 1971।

नूर मोहम्मद (एन० सी० सी० जे०-13416), 2 फरवरी, 1972।

डी० एन० वर्मा (एन० सी० सी० जे०-13170), 23 फरवरी, 1972।

मदन जीत सिंह विग (एन० सी० सी० जे०-13142), 25 अगस्त, 1972।

एच० सी० माथुर (एन० सी० सी० जे०-13088), 18 नवम्बर, 1972।

दिल्ली

ए० एस० दबास (एन० सी० सी० जे०-6131), 31 अक्टूबर, 1969।

आर० के० पाठक (एन० सी० सी० जे०-6135), 1 नवम्बर, 1969।

यू० एस० दबास (एन० सी० सी० जे०-6166), 2 दिसम्बर, 1970।

एस० पी० वैद (एन० सी० सी० जे०-6158), 1 अगस्त, 1971।

पी० एस० आहूजा (एन० सी० सी० जे०-6156), 28 अगस्त, 1971।

के० सी० राही (एन० सी० सी० जे०-6167) और एस० एस० शर्मा (एन० सी० सी० जे०-6180), 3 दिसम्बर, 1971।

बी० एस० वर्मा (एन० सी० सी० जे०-6170) हजारी लाल कोदान (एन० सी० सी० जे०-6171) और आर्थर वेस्ली (एन० सी० सी० जे०-6173), 13 जुलाई, 1972।

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

बिहार

एन० के० प्रसाद (एन० सी० सी० जे०-1398), 7 अप्रैल, 1969।

एस० सी० द्वारी (एन० सी० सी० जे०-1419), जे० एन० भगत (एन० सी० सी० जे०-1424), बी० चौधरी (एन० सी० सी० जे०-1449), और जगदीश पोद्दार (एन० सी० सी० जे०-1453), 31 जुलाई, 1969।

आर० सी० पी० सिंह (एन० सी० सी० जे०-1458), ए० के० घोष (एन० सी० सी० जे०-1461) और के० पी० साहा (एन० सी० सी० जे०-1473), 21 अगस्त, 1969।

एन० के० झा (एन० सी० सी० जे०-1444) और समरेश चौधरी (एन० सी० सी० जे०-1445), 10 नवम्बर, 1969।

डी० एल० मंडल (एन० सी० सी० जे०-1478), 20 नवम्बर, 1969।

एस० पी० गुप्त (एन० सी० सी० जे०-1500), आर० पी० सिन्हा (एन० सी० सी० जे०-1501) और बी० पी० सिन्हा (एन० सी० सी० जे०-1505), 13 मार्च, 1970।

मोहम्मद सिद्दीक अली (एन० सी० सी० जे०-1506), 12 मई, 1970।

एन० सी० माजी (एन० सी० सी० जे०-1534) और एस० के० लाहिड़ी (एन० सी० सी० जे०-1536), 21 जून, 1971।

हरेन्द्र सिंह (एन० सी० सी० जे०-1542) और आई० डी० सिंह (एन० सी० सी० जे०-1549), 4 जून, 1972।

उत्तर प्रदेश

बी० बी० सिंह (एन० सी० सी० जे०-13093), 2 अगस्त, 1965।

ए० एन० दुबे (एन० सी० सी० जे०-13271), 24 जनवरी, 1970।

आर० एस० वर्मा (एन० सी० सी० जे०-13290), 24 जनवरी, 1971।

पी० आर० शर्मा (एन० सी० सी० जे०-13324), एस० पी० जोशी (एन० सी० सी० जे०-13325), बी० एस० रावत (एन० सी० सी० जे०-1331), के० एन० बादीनी (एन० सी० सी० जे०-13336) और सुख देव (एन० सी० सी० जे०-13337), 21 फरवरी, 1971।

डी० डी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०-13459), 20 अप्रैल, 1971।

इ० यू० खान (एन० सी० सी० जे०-13340), 21 जून, 1971।

पी० एन० श्रीवास्तव (एन० सी० सी० जे०-13353) और एस० पी० दुबे (एन० सी० सी० जे०-13356), 1 नवम्बर, 1971।

एम० एस० थादव (एन० सी० सी० जे०-13369), और
बी० बी० निवारी (एन० सी० सी० जे०-13370), 4 जून,
1972।

अमानत उल्लाह (एन० सी० सी० जे०-13381), राजबीर
सिंह (एन० सी० सी० जे०-13385), के० कुमार (एन० सी०
सी० जे०-13386) और सी० एस० खिरवाड़ (एन० सी० सी०
जे०-13391), 12 अक्टूबर, 1972।

एम० सी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०-13397), 21
अक्टूबर, 1972।

एस० एस० चाहान (एन० सी० सी० जे०-13396),
19 नवम्बर, 1972।

दिल्ली

आर्थर वेस्ली (एन० सी० सी० जे० -6173), 13 जुलाई,
1967।

फतेह सिंह (एन० सी० सी० जे०-7804) और बी० एम०
आनन्द (एन० सी० सी० जे०-7810), 13 मार्च, 1970।

ए० पी० नाथ (एन० सी० सी० जे०-7815), एस० पी०
जैन (एन० सी० सी० जे०-7822), और अक्ताब चन्दर
(एन० सी० सी० जे०-7832), 5 जून, 1970।

दया चन्द (एन० सी० सी० जे०-7852), 19 सितम्बर,
1970।

ए० एस० सैनी (एन० सी० सी० जे०-7855), 22 सितम्बर,
1970।

राजपाल सिंह (एन० सी० सी० जे०-7792) 1 अप्रैल,
1971।

रजबीर सिंह (एन० सी० सी० जे०-7824), 3 अप्रैल,
1971।

एन० एन० शर्मा (एन० सी० सी० जे०-6278), 21 जून,
1971।

एम० एल० मिगलानी (एन० सी० सी० जे०-6290),
7 सितम्बर, 1971।

एम० एस० दबाज (एन० सी० सी० जे०-6292), आर०
बी० शर्मा (एन० सी० सी० जे० -6293), डी० के० भोतम
(एन० सी० सी० जे०-6295), और राम दास (एन० सी०
सी० जे०-6296), 4 जून, 1972।

बी० एल० महाजन (एन० सी० सी० जे०-6311) और
सी० पी० भादिया (एन० सी० सी० जे०-6312), 8 अगस्त,
1972।

एस० एन० शर्मा (एन० सी० सी० जे०-6307), 15
फरवरी, 1973।

जूनियर डिबीजन (सीसेना स्कंध)

प्रथम अफसरों की मुख्य अफसरों के रूप में

दिल्ली

पी० एस० वर्मा (एन० सी० सी० जे० एन०-6069) और
आर० जी० चतुर्वेदी (एन० सी० सी० जे० एन०-6070), 29
जुलाई, 1972।

द्वितीय अफसरों की प्रथम अफसरों के रूप में

दिल्ली

बी० एल० भारद्वाज (एन० सी० सी० जे० एन०-6147),
1 जुलाई, 1970।

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

उत्तर प्रदेश

जसवन्त सिंह (एन० सी० सी० जे० एन०-13363), 7
जुलाई, 1971।

दिल्ली

आई० एस० अरोड़ा (एन० सी० सी० जे० एन०-6287),
20 अप्रैल, 1969।

राजिन्द्र सिंह (एन० सी० सी० जे० एन०-6289), 7
जुलाई, 1971।

एस० एम० थादव (एन० सी० सी० जे० एन०-6302)
और हरभजन सिंह (एन० सी० सी० जे० एन०-6304), 6
जुलाई, 1972।

जूनियर डिबीजन (वायु सेना स्कंध)

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

उत्तर प्रदेश

पीटर एन्थनी (एन० सी० सी० जे० ए०-13376) और
जे० पी० दास (एन० सी० सी० जे० ए०-13377), 27 जुलाई,
1972।

जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)

प्रथम अफसरों की मुख्य अफसरों के रूप में

केरल

आर० कुजुञ्जण पिळ्ळै (एन० सी० सी० जे०-25070),
30 अप्रैल 1972।

पी० एम० जान (एन० सी० सी० जे०-25087) और पी०
बी० चुम्बर (एन० सी० सी० जे०-25098), 4 नवम्बर
1972।

ए० के० जार्ज (एन० सी० सी० जे०-25076) और के० एम०
डोमिनिक (एन० सी० सी० जे०-25100), 10 नवम्बर 1972।

आन्ध्र प्रदेश

टी० सी० वीरप्पा (एन० सी० सी० जे०-9439), 15 मार्च
1972।

एम० पद्म राय (एन० सी० सी० जे०-9520), 26 मई
1972।

द्वितीय अफसरों की प्रथम अफसरों के रूप में

महाराष्ट्र

प्रभाकर जाधव (एन० सी० सी० जे०-81101), 20 अक्टू-
1971।

डी० वी० वेशमुख (एन० सी० सी० जे०-81169), 3
दिसम्बर 1971।

डी० जी० कान्त (एन० सी० सी० जे०-81156), 10 मई 1972 ।

टी० डी० पाटिल (एन० सी० सी० जे०-81194), के० वी० धर्माधिकारी (एन० सी० सी० जे०-81199), पी० के० गुणे (एन० सी० सी० जे०-81206), एम० आई० खान (एन० सी० सी० जे०-81208) और पी० बी० जपासे (एन० सी० सी० जे०-1 जुलाई 1972 ।

आर० एच० वायस (एन० सी० सी० जे०-81153) और भास्कर नरहर राव राठोड (एन० सी० सी० जे०-81212), 26 जुलाई 1972 ।

एम० बी० गोखले (एन० सी० सी० जे०-81170), 18 सितम्बर 1972 ।

आई० जी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०-81148), 2 अक्तूबर 1972 ।

मैसूर

सी० डी० काले (एन० सी० सी० जे०-23169), और एम० सुब्बन्धर (एन० सी० सी० जे०-23170) 14 जुलाई 1972 ।

कामशेट्टी वैजनाथ (एन० सी० सी० जे०-23129), 2 अक्तूबर 1972 ।

केरल

आर० कुन्जुकृष्ण पिल्लै (एन० सी० सी० जे०-25070), 30 अप्रैल 1965 ।

के० माधवन नायर (एन० सी० सी० जे०-25351), 14 जुलाई 1972 ।

आन्ध्र प्रदेश

जी० रामरेड्डी (एन० सी० सी० जे०-41179), 16 अप्रैल 1972 ।

एम० नारायण रेड्डी (एन० सी० सी० जे०-41218), जी० कुल्लयप्पा (एन० सी० सी० जे०-41219) और एम० एफ० साहेब (एन० सी० सी० जे०-41226), 3 दिसम्बर 1971 ।

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

महाराष्ट्र

पी० जे० पाटिल (एन० सी० सी० जे०-81344), 16 अगस्त 1969 ।

एन० जी० थडके (एन० सी० सी० जे०-81282), 22 फरवरी 1970 ।

डी० एच० भोसले (एन० सी० सी० जे०-81419), 27 अक्तूबर 1970 ।

एस० जी० पंडार्गे (एन० सी० सी० जे०-81473), 21 फरवरी 1971 ।

एल० के० देशपांडे (एन० सी० सी० जे०-81381), 2 मई 1971 ।

बी० एच० पाटिल (एन० सी० सी० जे०-81429), 27 अगस्त 1971 ।

यू० एम० जलकोटे (एन० सी० सी० जे०-81460), 24 फरवरी 1972 ।

एम० जी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०-81519), 1 अप्रैल 1972 ।

एल० बी० धोत्रे (एन० सी० सी० जे०-81535), 4 जून 1972 ।

एम० एल० साहनी (एन० सी० सी० जे०-81531), बी० जी० खेर (एन० सी० सी० जे०-81532) और मोहनुद्दीन अहमद (एन० सी० सी० जे०-81533), 2 जुलाई 1972 ।

जी० एस० कोरे (एन० सी० सी० जे०-81556), 14 जुलाई 1972 ।

एन० बी० विरराजकर (एन० सी० सी० जे०-81546), एस० ए० जाधव (एन० सी० सी० जे०-81550), जी० डी० उराडे (एन० सी० सी० जे०-81552), बी० बी० कोटकर (एन० सी० सी० जे०-81553) और एम० के० जोशी (एन० सी० सी० जे०-81554), 12 अक्तूबर 1972 ।

पश्चिम बंगाल

के० आर० प्रमाणिक (एन० सी० सी० जे०-14866), 6 अगस्त 1970 ।

के० पी० महतो (एन० सी० सी० जे०-15145), 25 सितम्बर 1970 ।

मैसूर

एच० जी० चिक्कमुदलैया (एन० सी० सी० जे०-23369), 19 जुलाई 1971 ।

केरल

अब्राहम जार्ज (एन० सी० सी० जे०-25434), 22 सितम्बर 1970 ।

सी० आर० चन्द्रशेखर पणिकर (एन० सी० सी० जे०-25557) 3 जुलाई 1972 ।

पी० ए० वर्धीज (एन० सी० सी० जे०-25524), के० मोईदुद्दीनी (एन० सी० सी० जे०-25527), एम० ए० एन्टनी (एन० सी० सी० जे०-25528), और जी० शेखर पिल्लै (एन० सी० सी० जे०-25529), 12 अक्तूबर 1972 ।

एम० ए० पाशा (एन० सी० सी० जे०-41456), 4 जून 1972 ।

एम० वीरभद्रप्पा (एन० सी० सी० जे०-41462) और एन० एस० कृष्णसूरी (एन० सी० एम० कृष्ण (एन० सी० सी० जे०-41468), एम० ए० कय्यूम (एन० सी० सी० जे०-41469) और बी० सत्यानारायण (एन० सी० सी० जे०-41480), 4 नवम्बर 1972 ।

अूनियर डिबीजन (नीसेना स्कंध)

प्रथम अफसर की मुख्य अफसर के रूप में
पश्चिम बंगाल

एस० भौमिक (एन० सी० सी० जे० एन०-14290), 26
जून 1972 ।

द्वितीय अफसर की प्रथम अफसर के रूप में

महाराष्ट्र

एच० एस० गुरवाणी (एन० सी० सी० जे० एन०-81181),
7 जून 1972 ।

मैसूर

के० आर० रंगास्वामन्ना (एन० सी० सी० जे० एन०-23136),
एच० सूर्यनारायण हन्डे (एन० सी० सी० जे० एन०-23137),
और एच० सदाशिव हेग्डे (एन० सी० सी० जे० एन०-23165), 7
जून 1972 ।

एम० विष्णु मूर्ति (एन० सी० सी० जे० एन०-23280),
2 अगस्त 1972 ।

केरल

के० एम जोसेफ (एन० सी० सी० जे० एन०-25338),
2 अगस्त 1972 ।

आन्ध्र प्रदेश

पी० वेकन्टराय (एन० सी० सी० जे० एन०-41165)
14 सितम्बर 1971 ।

तृतीय अफसर की द्वितीय अफसर के रूप में

महाराष्ट्र

एम० के० पराल्कर (एन० सी० सी० जे० एन०-81333),
31 जुलाई 1970 ।

बी० एम० वन्हादल (एन० सी० सी० जे० एन०-81511),
जी० पार्थसारथी (एन० सी० सी० जे० एन०-81512) और आर०
एन० मोहरिर (एन० सी० सी० जे० एन०-81514), 7 जुलाई
1971 ।

एस० एस० कानिक (एन० सी० सी० जे० एन०-81562),
8 जुलाई 1972 ।

मैसूर

एम० के० सुम्बाराध (एन० सी० सी० जे० एन०-23365),
26 जून 1970 ।

के० आनन्दन (एन० सी० सी० जे० एन०-23410), 6
जुलाई 1972 ।

गोआ

एस० एम० फराओ (एन० सी० सी० जे० एन०-81597),
24 नवम्बर 1972 ।

केरल

एम० आर० यादव (एन० सी० सी० जे० एन०-25559),
12 अक्टूबर 1972 ।

आन्ध्र प्रदेश

पी० एच० टी० प्रकाशन (एन० सी० सी० जे० एन०-41461),
6 जुलाई 1972 ।

अूनियर डिबीजन (बायु सेना स्कंध)

प्रथम अफसर की मुख्य अफसर के रूप में

आन्ध्र प्रदेश

के० सम्बशिव राव (एन० सी० सी० जे० ए०-9399) और
डी० आर० सत्यनारायण (एन० सी० सी० जे० ए०-9424),
4 नवम्बर 1972 ।

द्वितीय अफसर की प्रथम अफसर के रूप में

महाराष्ट्र

बी० एस० पांडे (एन० सी० सी० जे० ए०-81214), 5
जुलाई 1972 ।

मैसूर

एस० परमेश्वरया (एन० सी० सी० जे० ए०-23156),
और यू० मन्नेन्द्रनाथ (एन० सी० सी० जे० ए०-23163), 5
जुलाई 1972 ।

तृतीय अफसर की द्वितीय अफसर के रूप में

पश्चिम बंगाल

वाई० एम० त्रिवेदी (एन० सी० सी० जे० ए०-15213)
और जे० पी० राय (एन० सी० सी० जे० ए०-15214), 27
जुलाई 1972 ।

मैसूर

एच० एस० अब्दुल गफकार (एन० सी० सी० जे० ए०-23399)
और के० बसावाराजू (एन० सी० सी० जे० ए०-23404), 27
जुलाई 1972 ।

अूनियर डिबीजन (बल सेना स्कंध)

प्रथम अफसरों की मुख्य अफसरों के रूप में

पंजाब

पूरन सिंह (एन० सी० सी० जे० -19033), 1 जनवरी
1973 ।

असम

के० सी० बरआ (एन० सी० सी० जे०-60), सी० बोर्दोलोई
(एन० सी० सी० जे०-64), के० सी० दास (एन० सी० सी० जे०-
65) और बी० के० चक्रवर्ती (एन० सी० सी० जे०-68), 19
फरवरी 1972 ।

डी० भगवती (एन० सी० सी० जे०-77), 8 सितम्बर
1972 ।

उड़ीसा

एस० राठ (एन० सी० सी० जे०-11094) 7 जुलाई 1972 ।

द्वितीय अफसरों की प्रथम अफसरों के रूप में

पंजाब

गुरदेव सिंह (एन० सी० सी० जे०-7747), 20 अगस्त 1971

गुरमोत सिंह (एन० सी० सी०जे०-7651), 3 दिसम्बर
1971 ।

बी० पी० भन्डारी (एन० सी० सी० जे०-7649), 13
नवम्बर 1972 ।

करमजीत सिंह (एन० सी०सी०जे०-7770), 26 मार्च
1973 ।

हरियाणा

डी० एन० गुप्त (एन० सी०सी०जे०-8010), 13 अगस्त
1967 ।

हिमाचल प्रदेश

एम० एल० जैज्वी (एन० सी०सी० जे०-7661) और के०
एल० गुप्त (एन० सी०सी० जे०-23562) 3 दिसम्बर 1971 ।

आई० डी० शर्मा (एन० सी०सी०जे०-23544), 6 नवम्बर
1971 ।

डी० आर० नरुला (एन०सी०सी०जे०-7713) और एस०
एस० अकुर (एन० सी० सी० जे०-23614), 13 जुलाई
1972 ।

असम

के० बोरा (एन० सी०सी० जे०-190), आर० सी० हांडीक
(एन० सी० सी० जे०-192), एच० एन० चेतिया (एन० सी०
सी० जे०-197), डी० एन० बरुआ (एन० सी०सी०जे०-211),
डी० कालिता (एन० सी० सी० जे०-215), पी० सी० सरमा
(एन० सी० सी० जे०-220) और पी० के० राहा (एन० सी०
सी० जे०-1872), 3 दिसम्बर 1971 ।

आर० सी० पांडेय (एन० सी०सी० जे०-231), बी० एन०
सरमा (एन०सी०सी० जे०-254) यू० एन० सैकिया (एन० सी०
सी० जे०-266), एस० सी० दाम (एन० सी०सी० जे०-267)
और बी० एन० पाठक (एन० सी० सी० जे०-268) 23
फरवरी 1972 ।

सी० एम० नाथ (एन० सी० सी० जे०-173), 1 अप्रैल
1972 ।

बी० बी० राय (एन० सी० सी० जे०-171), 2 अप्रैल
1972 ।

मुहम्मद अब्दुल समद (एन० सी०सी०जे०-1377), 15
अप्रैल 1972 ।

एन० आर० सैकिया (एन०सी०सी०जे०-1378), 1 मई
1972 ।

एच० सी० तमूली (एन० सी० सी० जे०-292) और बी०
बी० दाम (एन० सी० सी० जे०-318), 12 जुलाई 1972 ।

के० सी० तालुकदार (एन० सी०सी० जे०-174), 6 सितम्बर
1972 ।

जे० एन० बोर्दोलोई (एन० सी०सी० जे०-204), 3 दिसम्बर
1972 ।

डी० फूकोन (एन० सी० सी० जे०-186), 4 दिसम्बर
1972 ।

टी० सी० वारमैन (एन०सी०सी०जे०-176), 15 फरवरी
1973 ।

बी० सी० मेधी (एन०सी०सी०जे०-261), 23 फरवरी
1973 ।

जी० सी० लक्कर (एन० सी० सी०जे०-172), 27 फरवरी
1973 ।

अन्ध्र प्रदेश

बी० रामकृष्ण (एन० सी० सी० जे०/41247), 10 मार्च,
1973 ।

बी० खासिम भली (एन० सी० सी० जे०/41244),
26 मार्च 1973 ।

तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में

पंजाब

बचिसर सिंह लिट्ट (एन० सी० सी० जे०/7812), 31 मई,
1968 ।

जैमल सिंह (एन० सी० सी० जे०/8201), 23 नवम्बर,
1970 ।

एस० पी० एस० द्वार (एन० सी० सी० जे०/ 8045), 24
अगस्त, 1971 ।

हरभजन सिंह (एन० सी० सी० जे०/8039), 1 नवम्बर,
1971 ।

शेर सिंह (एन० सी० सी० जे०/7874), 20 मई, 1972 ।
एस० के० बेरी (एन० सी० सी० जे०/8107), 18 दिसम्बर,
1972 ।

सुरिन्द्र मोहन (एन० सी० सी० जे०/8061), 4 जून,
1972 ।

जे० एस० कहलोन (एन० सी० सी० जे०/8091), 7 जनवरी,
1973 ।

जोगिन्दर सिंह प्रेमी (एन० सी० सी० जे०/8103), 15
फरवरी, 1973 ।

हरियाणा

बीरेन्द्र मेहता (एन० सी० सी० जे०/8287), 23 मार्च,
1970 ।

डी० डी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/7999), 21 फरवरी,
1971 ।

एस० एल० खन्ना (एन० सी० सी० जे०/8097), 26
जुलाई, 1972 ।

डी० सी० मिश्रमात्र (एन० सी० सी० जे०/8149), श्रीर
चन्दर भान गौर (एन० सी० सी० जे०/8216), 10 दिसम्बर,
1972 ।

नीर सिंह (एन० सी० सी० जे०/8094), 12 फरवरी,
1973 ।

जय देव सिंह राठी (एन० सी० सी० जे०/8152), 15
फरवरी, 1973 ।

हिमाचल प्रदेश

आर० के० गुप्त (एन० सी० सी० जे०/23623), 13
जुलाई, 1967 ।

वाई० पी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/23742), 23
अप्रैल, 1967 ।

आर० पी० सैनी (एन० सी० सी० जे०/23729), 20
नवम्बर, 1969 ।

मनोहर लाल (एन० सी० सी० जे०/23743), 11 जुलाई,
1970 ।

असम

ए० के० मरमा (एन० सी० सी० जे०/61372), 4 जून,
1972 ।

एस० चक्रवर्ती (एन० सी० सी० जे०/464), और डी० सी०
बोरा, (एन० सी० सी० जे०/465), 1 नवम्बर, 1971 ।

मोहम्मद नजीमुद्दीन अहमद (एन० सी० सी० जे०/443),
1 नवम्बर, 1972 ।

नागालैण्ड

एम० चक्रवर्ती (एन० सी० सी० जे०/27001), 24 दिसम्बर,
1968 ।

सी० आई० लोदा (एन० सी० सी० जे०/425), 14 मार्च,
1970 ।

पी० अन्गामी (एन० सी० सी० जे०/435), 19 सितम्बर,
1970 ।

आन्ध्र प्रदेश

एन० राम राव (एन० सी० सी० जे०/41471), के०
बेंकटेश्वर राव (एन० सी० सी० जे०/41473) और जी०
मुन्बारासम राजू (एन० सी० सी० जे०/41474), 15 फरवरी,
1973 ।

उड़ीसा

के० पाणिग्राही (एन० सी० सी० जे०/61322), 18
जनवरी, 1970 ।

जगदानन्द धूरिया (एन० सी० सी० जे०/61393), 20
जनवरी, 1973 ।

3—204 GI/73

जूनियर डिबीजन (नौसेना स्कंध)

द्वितीय अफसरों की प्रथम अफसरों के रूप में

हरियाणा

कुलदीप चन्द (एन० सी० सी० जे० एन०/7687), 2
फरवरी, 1972 ।

असम

बेनसन भोबोग (एन० सी० सी० जे० एन०/159), 1 जुलाई,
1970 ।

ए० के० कार० (एन० सी० सी० जे० एन०/272), डी० सी०
ब्रह्मा (एन० सी० सी० जे० एन०/273) और ए० वी० बट्टा-
चार्य (एन० सी० सी० जे० एन०/274), 2 फरवरी, 1972 ।

एन० एन० शर्मा (एन० सी० सी० जे० एन०/278), एस०
गंगोई (एन० सी० सी० जे० एन०/279) और जी० सी० मारदा
(एन० सी० सी० जे० एन०/280), 7 जून, 1972 ।

उड़ीसा

के० सी० पाठी (एन० सी० सी० जे० एन०/61217),
7 जून, 1972 ।

जूनियर डिबीजन (वायु सेना स्कंध)

द्वितीय अफसर की प्रथम अफसर के रूप में

पंजाब

श्री० एम० बेदी (एन० सी० सी० जे० ए०/7727), 3 जुलाई,
1972 ।

असम

जी० एस० चल्लम (एन० सी० सी० जे० ए०/283) और
यू० सी० तालुकदार (एन० सी० सी० जे० ए०/285), 5 जुलाई,
1972 ।

तृतीय अफसर की द्वितीय अफसर के रूप में

हरियाणा

जवाहर लाल (एन० सी० सी० जे० ए०/8112), 8 जून,
1973 ।

सं० 2095, दिनांक 29 जून, 1973—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अफसरों का 15 मार्च, 1973 से राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर से
त्याग-पत्र स्वीकार करते हैं। उनके नामों के सामने कोष्ठकों में
दी गई अवधि वरिष्ठता या पदोन्नति अथवा राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर में
अन्य किसी लाभ के लिए नहीं गिनी जाएगी :—

जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)

महाराष्ट्र

एफ०/श्री० एस० यू० जदगांवकर (एन० सी० सी० जे०/
3260), (1 जुलाई, 1972 से 14 मार्च, 1973) ।

एम०/श्री० पी० वी० घाटगे (एन० सी० सी० जे०/81286),
(12 जून, 72 से 14 मार्च, 73) ।

टी०/श्री० एम० वी० खरादकर (एन० सी० सी० जे०/
81257) (15 जून, 70 से 14 मार्च, 73) ।

तमिल नाडु

सी०/ओ० सी० डी० पेरुमलमामी (एन० सी० सी० जे०/9265), (1 अप्रैल, 72 से 14 मार्च, 73) ।

एफ०/ओ० एन० स्थानुनाथन थाम्पी (एन० सी० सी० जे०/51167), (21 जुलाई 72 से 14 मार्च, 73) ।

टी०/ओ० एस० रामनुजम (एन० सी० सी० जे०/51565), (1 अप्रैल 71 से 14 मार्च 73) ।

मध्य प्रदेश

एस०/ओ० आर० के० तिवारी (एन० सी० सी० जे०/5865), (14 जून, 72 से 14 मार्च, 73) ।

पश्चिम बंगाल

एफ०/ओ० पी० सी० महतो (एन० सी० सी० जे०/14478), (1 अप्रैल, 72 से 14 मार्च, 73) ।

एफ०/ओ० ए० सी० मुखुटी (एन० सी० सी० जे०/14316), (3 जून, 70 से 14 मार्च, 73) ।

एफ०/ओ० ए० के० भट्टाचार्य (एन० सी० सी० जे०/14278), (3 अगस्त, 69 से 14 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० जी० सी० सेनगुप्ता (एन० सी० सी० जे०/14842), (2 जनवरी, 70 से 14 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० एन० बी० सिन्हा (एन० सी० सी० जे०/14565), (27 अप्रैल, 70 से 14 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० एस० सी० पाल (एन० सी० सी० जे०/14615), (5 अगस्त, 68 से 14 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० के० संगपनबय (एन० सी० सी० जे०/14426), (26 जुलाई, 72 से 14 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० एच० पी० सिंह (एन० सी० सी० जे०/14404), (1 फरवरी, 72 से 14 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० एस० के० बिस्वास (एन० सी० सी० जे०/15017), (12 फरवरी, 72 से 14 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० एन० सी० मुखर्जी (एन० सी० सी० जे०/14604), (1 जुलाई, 72 से 14 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० ए० के० चक्रवर्ती (एन० सी० सी० जे०/14738), (22 जनवरी, 71 से 14 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० बी० बनर्जी (एन० सी० सी० जे०/15075), (1 नवम्बर, 69 से 14 मार्च, 73) ।

टी०/ओ० एम० आर० चटर्जी (एन० सी० सी० जे०/14936), (1 जुलाई, 67 से 14 मार्च, 73) ।

टी०/ओ० आर० बाई० राय (एन० सी० सी० जे०/15100), (1 दिसम्बर, 70 से 14 मार्च, 73) ।

टी०/ओ० ए० के० मण्डल (एन० सी० सी० जे०/14674), (16 जून, 71 से 14 मार्च, 73) ।

उत्तर प्रदेश

एस०/ओ० ब्रिजय सिंह (एन० सी० सी० जे०/13185), (8 अप्रैल, 71 से 14 मार्च, 73) ।

असम

एस०/ओ० जे० एन० दास (एन० सी० सी० जे०/378), (12 मई, 71 से 14 मार्च, 73) ।

आन्ध्र प्रदेश

एफ० ओ० पी० बालनाग राव (एन० सी० सी० जे०/41018), (1 दिसम्बर, 72 से 14 मार्च, 73) ।

गुजरात

एस० ओ० के० सी० खरादी (एन० सी० सी० जे०/35303), (1 अप्रैल, 72 से 14 मार्च, 73) ।

जूनियर डिबीजन (नौसेना स्कंध)**तमिलनाडु**

(एस०/ओ० सी० आई० हसाक (एन० सी० सी० जे० एन०/51508), (15 फरवरी, 72 से 14 मार्च, 73) ।

जूनियर डिबीजन (बायु सेना स्कंध)**पश्चिम बंगाल**

टी०/ओ० आर० एस० सिंह (एन० सी० सी० जे० ए०/14657), (1 जनवरी, 68 से 14 मार्च, 73) ।

असम

एफ०/ओ० सी० सी० रौथ (एन० सी० सी० जे० ए०/114), (1 नवम्बर, 71 से 14 मार्च, 73) ।

राजस्थान

टी०/ओ० आर० एस० वर्मा (एन० सी० सी० जे० ए०/31436), (28 अगस्त 72 से 14 मार्च, 73) ।

सं० 2096, दिनांक 25 अक्तूबर, 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसरों को 24 अक्तूबर, 1972 से राष्ट्रीय केडेट कोर से सेवा मुक्त करते हैं। उनके नामों के सामने कोष्ठकों में दी गई अवधि बरिष्ठता या पदोन्नति अथवा एन० सी० सी० में किन्हीं अन्य लोगों के लिए नहीं गिनी जायेगी :—

जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)**महाराष्ट्र**

एस०/ओ० बापू राव शेंभे (एन० सी० सी० जे०/81255), (31 मार्च, 70 से 23 अक्तूबर, 72) ।

एस०/ओ० डी० एच० पाटिल (एन० सी० सी० जे०/81463), (14 जून, 1972 से 23 अक्तूबर, 72) ।

एस०/ओ० के० एम० पाटिल (एन० सी० सी० जे०/81272), (1 जून, 72 से 23 अक्तूबर, 72) ।

टी०/ओ० एम० बी० चलबाड़ (एन० सी० सी० जे०/81625), (8 जून, 71 से 23 अक्तूबर, 72) ।

तमिलनाडु

एफ०/ओ० वी० जोसेफ आशीर्वादम (एन० सी० सी० जे०/9267), (1 मार्च, 70 से 23 अक्टूबर, 72)।

एस०/ओ० पी० सुन्दरराजन (एन० सी० सी० जे०/51421), (26 मई, 71 से 23 अक्टूबर, 72)।

टी०/ओ० ए० सांती (एन० सी० सी० जे०/51574), (1 जुलाई, 72 से 23 अक्टूबर, 72)।

टी०/ओ० एम० बी० कृष्णमूर्ति (एन० सी० सी० जे०/51666), (16 दिसम्बर, 71 से 23 अक्टूबर, 72)।

मध्य प्रदेश

एस०/ओ० के० एल० गढ़पायले (एन० सी० सी० जे०/5609), (30 जून, 70 से 23 अक्टूबर, 72)।

पश्चिमी बंगाल

सी०/ओ० जे० एन० चटर्जी (एन० सी० सी० जे०/14096), (1 मई, 65 से 23 अक्टूबर, 72)।

एफ०/ओ० एस० के० चटराज (एन० सी० सी० जे०/14285), (1 जून, 71 से 23 अक्टूबर, 72)।

एफ०/ओ० एस० एन० राय (एन० सी० सी० जे०/14406), (11 जून, 71 से 23 अक्टूबर, 72)।

एस०/ओ० पी० के० चक्रवर्ती (एन० सी० सी० जे०/15156), (14 मार्च, 72 से 23 अक्टूबर, 72)।

एस०/ओ० बी० बी० चक्रवर्ती (एन० सी० सी० जे०/14056), (15 जनवरी, 60 से 23 अक्टूबर, 72)।

एस०/ओ० जे० एन० गोस्वामी (एन० सी० सी० जे०/14120), (1 मार्च, 60 से 23 अक्टूबर, 72)।

एस०/ओ० ओ० कुंजाचन (एन० सी० सी० जे०/14220), (9 जुलाई, 60 से 23 अक्टूबर, 72)।

एस०/ओ० धीरेन्द्र मुब्बा (एन० सी० सी० जे०/14281), (23 फरवरी, 63 से 23 अक्टूबर, 72)।

एस०/ओ० एन० एस० छेत्री (एन० सी० सी० जे०/14393), (5 अप्रैल, 63 से 23 अक्टूबर, 72)।

एस०/ओ० के० बी० घोष (एन० सी० सी० जे०/14856), (1 अप्रैल, 69 से 23 अक्टूबर, 72)।

एस०/ओ० एस० सिंह (एन० सी० सी० जे०/14283), (2 दिसम्बर, 60 से 23 अक्टूबर, 72)।

एस०/ओ० एच० कांजीलाल (एन० सी० सी० जे०/14163), (1 दिसम्बर, 63 से 23 अक्टूबर, 72)।

टी०/ओ० जी० पी० मिश्र (एन० सी० सी० जे०/14753), (15 नवम्बर, 66 से 23 अक्टूबर, 72)।

टी०/ओ० पी० सी० आचार्य (एन० सी० सी० जे०/14448), (28 नवम्बर, 62 से 23 अक्टूबर, 72)।

टी०/ओ० ए० के० चक्रवर्ती (एन० सी० सी० जे०/14443), (1 अगस्त, 63 से 23 अक्टूबर, 72)।

उत्तर प्रदेश

एस०/ओ० के० के० आर्य (एन० सी० सी० जे०/13104), (1 अप्रैल, 69 से 23 अक्टूबर, 72)।

पंजाब

एस०/ओ० एम० एस० सिधू (एन० सी० सी० जे०/8123), (11 मई, 71 से 23 अक्टूबर, 72)।

एस०/ओ० मोहिन्द्र सिंह (एन० सी० सी० जे०/7989), (22 मार्च, 72 से 23 अक्टूबर, 72)।

टी०/ओ० ए० एस० खुराना (एन० सी० सी० जे०/8195), (7 अगस्त, 71 से 23 अक्टूबर, 72)।

टी०/ओ० राजिन्द्र सिंह (एन० सी० सी० जे०/8206), (1 मई, 72 से 23 अक्टूबर, 72)।

टी०/ओ० हरचरण सिंह भाटिया (एन० सी० सी० जे०/8067), (7 अप्रैल, 71 से 23 अक्टूबर, 72)।

टी०/ओ० गुरदीप सिंह (एन० सी० सी० जे०/8135), (17 अप्रैल, 72 से 23 अक्टूबर, 72)।

हरियाणा

टी०/ओ० एम० एस० मलिक (एन० सी० सी० जे०/8101), (27 जनवरी, 72 से 23 अक्टूबर, 72)।

टी०/ओ० एच० ओ० सान्वाल (एन० सी० सी० जे०/8285), (23 मई, 72 से 23 अक्टूबर, 72)।

केरल

एफ०/ओ० जे० जोसेफ (एन० सी० सी० जे०/25206), (19 अप्रैल, 72 से 23 अक्टूबर, 72)।

एफ०/ओ० ए० डी० जोस (एन० सी० सी० जे०/25122), (31 दिसम्बर, 70 से 23 अक्टूबर, 72)।

टी०/ओ० पी० के० अलेक्जेंडर (एन० सी० सी० जे०/25513), (1 जून, 72 से 23 अक्टूबर, 72)।

अन्ध्र प्रदेश

एफ०/ओ० ए० वेंकटेश्वरलु (एन० सी० सी० जे०/41161), (6 मई, 72 से 23 अक्टूबर, 72)।

एफ०/ओ० एम० डी० प्रकाश राव (एन० सी० सी० जे०/9522), (1 अप्रैल, 68 से 23 अक्टूबर, 72)।

एम०/ओ० बी० जी० राजकुमार (एन० सी० सी० जे०/41252), (25 जून, 72 से 23 अक्टूबर, 72)।

टी०/ओ० एम० श्री रामलू (एन० सी० सी० जे०/41430), (15 जून, 70 से 23 अक्टूबर, 72)।

टी०/ओ० ए० सुब्बा रामी रेड्डी (एन० सी० सी० जे०/41454), (17 अगस्त, 70 से 23 अक्टूबर, 72)।

राजस्थान

एस०/ओ० सी० एल० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/31141), (14 नवम्बर, 69 से 23 अक्टूबर, 72)।

एस०/ओ० लेख सिंह (एन० सी० सी० जे०/31153),
(8 अक्टूबर, 70 से 23 अक्टूबर, 72) ।

एस०/ओ० टी० एस० लक्षक (एन० सी० सी० जे०/31112),
(13 अक्टूबर, 70 से 23 अक्टूबर, 72) ।

एस०/ओ० ए० एस० राठीर (एन० सी० सी० जे०/31311).
(8 नवम्बर, 70 से 23 अक्टूबर, 72) ।

टी०/ओ० के० सी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/31367),
(5 दिसम्बर, 70 से 23 अक्टूबर, 72) ।

गुजरात

एस०/ओ० डी० एन० पी० सिन्हा (एन० सी० सी० जे०/
35354), (7 जुलाई, 72 से 23 अक्टूबर, 72) ।

टी०/ओ० एस० वी० पटेल (एन० सी० सी० जे०/35441),
(1 जून, 72 से 23 अक्टूबर, 72) ।

टी०/ओ० पी० जे० मेहता (एन० सी० सी० जे०/35432),
(29 अप्रैल, 72 से 23 अक्टूबर, 72) ।

टी०/ओ० टी० एम० माधीवाला (एन० सी० सी० जे०/
35379), 6 अक्टूबर, 71 से 23 अक्टूबर, 72) ।

जूनियर डिबीजन (नौसेना स्कंध)

मध्य प्रदेश

एफ०/ओ० वी० एस० अधिकारी (एन० सी० सी० जे० एन०/
5330), (28 मई, 71 से 23 अक्टूबर, 72) ।

पश्चिमी बंगाल

एफ०/ओ० एल० एन० मुखर्जी (एन० सी० सी० जे० एन०/
14289), (11 नवम्बर, 69 से 23 अक्टूबर, 72) ।

पंजाब

एस०/ओ० जतिन्द्र वर्मा (एन० सी० सी० जे० एन०/7905),
(4 अप्रैल, 72 से 23 अक्टूबर, 72) ।

जूनियर डिबीजन (वायु सेना स्कंध)

महाराष्ट्र

एस०/ओ० वी० मेशन (एन० सी० सी० जे० ए०/81315),
(1 जून, 70 से 23 अक्टूबर, 72) ।

तमिलनाडु

एफ०/ओ० चंडालचंदी थेवर थन्कप्पन (एन० सी० सी० जे० ए०/
51139), (14 सितम्बर, 71 से 23 अक्टूबर, 72) ।

पश्चिमी बंगाल

एस०/ओ० एस० के० वासु (एन० सी० सी० जे० ए०/
14655), (8 दिसम्बर, 68 से 23 अक्टूबर, 72) ।

उत्तर प्रदेश

एस०/ओ० एम० आर० गुप्त (एन० सी० सी० जे० ए०/
13111), (1 अगस्त, 71 से 23 अक्टूबर, 72) ।

पंजाब

टी०/ओ० तरसेम सिंह (एन० सी० सी० जे० ए०/8278),
(9 मई, 72 से 23 अक्टूबर, 72) ।

आन्ध्र प्रदेश

एस०/ओ० सी० जी० पांडुरंगम (एन० सी० सी० जे० ए०/
41274), (16 जुलाई, 70 से 23 अक्टूबर, 72) ।

राजस्थान

एफ०/ओ० डी० के० सिंह (एन० सी० सी० जे० ए०/31075),
(1 जुलाई, 69 से 23 अक्टूबर, 72) ।

एम०/ओ० आर० के० गुप्त (एन० सी० सी० जे० ए०/
31269), (1 अगस्त, 68 से 23 अक्टूबर, 72) ।

एस०/ओ० एस० बी० एन० श्रीवास्तव (एन० सी० सी० जे० ए०/
31215), (16 फरवरी, 71 से 23 अक्टूबर, 72) ।

गुजरात

एस०/ओ० एस० एम० पठान (एन० सी० सी० जे० ए०/
35422), (1 अप्रैल, 72 से 23 अक्टूबर, 72) ।

सं० 2097, दिनांक 29 जून, 1973—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अफसरों को 9 मार्च 1973, से राष्ट्रीय कैंडेट कोर में
सेवामुक्त करते हैं । उनके नामों के सामने कोष्ठकों में दी गई
अर्नाधि बरिष्ठता या पदोन्नति अथवा राष्ट्रीय कैंडेट कोर में अन्य
किसी लाभ के लिए नहीं गिनी जाएगी :—

जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)

महाराष्ट्र

एफ०/ओ० पी० जी० डालवी (एन० सी० सी० जे०/81016),
(1 जनवरी, 73 से 8 मार्च, 73) ।

एफ०/ओ० एस० ए० थोम्बरे (एन० सी० सी० जे०/
81165), (24 जुलाई, 72 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० ए० डी० अहीरे (एन० सी० सी० जे०/81425),
(12 जून, 72 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० चन्द्रकान्त राव पांडे (एन० सी० सी० जे०/
81291), (1 जुलाई, 71 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० जी० बी० क्षीरसागर (एन० सी० सी० जे०/
81307), (10 नवम्बर, 72 से 8 मार्च, 72) ।

एस०/ओ० के० डी० वशटा (एन० सी० सी० जे०/81372),
(1 जून, 72 से 8 मार्च, 73) ।

एफ०/ओ० डी० आर० वाधे (एन० सी० सी० जे०/81372),
(1 जुलाई, 72 से 8 मार्च, 73) ।

तमिलनाडु

टी०/ओ० एम० एडविन (एन० सी० सी० जे०/51575),
(10 अगस्त, 72 से 8 मार्च, 73) ।

मध्य प्रदेश

एस०/ओ० जी० पी० मिश्र (एन० सी० सी० जे०/5496),
(4 अक्टूबर, 69 से 8 मार्च, 73) ।

टी०/ओ० आर० के० गोयल (एन० सी० सी० जे०/5847),
(25 जुलाई, 72 से 8 मार्च, 73) ।

एम०/ओ० एम० एल० गुप्ता (एन० सी० सी० जे०/5748),
(1 फरवरी, 70 से 8 मार्च, 73) ।

टी०/ओ० बी० एस० राजपूत (एन० सी० सी० जे०/5845),
(13 नवम्बर, 72 से 8 मार्च, 73) ।

टी०/ओ० आर० एस० सोनी (एन० सी० सी० जे०/5818),
(30 जून, 72 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० सी० वी० परांजपे (एन० सी० सी० जे०/5368),
(3 जुलाई, 70 से 8 मार्च, 73) ।

टी०/ओ० पी० एम० कुलकर्णी (एन० सी० सी० जे०/5882),
(14 अक्टूबर, 72 से 8 मार्च, 73) ।

एफ०/ओ० जी० वी० प्रसाद (एन० सी० सी० जे०/5311),
(16 जुलाई, 71 से 8 मार्च, 73) ।

पश्चिम बंगाल

एस०/ओ० गौतम मेनगुप्ता (एन० सी० सी० जे०/14745),
(12 अगस्त, 71 से 8 मार्च, 73) ।

एफ०/ओ० जोसेफ डि, सा (एन० सी० सी० जे०/14372),
(1 मई, 72 से 8 मार्च, 73) ।

एफ०/ओ० पी० के० करमाकर (एन० सी० सी० जे०/
14399), (6 जनवरी, 69 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० एस० के० ब्रसाक (एन० सी० सी० जे०/14553),
(1 जून, 69 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० आर० डी० राय (एन० सी० सी० जे०/14062),
(1 जुलाई, 69 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० आर० एम० घोष (एन० सी० सी० जे०/14649),
(14 अप्रैल, 69 से 8 मार्च, 73) ।

टी०/ओ० पी० के० खानरा (एन० सी० सी० जे०/14974),
(7 अगस्त, 69 से 8 मार्च, 73) ।

एफ०/ओ० बी० के० विष्णु (एन० सी० सी० जे०/14312),
(9 जुलाई, 67 से 8 मार्च, 73) ।

एफ०/ओ० ए० मुखर्जी (एन० सी० सी० जे०/14193),
(15 फरवरी, 63 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० वी० जी० बनर्जी (एन० सी० सी० जे०/14271),
(1 मई, 59 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० एस० डी० मुखर्जी (एन० सी० सी० जे०/14902),
(30 अक्टूबर, 69 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० बी० दत्तार (एन० सी० सी० जे०/14700),
(10 जुलाई, 69 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० के० सी० मण्डल (एन० सी० सी० जे०/15018),
(1 अप्रैल, 70 से 8 मार्च, 73) ।

सी०/ओ० एम० एल० चटर्जी (एन० सी० सी० जे०/14418),
(1 जुलाई, 69 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० एम० बंधोपाध्याय (एन० सी० सी० जे०/
14959), (1 मई, 69 से 8 मार्च, 73) ।

एफ०/ओ० ए० एन० पांडेय (एन० सी० सी० जे०/14190),
(25 अक्टूबर, 69 से 8 मार्च, 73) ।

पंजाब

एस०/ओ० नच्छतर सिंह (एन० सी० सी० जे०-7967),
(23 फरवरी 72 से 8 मार्च 73) ।

टी० /ओ० योगिन्द्र पाल (एन० सी० सी० जे०-8031)
(16 फरवरी 72 से 8 मार्च 73) ।

टी०/ओ० दर्शन सिंह (एन० सी० सी० जे०-8188), (1
सितम्बर 72 से 8 मार्च 73) ।

टी०/ओ० गुरमीत सिंह मुलतानी (एन० सी० सी० जे०-8246),
(12 सितम्बर 72 से 8 मार्च 73) ।

एस० ओ० के० वी० धवन (एन० सी० सी० जे०-8001),
(11 जुलाई 72 से 8 मार्च 73) ।

हरियाणा

टी०/ओ० कंबर सिंह राव (एन० सी० सी० जे०-8159),
(2 फरवरी 72 से 8 मार्च 73) ।

टी०/ओ० डी० पी० अंगीष (एन० सी० सी० जे०-8235),
(28 मार्च 72 से 8 मार्च 73) ।

हिमाचल प्रदेश

टी०/ओ० जी० के० सूद (एन० सी० सी० जे०-23746),
(1 अक्टूबर 71 से 8 मार्च 73) ।

मैसूर

एफ०/ओ० एच० डी० कस्तुरी (एन० सी० सी० जे०/23035)
(1 नवम्बर, 72 से 8 मार्च 73) ।

एफ०/ओ० पी० वी० ठाकरे (एन० सी० सी० जे०/23104)
(2 दिसम्बर, 72 से 8 मार्च 73) ।

केरल

एस०/ओ० एम० के० मैथ्यू (एन० सी० सी० जे०/25442)
(15 जुलाई 72 से 8 मार्च 73) ।

आन्ध्र प्रदेश

एस०/ओ० पी० मुरलीधर (एन० सी० सी० जे०/41436),
(28 अक्टूबर, 71 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० जी० जे० एस० सूर्य राव (एन० सी० सी० जे०/
41495), (3 अगस्त, 72 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० वी० वेणुगोपाल राव (एन० सी० सी० जे०/
41400), (26 जुलाई, 71 से 8 मार्च, 73) ।

राजस्थान

एस०/ओ० एम० एल० बनमाली (एन० सी० सी० जे०/
31327), (7 अगस्त, 72 से 8 मार्च, 73) ।

टी०/ओ० मोहन लाल शर्मा (एन० सी० सी० जे०/31314),
(23 सितम्बर, 69 से 8 मार्च, 73) ।

एस०/ओ० के० सी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/31275),
(10 जुलाई, 71 से 8 मार्च, 73)।

एस०/ओ० जे० एस० चौहान (एन० सी० सी० जे०/31247),
(8 सितम्बर, 71 से 8 मार्च, 73)।

सी०/ओ० एस० पी० माथुर (एन० सी० सी० जे०/24023),
(29 जुलाई, 71 से 8 मार्च, 73)।

एफ०/ओ० आर० आर० सिंह दीक्षित (एन० सी० सी० जे०/
31016) /10 सितम्बर, 71 से 8 मार्च, 73)।

टी०/ओ० ए० आर० पुरोहित (एन० सी० सी० जे०/
31383), (6 अगस्त, 71 से 8 मार्च, 73)।

एफ०/ओ० एस० पी० चतुर्वेदी (एन० सी० सी० जे०/
31131), (7 सितम्बर, 71 से 8 मार्च, 73)।

एफ०/ओ० डी० सी० जैन (एन० सी० सी० जे०/31090),
(7 नवम्बर, 71 से 8 मार्च, 73)।

एस०/ओ० एम० एल० आर्य (एन० सी० सी० जे०/31023),
(1 दिसम्बर, 68 से 8 मार्च, 73)।

एस०/ओ० एच० एस० अग्रवाल (एन० सी० सी० जे०/
31203), (25 जुलाई, 67 से 8 मार्च, 73)।

टी०/ओ० एस० एल० एस० शरण (एन० सी० सी० जे०/
31321), (1 दिसम्बर, 68 से 8 मार्च, 74)।

गुजरात

टी०/ओ० बी० बी० मोरी (एन० सी० सी० जे०/35460),
(14 अक्टूबर, 72 से 8 मार्च, 73)।

जम्मू व कश्मीर

टी०/ओ० डी० आर० चौधरी (एन० सी० सी० जे०/26321),
(1 दिसम्बर, 71 से 8 मार्च, 73)।

जूनियर डिबीजन (मोसेना स्कंध)

पश्चिमी बंगाल

सी०/ओ० पी० के० मल्लिक (एन० सी० सी० जे० एन०/
14078), (2 फरवरी, 64 से 8 मार्च, 73)।

दिल्ली

एस०/ओ० एस० एस० राय (एन० सी० सी० जे० एन०/
7843), (7 सितम्बर, 72 से 8 मार्च, 73)।

मंसूर

टी०/ओ० पी० वेंकटरमन (एन० सी० सी० जे० एन०/
23429), (18 सितम्बर, 72 से 8 मार्च, 73)।

राजस्थान

एस०/ओ० एस० पी० माथुर (एन० सी० सी० जे० एन०/
31281), (8 सितम्बर, 71 से 8 मार्च, 73)।

जूनियर डिबीजन (बायु सेना स्कंध)

महाराष्ट्र

एस०/ओ० ए० के० देशपांडे (एन० सी० सी० जे० ए०/
81230), (12 अगस्त, 72 से 8 मार्च, 73)।

तमिल नाडु

टी०/ओ० वी० चेल्लप्पन (एन० सी० सी० जे० ए०/61556),
(16 अप्रैल, 72 से 8 मार्च, 73)।

पश्चिम बंगाल

टी०/ओ० एन० जी० घोष (एन० सी० सी० जे० ए०/
14298), (1 जनवरी, 60 से 8 मार्च, 73)।

दिल्ली

एस०/ओ० एन० सी० गुप्ता (एन० सी० सी० जे० ए०/
7839), (1 मार्च, 72 से 8 मार्च, 73)।

पंजाब

एस०/ओ० भूपिन्द्र साही (एन० सी० सी० जे० ए०/7894),
(5 अगस्त, 72 से 8 मार्च, 73)।

हरियाणा

टी०/ओ० ओ० पी० शर्मा (एन० सी० सी० जे० ए०/8108),
(7 दिसम्बर, 72 से 8 मार्च, 73)।

उत्तराखण्ड

एफ०/ओ० आर० के० पाठक (एन० सी० सी० जे० ए०/
7555), (6 अक्टूबर, 72 से 8 मार्च, 73)।

आन्ध्र प्रदेश

एस०/ओ० आर० वी० एस० हनुमन्त राव (एन० सी० सी०
जे० ए०/41419), (10 नवम्बर, 71 से 8 मार्च, 73)।

राजस्थान

एस०/ओ० आर० आर० सिंह (एन० सी० सी० जे० ए०/
31219), (10 सितम्बर, 71 से 8 मार्च, 73)।

सं० 2098, दिनांक 29 जून 1973—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अफसरों को उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से राष्ट्रीय
कैडेट कोर से सेवामुक्त करते हैं :—

जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)

महाराष्ट्र

सी०/ओ० आर० एस० महाजन (एन० सी० सी० जे०/
5059)—15 सितम्बर 1972।

तमिल नाडु

एफ०/ओ० टी० पी० सी० शनमुगम (एन० सी० सी० जे०/
9270)—8 नवम्बर 1968।

मध्य प्रदेश

एफ०/ओ० एच० एस० श्रीवास्तव (एन० सी० सी० जे०
5218)—1 जुलाई 1970।

उत्तर प्रदेश

एस०/ओ० एन० डी० मल्ल (एन० सी० सी० जे०/13210)
—31 जनवरी 1970।

पंजाब

सी०/ओ० मेहर सिंह (एन० सी० सी० जे०/7264)---
17 अक्टूबर 1972 ।

आन्ध्र प्रदेश

एम०/ओ० टी० राम राव (एन० सी० सी० जे०/41249)
---4 दिसम्बर 1970 ।

जूनियर डिवीजन (वायु सेना स्क्वॉड)

मध्य प्रदेश

एम०/ओ० एस० एन० चौधरी (एन० सी० सी० जे० ए०/
5540)---1 जुलाई, 1969 ।

जूनियर डिवीजन (थल सेना स्क्वॉड)

महाराष्ट्र

एफ०/ओ० डब्ल्यू० डी० ठाकरे (एन० सी० सी० जे०/
5216)---22 दिसम्बर 1972 ।

एफ०/ओ० डी० बी० खजूरकर (एन० सी० सी० जे०/
5225)---1 अप्रैल 1972 ।

एस०/ओ० भास्कर राव चिंचोल्कर (एन० सी० सी० जे०/
81100)---1 अप्रैल 1971 ।

तमिल नाडु

सी०/ओ० एन० अश्लदास (एन० सी० सी० जे०/9213)---
27 फरवरी 1973 ।

टी०/ओ० एन० कृष्ण पिल्लै (एन० सी० सी० जे०/51656)
---2 जुलाई 1971 ।

टी०/ओ० पी० एन० चेल्लप्पन (एन० सी० सी० जे०/51648)
---21 जुलाई 1971 ।

मध्य प्रदेश

एफ०/ओ० बी० एन० पांड्या (एन० सी० सी० जे०/5289)
---16 जनवरी 1971 ।

एस०/ओ० मुहम्मद हुसैन (एन० सी० सी० जे०/5438)
---13 दिसम्बर 1972 ।

एस०/ओ० आर० एस० चेन्नायन (एन० सी० सी० जे०/
5328)---10 अप्रैल 1961 ।

टी०/ओ० जी० एम० मेहता (एन० सी० सी० जे०/5859)
---1 मार्च 1967 ।

पश्चिम बंगाल

सी०/ओ० एम० पी० चटर्जी (एन० सी० सी० जे०/14061)
---1 अप्रैल 1971 ।

सी०/ओ० एन० मन्ना (एन० सी० सी० जे०/14069)---
1 जनवरी 1971 ।

सी०/ओ० आर० सी० साहा (एन० सी० सी० जे०/14144)
---1 जनवरी 1971 ।

सी०/ओ० एन० सी० डे० दास (एन० सी० सी० जे०/
14175)---1 अप्रैल 1971 ।

सी०/ओ० आर० सी० पाल (एन० सी० सी० जे०/14160)
---1 मई 1971 ।

सी०/ओ० एस० एस० मंडल (एन० सी० सी० जे०/14043)
---1 अक्टूबर 1970 ।

सी०/ओ० आर० सी० घोष (एन० सी० सी० जे०/14041)
---2 मई 1970 ।

सी०/ओ० एन० एन० आर० चौधरी (एन० सी० सी० जे०/
14143)---1 अक्टूबर 1970 ।

सी०/ओ० बी० के० घोष (एन० सी० सी० जे०/14153)---
1 मार्च 1970 ।

सी०/ओ० पी० के० मल्लिक (एन० सी० सी० जे०/14166)
---1 अक्टूबर 1971 ।

सी०/ओ० पी० आर० कुन्डू (एन० सी० सी० जे०/14141)
---1 अक्टूबर 1970 ।

सी०/ओ० जे० सी० मन्ना (एन० सी० सी० जे०/14060)
---1 अप्रैल 1970 ।

सी०/ओ० एस० एन० सेनगुता (एन० सी० सी० जे०/
14072)---1 अप्रैल 1970 ।

सी०/ओ० बी० चक्रवर्ती (एन० सी० सी० जे०/14224)---
1 नवम्बर 1970 ।

सी०/ओ० एस० के० ठाकुर (एन० सी० सी० जे०/14186)
---1 दिसम्बर 1972 ।

सी०/ओ० एस० सी० मंडल (एन० सी० सी० जे०/14202)
---1 अक्टूबर 1971 ।

सी०/ओ० के० सी० चौधरी (एन० सी० सी० जे०/14138)
---1 मई 1969 ।

एफ०/ओ० जय कान्त झा (एन० सी० सी० जे०/14437)
---2 जनवरी 1972 ।

एफ०/ओ० बी० बी० घोष (एन० सी० सी० जे०/14025)
---2 जनवरी 1960 ।

एफ०/ओ० ए० कार (एन० सी० सी० जे०/14035)---
1 जनवरी 1956 ।

एफ०/ओ० आर० पी० मंडल (एन० सी० सी० जे०/14182)
---1 अक्टूबर 1969 ।

एफ०/ओ० दिबाकर पाल (एन० सी० सी० जे०/14326)
---1 जनवरी 1971 ।

एफ०/ओ० एम० के० गोस्वामी (एन० सी० सी० जे०/
14350)---1 जुलाई 1969 ।

एफ०/ओ० सी० जी० राय (एन० सी० सी० जे०/14328)
---1 अप्रैल 1971 ।

एस०/ओ० एस० डी० बनर्जी (एन० सी० सी० जे०/14450)
1 अप्रैल 1971 ।

एस०/ओ० एन० सी० मैती (एन० सी० सी० जे०/14890)
1 जून 1971 ।

एस०/ओ० के० पी० मंडल (एन० सी० सी० जे०/14996)
1 अक्टूबर 1970 ।

उत्तर प्रदेश

एस०/ओ० एन० एम० मदीरिया (एन० सी० सी० जे०/13214)—2 जून 1973 ।

एस०/ओ० एम० एम० भटनागर (एन० सी० सी० जे०/13157)—28 अप्रैल 1972 ।

हरियाणा

सी०/ओ० के० के० महोत्रा (एन० सी० सी० जे०/7246) 24 अक्टूबर 1972 ।

मैसूर

सी०/ओ० आर० यू० पाट्टुंगो (एन० सी० सी० जे०/23053) 5 जनवरी 1973 ।

केरल

सी०/ओ० पी० कृष्णकुट्टी (नायर एन० सी० सी० जे०/25018)—8 अगस्त 1972 ।

एस०/ओ० एम० पी० वेलु नायर (एन० सी० सी० जे०/25316) —23 नवम्बर 1972 ।

एस०/ओ० के० वी० पाल (एन० सी० सी० जे०/25384) —1 जुलाई 1971 ।

आन्ध्र प्रदेश

टी०/ओ० के० कोन्डैया (एन० सी० सी० जे०/41483)—18 अगस्त 1971 ।

उड़ीसा

सी०/ओ० आर० सी० समोलो (एन० सी० सी० जे०/11065) —1 अप्रैल 1971 ।

एफ०/ओ० सी० एम० बाघ (एन० सी० सी० जे०/11075) —1 अप्रैल 1971 ।

एस०/ओ० वी० के० पाणिग्राही (एन० सी० सी० जे०/11067)—1 अप्रैल 1971 ।

एस०/ओ० वी० के० माहपात्र (एन० सी० सी० जे०/61025)—1 अप्रैल 1971 ।

एस०/ओ० वी० एस० समालो (एन० सी० सी० जे०/61259)—11 मार्च 1970 ।

जम्मू व कश्मीर

एस०/ओ० नाथ जी चन्द्र (एन० सी० सी० जे०/26345) —19 जनवरी 1973 ।

जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)**तमिल नाडु**

सी०/ओ० एम० वी० वेणुगोपालन (एन० सी० सी० जे० एन०/9066)—1 अप्रैल 1970 ।

सी०/ओ० कोशी के० मैथ्यूज (एन० सी० सी० जे० एन०/9118)—20 अक्टूबर 1972 ।

केरल

एफ०/ओ० केक्षेत्र न्यूज (एन० सी० सी० जे० एन०/25075) —2 अक्टूबर 1972 ।

जूनियर डिबीजन (वायु सेना स्कंध)**तमिल नाडु**

एफ०/ओ० डी० जे० पाल राज (एन० सी० सी० जे० ए०/9486)—17 फरवरी 1973 ।

गुडि पत्र

सं० 2099, तारीख 26 जुलाई 1973 (i) भारत के राजपत्र तारीख 5 दिसम्बर 1970 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3099, तारीख 11 नवम्बर 1970 में 'सीनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)' के शीर्षक के अन्तर्गत 'मध्य प्रदेश' के नीचे 'सुरेश नारायण कोन्हार (एन० सी० सी०/13071)' का नाम उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों सहित काट दें ।

(ii) 19 अगस्त 1972 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 2399, तारीख 3 जून 1972 में "जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)" शीर्षक के अन्तर्गत 'मध्य प्रदेश' के नीचे टी०/ओ० वी० के० कान्हे (एन० सी० सी० जे०/5610) का नाम उससे सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों सहित काट दें ।

(iii) 26 जून 1971 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1478, तारीख 21 मई 1971 में "जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)" शीर्षक के अन्तर्गत 'मध्य प्रदेश' के नीचे एफ०/ओ० एन० एम० चौहान (एन० सी० सी० जे०/19523) का नाम उससे सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों सहित काट दें ।

(iv) 8 अप्रैल 1972 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 951, तारीख 8 फरवरी 1972 में "जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)" शीर्षक के अन्तर्गत 'तमिल-नाडु' के नीचे एस०/ओ० ए० कुलंदैसामी (एन० सी० सी० जे०/51459), का नाम और 'आन्ध्र प्रदेश' के नीचे एस०/ओ० टी० राम राव (एन० सी० सी० जे०/41249) का नाम उनसे सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों सहित काट दें ।

(v) 28 अगस्त 1971 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 2082, दिनांक 15 जुलाई 1971 में "जूनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)" 'तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में' शीर्षक के अन्तर्गत, 'हिमाचल प्रदेश' के नीचे अर्जन सिंह (एन० सी० सी० जे०/23723) के नाम के सामने 25 अगस्त 1968 के स्थान पर 13 नवम्बर 1970 पढ़ें ।

एस० एस० तनेजा, कार्मिक निदेशक

जन सम्पर्क निदेशालय

सं० 2100, दिनांक 2 अगस्त 1973—राष्ट्रपति सहर्ष श्री टी० आर० रामनाथन को 11 मई 1972 से स्थायी बरिष्ठ फोटोग्राफिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं ।

ए० एस० बेदी, अवर सचिव

सं० 2101, दिनांक 6 अगस्त 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

कमान और स्टाफ

कालिज आफ कम्बेंट, मह की फौकलटी आफ इन्स्ट्रक्शन में डायरेक्टर एच० सी० कोर्स के रूप में

कर्नल (कार्यकारी ब्रिगेडियर) एफ० भाट्टी (आई० सी०-2343), वी० एम० एम० गन्नेडियर्स—18 जनवरी 1973।

शिवदास चटर्जी, उप सचिव

सेना मुख्यालय

ए० जी० शाखा

सं० 2102, दिनांक 30 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

- (i) श्री एच० बी० लाल, स्थायी ए० सी० एम० ओ० को सी० एस० ओ० के पद पर तारीख 23 अप्रैल 73 से 8 जून 73 तक श्री जी० एस० रनोट के स्थान पर जो अवकाश पर थे।
- (ii) श्री जे० एल० जैन, स्थायी सहायक को ए० सी० एस० ओ० के पद पर तारीख 23 अप्रैल 73 से 8 जून 73 तक श्री एच० बी० लाल जिनकी पदोन्नति कर दी गई।
- (iii) श्री गिरीश चन्द्र, स्थायी ए० सी० एस० ओ० को सी० एस० ओ० के पद पर तारीख 14 मई 73 से 30 जून 73 तक श्री ए० एन० शर्मा के स्थान पर जो अवकाश पर थे।
- (iv) श्री एस० आर० लाम्बा, स्थायी सहायक को ए० सी० एस० ओ० के पद पर तारीख 14 मई 73 से 30 जून तक श्री गिरीश चन्द्र के स्थान पर जिनकी पदोन्नति कर दी गई।
- (v) श्री बी० हरिहरन, स्थायी ए० सी० एस० ओ० को सी० एस० ओ० के पद पर तारीख 18 मई 73 से 11 जुलाई 73 तक श्री के० सी० सलानी के स्थान पर जो अवकाश पर थे।
- (vi) श्री ए० आर० बिज, स्थायी सहायक को ए० सी० एस० ओ० के पद पर तारीख 18 मई 73 से 11 जुलाई 73 तक श्री हरिहरन के स्थान पर जिनकी पदोन्नति कर दी गई।
- (vii) श्री रघुनाथ प्रसाद, स्थायी ए० सी० एस० ओ० को सी० एस० ओ० के पद पर तारीख 14 मई 73 से 30 जून 73 तक श्री पी० एन० भट्ट के स्थान पर जो अवकाश पर थे।
- (viii) श्री एस० एन० गुप्ता, स्थायी सहायक को ए० सी० एस० ओ० के पद पर तारीख 14 मई 73 से 30 जून 73 तक श्री रघुनाथ प्रसाद के स्थान पर जिनकी पदोन्नति कर दी गई।

(ix) श्री के० डी० जोशी, स्थायी ए० सी० एस० ओ० को सी० एस० ओ० के पद पर तारीख 21 मई 73 से 7 जुलाई 73 तक श्री आर० एन० सहाय के स्थान पर जो अवकाश पर थे।

(x) श्री के० बी० बहादुर, स्थायी सहायक को ए० सी० एस० ओ० के पद पर तारीख 18 मई 73 से 7 जुलाई 73 तक श्री एन० के० छिन्बर के स्थान पर जो अवकाश पर थे।

जी० एन० मेनन, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

एम० एस० ब्रांच

सं० 2103, दिनांक 28 जुलाई 1973—राष्ट्रपति जी सहर्ष श्री एच० सी० गुप्ता, स्थायी ए० सी० एम० ओ० (अस्थाई सी० एम० ओ० स्थानीय आधार पर) को स्वतंत्र रूप से सी० एस० ओ० के पद पर, ए० एफ० एच० ब्यू० मित्रिल सत्रिम में 23 जुलाई 73 से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

हंस कुमार जैन, सहायक सी० एस० ओ०

सं० 2104, दिनांक 3 अगस्त 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को पत्र प्रदान करते हैं:—

(निजी स्टाफ)

लेफ्टिनेन्ट कर्नल एन० एम० उश्याया (आई० सी०-05391) पैरा को लेफ्टिनेन्ट कर्नल जय कृष्ण (आई० सी०-2252) 14 हास के स्थान पर 15 जुलाई 73 से राष्ट्रपति का उभ सैनिक सचिव नियुक्त किया।

सी० पी० कपूर, अवर सचिव

सं० 2105, दिनांक 24 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित जनरल अफसर को, ब्रिगेड आफ गार्डज के सम्मानित कर्नल के पद पर, 15 जनवरी, 1973 से, नियुक्त करते हैं:—

जनरल जी० जी० बेवूर (आई० सी०-129), पी० बी० एस० एम०।

एल० दयाल, संयुक्त सचिव

सं० 2106, दिनांक 28 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति स्था-मंत्रालय पत्र सं० 20618/डी० जी० ए० एफ० एम० एल०/एम० एन० एल०/5545/डी० (मैडिकल) दिनांक 25 सितम्बर, 1969 और थल सेना अनुदेश 274/50 के आश्रित निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

मिलिट्री मसिंग सेवा

लेफ्टिनेन्ट के रूप (परखाधीन)

कुमारी राविन्दर कौर भट्टी, एन० आर०-15000, कुमारी बाहुपला मैथ्यू नैथू, एन० आर०-15001, कुमारी बल्पाकलापैल

सामूहिक मंत्रीकुटी एन० आर०-15002, कुमारी कोरा कोविट
ब्रिडिगेट एन० आर०-15003, कुमारी पूलथूनकल जोसिफ राजाम्मा
एन० आर०-15004, कुमारी बाना कृष्णन तैयार बालामनीअम्मा
एन० आर०-15005, कुमारी मेगी कुस्थयन एन० आर०-15006,
कुमारी भरेसीअम्मा थामस एन० आर०-15007, कुमारी
ईलवीरा लियुमा कन्डस्थुज एन० आर०-15008, कुमारी प्रेम
वता एन० आर०-15009, कुमारी आंमना जोहन एन० आर०-
15010—16-12-71 ।

एफ० एम० वीरजी, अवर सचिव

सं० 2107, दिनांक 3 अगस्त 1973—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित नियुक्ति करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

2/लेफ्टि० के रैंक में (परख पर)

गुरदीप सिंह (टी० ए०-41470), आर्टिलरी, 6 अप्रैल
1973 ।

वी० श्रीकान्तन, अवर सचिव

सं० 2108, दिनांक 30 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित नियुक्तियां करते हैं :—

नियमित सेना

विशेष सूची

कोर आफ सिगनल्स

नायक सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

गोपी नाथ पाण्डे (जे० सी०-71069), गुरा दत्त भट्ट (जे०
सी० 71070) रोहिणी प्रसाद त्रिपाठी (जे० सी० 71073)
गणेश प्रसाद मिश्र (जे० सी०-71072)—10 जनवरी 1972 ।

सुन्दर लाल पाण्डे (जे० सी०-71073)—28 जनवरी,
1972 ।

सिगनलमेन पारस नाथ उपाध्या (सं० 6324081 अब जे०
सी०-71074)—15 मार्च, 1972 ।

सिगनलमेन राम मुखिन प्रसाद सिंह (सं० 6305476
अब जे० सी०-71075)—22 मार्च 1972 ।

सिगनलमेन पाण्डे जितेन्द्र शर्मा (सं० 6327231 अब
जे० सी०-71076) —21 अप्रैल 1972 ।

हरिचरण त्रिपाठी (अब जे० सी०-71077)—22 अप्रैल
1972 ।

लान्म हवलदार कृष्णा नन्द (सं० 4149196 अब जे० सी०-
71078)—6 जुलाई 1972 ।

सी० पी० कपूर, अवर सचिव

सं० 2109, दिनांक 2 अगस्त 1973—राष्ट्रपति द्वारा
निम्नलिखित नियुक्तियां की जाती हैं :—

स्थाई एस० एस० डब्ल्यू० और अस्थाई सी० एस० डब्ल्यू०
स्थायी सी० एस० डब्ल्यू० बनाए जाते हैं :—

श्री जे० पी० बजाज—6 फरवरी, 73 ।

सं० 2110, दिनांक 2 अगस्त 1973—राष्ट्रपति ने निम्न-
लिखित अधिकारियों को अगले आदेशों तक 5 मई 73 में कार्य-
वाहक ए० ओ० ग्रेड II के पद पर नियुक्त किया :—

1. एम० ई० एम० 16965 श्री भुपेन्द्रा कुमार सरकार
स्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट ।

2. एम० ई० एम० 8462748 श्री गजेन्द्र सिंह गोमर
स्थाई स्टेनो और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट ।

3. एम० ई० एस० 31174 श्री इन्द्र सिंह सुल्गकी स्थाई
यू० डी० सी० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट ।

4. एम० ई० एस० 8677 श्री अरुण कुमार राय स्थाई
स्टेनो और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट ।

5. एम० ई० एस० 3030 श्री मदन लाल पाटक स्थाई
पी० ए० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट ।

6. एम० ई० एस० 8462332 श्री सेयू माधवन नायर
स्थाई यू० डी० सी० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट ।

7. एम० ई० एस० 15888 श्री विशेषर नाथ कोहली,
स्थाई यू० डी० सी० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट ।

8. एम० ई० एस० 30870 श्री पालकर मधुकार बलान्त
स्थाई यू० डी० सी० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट ।

9. एम० ई० एस० 30789 श्री पाटशी नटराजन स्थाई
यू० डी० सी० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट ।

10. एम० ई० एस० 31692 श्री पाल बरबूजा स्थाई
यू० डी० सी० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट ।

11. एम० ई० एम० 30113 श्री मिथन लाल शर्मा स्थाई
आफिस सुपरिन्टेंडेंट ।

12. एम० ई० एस० 30886 श्री एम० शेखरन स्थाई
यू० डी० सी० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट ।

अधिकारी दो वर्ष की परख अवधि पर होंगे ।

सं० 2111, दिनांक 2 अगस्त 1973—राष्ट्रपति ने निम्न-
लिखित व्यक्तियों को अगले आदेश तक कार्यवाहक ए० ओ०
ग्रेड II के पद पर नियुक्त किया :—

(क) एम० ई० एस० 2715 श्री हरबन्द सिंह स्थाई
यू० डी० सी० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट—15 मई
1973 ।

(ख) एम० ई० एस० 30246 श्री सी० कृष्णामूर्ति स्थाई
यू० डी० सी० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट—24 मई
1973 ।

(ग) एम० ई० एम० 425012, श्री चौटीम चन्द्रा राय,
स्थाई स्टेनो और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेंडेंट—26 मई 1973 ।

(घ) एम० ई० एस० 2371, श्री डी० डी० मलिक स्थाई यू० डी० सी० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट—1 जून 1973।

(ङ) एम० ई० एस० 17442 श्री अमररीदा कुमार भदरी स्थाई यू० डी० सी० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट—2 जुलाई 1973।

(च) एम० ई० एस० 16245 श्री बी० एन० वनरजी, स्थाई यू० डी० सी० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट—4 जून 1973।

(छ) एम० ई० एस० 8463315 श्री एन० एन० मीरचन्दानी स्थाई स्टेनो और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट—23 जून 1973।

(ज) एम० ई० एस० 5759 श्री जैदेव प्रकाश चुर्षा, स्थाई यू० डी० सी० और अस्थाई आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट—6 जुलाई 1973।

अफसर दो वर्ष की परब्र अवधि पर होंगे।

सं० 2112, दिनांक 31 जुलाई 1973—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

कोर आफ सिगनल्स

श्री एन० जी० पन्डारकर सीविलियन इन्स्ट्रक्टर सिगनल्स (सि० जी० वो०), मिलट्री कालेज आफ टेलिकम्यूनिकेशन इन्जीनियरिंग, मांथ, कां इसी निदेशालय में स्थानापन्न लकचरार के पद पर, छः महीने की अवधि के लिए, 31 मई 73 (पूर्वाह्न)।

ए० एस० वेदी, उप-माचिव

सं० 2113, दिनांक 28 जुलाई 1973—राष्ट्रपति थलसेना अनुदेश 13/S/65 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित आपात कमीशन प्राप्त अफसर को उसके 1 जुलाई, 70 आपात कमीशन छोड़ने पर थल सेना अनुदेश 13/S/65 के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए तारीख 1 जून 1966 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिये तारीख 1 नवम्बर 1964 से वरिष्ठता के साथ 2/लेफ्टि के रैंक में तारीख 1 जुलाई 1970 से स्थाई कमीशन प्रदान किया जाता है, आपात कमीशन प्राप्त अफसरों की तुलना में जिन्हें स्थाई कमीशन दिया जायगा उसकी परस्पर वरिष्ठता नहीं रहेगी जो आपात कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी। उसकी वरिष्ठता के अनुसार उसकी तारीख 1 जुलाई 1970 से लेफ्टिनेन्ट के रैंक में तारीख 1 जून 1968 से वरिष्ठता सहित पदोन्नति की जाती है।

शुशील कुमार ललवार (ई० सी०-59364 अब 22809) आर्टि०।

निम्नलिखित आपात कमीशन प्राप्त अफसर को उसके 10 मई 72 आपात कमीशन छोड़ने पर थल सेना अनुदेश 13/S/65

के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए तारीख 20-1-66 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिए तारीख 2-8-64 से वरिष्ठता के साथ 2/लेफ्टिनेन्ट के रैंक में 10 मई, 72 से स्थाई कमीशन प्रदान किया जाता है आपात कमीशन प्राप्त अफसरों की तुलना में जिन्हें स्थाई कमीशन दिया जायगा उसकी परस्पर वही वरिष्ठता रहेगी जो आपात कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी, उसकी वरिष्ठता के अनुसार उसकी तारीख 10-5-72 से लेफ्टिनेन्ट के रैंक में तारीख 20-1-68 से वरिष्ठता सहित पदोन्नति की जाती है।

एम० डी० एम० सामथाल (ई० सी०-58634 अब आई० सी०-22522) आर्टिलरी।

सं० 2114, दिनांक 1 अगस्त, 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित की महर्प नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग (जो परखाधीन है)

निम्नलिखित को पांच वर्ष की अवधि के लिए सैनिक अनुदेश 11/एस०/64 के अन्तर्गत 2/लेफ्टिनेन्ट के पद पर 15 जून, 1969 से अल्पकालीन सेवा आयोग (जो परखाधीन है) प्रदान किया जाता है। उनका यह अल्पकालीन आयोग परखाधीन समय समाप्त कर लेने के पश्चात् उसी तिथि से पुष्ट किया जाता है।

श्रीम श्री सिंह (एम० एस०-22082) सिगनल्स, 2/लेफ्टि० ए० बी० क्यू० कजीलवण (एम० एस०-22081) ग्रामंड कोर की ज्येष्ठता के बाद, मोहिनंदर पाल जग्गी (एम० एस०-22089) ई० एम० ई०, राजवीर सिंह (एम० एस०-22088) इनफैन्ट्री की ज्येष्ठता के उपरान्त, प्रताप सिंह शोरावत (एम० एस०-22091) ई० एम० ई०, 2/लेफ्टिनेन्ट मान सिंह (एम० एस०-22090) की ज्येष्ठता के बाद, राजीन्द्र पाल सिंह (एम० एस० 22117) इनफैन्ट्री, 2/लेफ्टिनेन्ट जी० डी मूजा (एम० एस०-22116) इन्जीनियर्स की ज्येष्ठता के उपरान्त, शाम सरूप दत्ता (एम० एस०-22125) आर्टिलरी, 2/लेफ्टिनेन्ट एम० आई० बालासूभ्रामन्यम (एम० एस० 22124) ए० एस० सी० की ज्येष्ठता के बाद, अशोक कुमार मदान (एम० एस०-22140) तथा दर्शन सिंह (एम० एस०-22141) इन्जीनियर्स, 2/लेफ्टिनेन्ट छत्तर सिंह (एम० एस०-22139) सिगनल्स की ज्येष्ठता के उपरान्त, सतीश कुमार बहल (एम० एस०-22145) इनफैन्ट्री, 2/लेफ्टिनेन्ट युद्धवीर सिंह (एम० एस०-22144) इन्जीनियर्स की ज्येष्ठता के बाद, मदन मोहन शर्मा (एम० एस०-22153) इनफैन्ट्री, 2/लेफ्टिनेन्ट एम० आर० काले (एम० एस०-22152) ई० एम० ई० की ज्येष्ठता के बाद, देविन्द्र सिंह कौशल (एम० एस०-22170) ग्रामंड कोर, 2/लेफ्टिनेन्ट जैड० वी० चार्लस (एम० एस० 22169) सिगनल्स की ज्येष्ठता के बाद, सुलखन सिंह (एम० एस०-22181), आर्टिलरी, 2/लेफ्टिनेन्ट प्रह्लाद सिंह (एम० एस०-22180) इनफैन्ट्री की ज्येष्ठता के बाद, सुधीर कुमार (एम० एस०-22190) आर्टिलरी, 2/लेफ्टिनेन्ट एम० एस० संघु (एम० एस०-22189), ए० एस० सी० की ज्येष्ठता के उपरान्त, बलीकड कृष्णप्र भाकरन (एम० एस०-22229), ई० एम० ई०, 2/लेफ्टिनेन्ट जी० एस०

बर्क (एस० एस०-22228) आर्टिलरी की ज्येष्ठता के उपरान्त, ओतभ नावाकुमार सिंह (एस० एस०-22232) इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट एस० के० दत्ता (एस० एस०-22231) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के उपरान्त, अशोक जुल्का (एस० एस०-22236) ई० एस० ई०, 2/लैफ्टिनेन्ट ए० सी० पूर्वया (एस० एस०-22235), इनफैंट्री की ज्येष्ठता के उपरान्त, अर्जुन सिंह शोखवत (एस० एस०-22260) ई० एस० ई०, 2/लैफ्टिनेन्ट एस० भट्टाचार्य (एस० एस०-22259) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, बलबीर सिंह (एस० एस०-22266) आर्टिलरी, 2/लैफ्टिनेन्ट पी० जे० एस० लाम्बा (एस० एस०-22265), आर्मंड कोर की ज्येष्ठता के बाद, जगजीत सिंह जज (एस० एस०-22271) इन्जीनियर्स, 2/लैफ्टिनेन्ट एस० सी० घोषाल (एस० एस०-22270) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के उपरान्त, देवेश प्रकाश दत्ता (एस० एस०-22286) ई० एस० ई०, 2/लैफ्टिनेन्ट एच० एम० पी० सिंह (एस० एस०-22285), इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, सन्धासिराओं रेड्डी (एस० एस०-22289), आर्टिलरी, 2/लैफ्टिनेन्ट डी० एन० यादव (एस० एस०-22288) सिगनल्स की ज्येष्ठता के उपरान्त, अमरीश सिंह आलूवालिया (एस० एस०-22295) आर्टिलरी, 2/लैफ्टिनेन्ट बी० ए० प्रसन्ना (एस० एस०-22294) ई० एस० ई० की ज्येष्ठता के बाद, प्यारे लाल वर्मा (एस० एस०-22315) ए० ई० सी०, 2/लैफ्टिनेन्ट के० सी० खलबे (एस० एस०-22314) ई० एस० ई० की ज्येष्ठता के बाद, भगत जीत सिंह खाण्डपुर (एस० एस०-22318), रछवेन्द्र सिंह (एस० एस०-22319) तथा नलिन कपूर (एस० एस०-22320) इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट एस० सी० पससी (एस० एस०-22317) आर्मंड कोर की ज्येष्ठता के बाद, राबर्ट रतन भास्का (एस० एस०-22324) आर्मंड कोर, 2/लैफ्टिनेन्ट जे० एस० तूलसी (एस० एस०-22323), ए० एस० सी० की ज्येष्ठता के बाद, राजीन्द्र सिंह (एस० एस०-22329) ए० एस० सी०, 2/लैफ्टिनेन्ट एन० एस० डी० उमद सिंह (एस० एस०-22328) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, कुलबीर सिंह (एस० एस०-22331) इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट आर० के० के० मिरकुर (एस० एस०-22330) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, बजहकाल रनजीत सिंह लखवीर सिंह (एस० एस०-22333) सिगनल्स, 2/लैफ्टिनेन्ट जे० के० मोंगा (एस० एस०-22332) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, बलकार सिंह (एस० एस०-22344) इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट बी० एस० चहल (एस० एस०-22343) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, तेज कृष्ण (एस० एस०-22361) इन्जीनियर्स, 2/लैफ्टिनेन्ट एम० एम० मान (एस० एस०-22360) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, हेमन्त कुमार छिसिन्ना (एस० एस०-22366) इनफैंट्री 2/लैफ्टिनेन्ट इतपाल सिंह (एस० एस०-22365) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, हरीकर पाल सिंह सिधू (एस० एस०-22380), ए० ओ० सी० तथा रणजीत सिन्हा, (एस० एस०-22381), इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट ए० पी० एस० रेवाड़ी (एस० एस०-22379), इन्जीनियर्स की ज्येष्ठता के बाद, तरसेम सिंह प्लाहा (एस० एस०-22388) इन्जीनियर्स, 2/लैफ्टिनेन्ट एम० साहा (एस० एस०-22387), इन्जीनियर्स की ज्येष्ठता के बाद, पूरनदेव सिंह (एस० एस०-22400) इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट एम० एस० सोमारा (एस० एस०-22399), ए० एस० सी० की ज्येष्ठता के बाद, विनोद कुमार नथ्यर (एस० एस०-

22406) इन्जीनियर्स, 2/लैफ्टिनेन्ट एम० एम० सेनी (एस० एस०-22405), इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, उत्तम सिंह (एस० एस०-22421) इन्जीनियर्स, 2/लैफ्टिनेन्ट के० वी० एम० मीढ़ (एस० एस०-22420) आर्मंड कोर की ज्येष्ठता के बाद, सुरिन्द्र सिंह माहनी (एस० एस०-22430) तथा पुन्दा दयी प्रसाद दयी (एस० एस०-22431), इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट एच० एम० जेम्स (एस० एस०-22429) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, कृष्णकुमार, पी० के० (एस० एस०-22434) इन्जीनियर्स, 2/लैफ्टिनेन्ट बन्सी लाल शर्मा (एस० एस०-22433) इन्जीनियर्स की ज्येष्ठता के बाद, हरीण चन्द्र दीक्षित (एस० एस०-22442) ई० एस० ई०, 2/लैफ्टिनेन्ट अक्सेचियर पी० एम० (एस० एस०-22441) सिगनल्स की ज्येष्ठता के बाद, दिनेश कुमार (एस० एस०-22450), इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट एम० भाटिया (एस० एस०-22449), इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, मान सिंह (एस० एस०-22453) ई० एस० ई०, 2/लैफ्टिनेन्ट जंग वहादुर (एस० एस०-22452), इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, मोहन सिंह साम्ब-याल (एस० एस०-22459) इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट ए० डब्ल्यू० रनाडे (एस० एस०-22458), इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, शाशंक तिवारी (एस० एस०-22468), आर्टिलरी, 2/लैफ्टिनेन्ट ए० एस० भावी (एस० एस०-22467), ए० एस० सी० की ज्येष्ठता के बाद, सुधीन जंग राण (एस० एस०-22483) इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट शरत सिंह (एस० एस०-22482) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, अशोक कुमार दत्त (एस० एस०-22488) आर्टिलरी, 2/लैफ्टिनेन्ट एन० एस० जे० शास्त्री (एस० एस०-22487) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, सुरेशचन्द्र नौटियाल (एस० एस०-22492) इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट के० एस० पन्डूरंग (एस० एस०-22491) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, श्री राग बख्शी (एस० एस०-22498), इन्जीनियर्स, 2/लैफ्टिनेन्ट जी० एस० मिह (एस० एस०-22497) सिगनल्स की ज्येष्ठता के बाद, अशोक (एस० एस०-22506) इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट एन० के० गोगना (एस० एस०-22505) ए० ओ० सी० की ज्येष्ठता के बाद, अशोक कुमार (एस० एस०-22512) इन्जीनियर्स 2/लैफ्टिनेन्ट डी० एस० मुन्डी (एस० एस०-22511) सिगनल्स की ज्येष्ठता के बाद, रमेश चन्द्र बोहरा (एस० एस०-22514) तथा मधावन नायर अछूतन थाम्पी (एस० एस०-22515) इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट जे० वी० शर्मा (एस० एस०-22513) ए० ई० सी० की ज्येष्ठता के बाद, जगदीश सिंह चौहान (एस० एस०-22519) आर्मंड कोर, 2/लैफ्टिनेन्ट एम० एस० वी० डी० के० राव (एस० एस०-22518) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, किशन सिंह (एस० एस०-22524) इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट ए० पी० सिंह (एस० एस०-22523) इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, रामभजीराव शाहानीराव डांगे (एस० एस०-22526) इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट आर० डी० जांगी (एस० एस०-22525) ए० एस० सी० की ज्येष्ठता के बाद, सुधीर कुमार रामशवरलाल छई (एस० एस०-22529) इनफैंट्री, 2/लैफ्टिनेन्ट जे० एस० नारंग (एस० एस०-22528), इनफैंट्री की ज्येष्ठता के बाद, वी० वी० जोसफ (एस० एस०-22533) ए० एस० सी०, 2/लैफ्टिनेन्ट मोहन लाल (एस० एस०-22532) ए० एस० सी० की ज्येष्ठता के बाद, बापत पदमाकर केशव (एस० एस०-22542)

इन्फैन्ट्री, 2/लिफ्टनेन्ट मोहन ए० के० (एस० एस०-22541) ए० आ० सी० की ज्येष्ठता के बाद, मुन्नता कर (एस० एस०-22546) इन्जीनियर्स, 2/लिफ्टनेन्ट एस० एच० चील्डा (एस० एस०-22545) इन्फैन्ट्री की ज्येष्ठता के बाद, प्रिथी पाल सिंह रन्धावा (एस० एस०-22549) आर्टिलरी 2/लिफ्टनेन्ट एस० एस० चहर (एस० एस०-22548) आर्टिलरी की ज्येष्ठता के बाद करम सिंह पुनिया (एस० एस०-22561) ए० आ० सी०, 2/लिफ्टनेन्ट डी० बी० यादव (एस० एस०-22560) ए० ई० सी० की ज्येष्ठता के बाद, कब्बू विजयेन्द्र रेड्डी (एस० एस०-22563) आर्टिलरी, 2/लिफ्टनेन्ट बी० एस० मलतानी (एस० एस०-22562) आर्टिलरी की ज्येष्ठता के बाद, औतार सिंह दत्ता (एस० एस०-22568) इन्फैन्ट्री, 2/लिफ्टनेन्ट बी० के० शर्मा (एस० एस०-22567) इन्फैन्ट्री की ज्येष्ठता के बाद, नित्या नन्द धीराम्बर (एस० एस०-22570) आर्टिलरी, 2/लिफ्टनेन्ट ए० के० नायक (एस० एस०-22569) इन्फैन्ट्री की ज्येष्ठता के बाद, रीशी पाल सिंह राणा (एस० एस०-22574) इन्फैन्ट्री, 2/लिफ्टनेन्ट शमशेर सिंह (एस० एस०-22573) ए० एस० सी० की ज्येष्ठता के बाद, ईगनेस कच्छप (एस० एस०-22576) इन्फैन्ट्री, 2/लिफ्टनेन्ट के० जे० एस० संधू (एस० एस०-22575) इन्फैन्ट्री की ज्येष्ठता के बाद, करन सिंह (एस० एस०-22582), तथा मेथ्यू अब्राहम थात्राडाथू अब्राहम (एस० एस०-22583) इन्फैन्ट्री, 2/लिफ्टनेन्ट एस० डी० प्रोहित (एस० एस०-22581) ए० ई० सी० की ज्येष्ठता के बाद, घन बहादुर राणा (एस० एस०-22591), इन्फैन्ट्री, 2/लिफ्टनेन्ट वी० के० जौली (एस० एस०-22593) इन्फैन्ट्री की ज्येष्ठता के बाद, विजय कुमार रामपाल (एस० एस०-22603) आर्टिलरी तथा प्रेम शंकर (एस० एस०-22604) ए० एस० सी०, 2/लिफ्टनेन्ट एन० आर० राव (एस० एस०-22602) इन्फैन्ट्री की ज्येष्ठता के बाद, भूपिन्द्र सिंह (एस० एस०-22611) आर्मड कौर, 2/लिफ्टनेन्ट एम० अन्सारी (एस० एस०-22610) इन्फैन्ट्री की ज्येष्ठता के बाद, जसवीर सिंह माही (एस० एस०-22615) आर्टिलरी तथा मनजीत सिंह साहनी (एस० एस०-22616) ए० आ० सी०, 2/लिफ्टनेन्ट आर० घोष (एस० एस०-22614) इन्फैन्ट्री की ज्येष्ठता के उपरान्त, राधाकृष्णनन, एन० ए० (एस० एस०-22624) इन्जीनियर्स, 2/लिफ्टनेन्ट ए० के० पटनी (एस० एस०-22623) इन्जीनियर्स की ज्येष्ठता के बाद, भूपिन्द्र सिंह मलिक (एस० एस०-22633) आर्टिलरी, 2/लिफ्टनेन्ट जसवीर सिंह (एस० एस०-22632) इन्फैन्ट्री की ज्येष्ठता के बाद, नरीन्द्र जीत सिंह पन्त (एस० एस०-22642) आर्मड कौर, 2/लिफ्टनेन्ट के० सी० सिंह (एस० एस०-22641) इन्फैन्ट्री की ज्येष्ठता के बाद, पृथीवाथ थोमस जोम (एस० एस०-22647) इन्फैन्ट्री, 2/लिफ्टनेन्ट टी० पी० एस० श्रीमा (एस० एस०-22646) इन्फैन्ट्री की ज्येष्ठता के बाद, मुभाष चन्द्र मन्थराल (एस० एस०-22662) ए० एस० सी०, 2/लिफ्टनेन्ट एस० एन० जालाली (एस० एस०-22661) आर्मड कौर की ज्येष्ठता के बाद, आनन्द जी० (एस० एस०-22671) आर्टिलरी, 2/लिफ्टनेन्ट एस० के० सहगल (एस० एस०-22670), ए० एस० सी० की ज्येष्ठता के उपरान्त, मुभाष चन्द्र परीक (एस० एस०-22673) इन्फैन्ट्री, 2/लिफ्टनेन्ट लखमीर सिंह (एस० एस०-22672) इन्फैन्ट्री की

ज्येष्ठता के बाद, चौवा राम (एस० एस०-22676) इन्फैन्ट्री, 2/लिफ्टनेन्ट राजेश गोड़ (एस० एस०-22675) इन्फैन्ट्री की ज्येष्ठता के बाद तिलक राज शर्मा (एस० एस०-22689) इन्फैन्ट्री, 2/लिफ्टनेन्ट सुभाष रंजनदेव (एस० एस०-22688), आर्टिलरी की ज्येष्ठता के उपरान्त ।

नियमित सेना

स्थायी आयोग (विशेष सूची)

निम्नलिखित सरदार को 17 जुलाई, 1972 से सैनिक अनुदेश 24/59 के अन्तर्गत लैफ्टिनेन्ट की श्रेणी में सार्दैफर अफसर की विशेष सूची में स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है । सैनिक अनुदेश 222/48 के अन्तर्गत उम की ज्येष्ठता केवल वेतन के लिए 17 जुलाई 1970 से होगी ।

नायब सूबेदार बन्कटरामाणास्त्री गोविन्दन् (जे० सी०-68062 अब एस० एल०-1935) सिगनल्स ।

सी० पी० कपूर
अवर सचिव ।

सं० 2115 दिनांक 30 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर की नियुक्ति करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

निम्नलिखित भूतपूर्व नियमित रिजर्व अफसर को 23 जनवरी 1968 से प्रादेशिक कमीशन प्रदान की जाती है तथा प्रादेशिक सेना के विनियम के पैरा 25 (ए०) और 38 (ए०) के अधीन वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र क्रमांक 46347/टी० ए०-41275/टी० ए०-5/3628/एस० ओ०-II/डी० एस०-III) दिनांक 5 जनवरी, 1973 के साथ पढ़िए, उसके नाम के आगे निम्नी तिथि से होगी :—

लेफ्टि० बनारा जात है

सुधीर रामचन्द्र कुन्ते (भूतपूर्व आर० आर०-40 अब टी०-41275), आर्टिलरी, 2/लिफ्टि०—18 अक्टूबर, 1962 में और लेफ्टिनेन्ट 18 अक्टूबर 1965 में, किन्तु वेतन के लिए 29 सितम्बर 1966 16 अप्रैल, 1969 से पहले की वेतन की वहावा राशि स्वीकार्य नहीं होगी ।

(राजपत्र अधिसूचना सं० 1362 तारीख 16 मई, 1968 जो 8 जून 1968 को प्रकाशित हुए, रद्द किया जाता है) ।

जे० चौबे, अवर सचिव

सं० 2116, दिनांक 27 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर (जिन्हें थल सेना अनुदेश ए० आई० 6/एस०/57 के अधीन 15 अक्टूबर, 1969 (तारीख) में द्वारा नियुक्त किया गया था, देखें 20 जनवरी 1973 के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा

मंत्रालय की अधिसूचना सं० 119, तारीख 18 दिसम्बर, 1972 की सेवा में उनके नाम के मामले दी गई अवधि के लिए और वृद्धि करते हैं :—

मेजर दुर्गेश्वर तालुकदार (आई० सी०-9579) इनफैंट्री—15 अक्टूबर, 1971 से 14 अक्तूबर, 1973 तक।

सी० पी० कपूर, अवर सचिव।

सं० 2117, दिनांक 6 जुलाई, 1973—परख पर अवधि पूरी हो जाने पर राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर की नियुक्ति को पक्का करते हैं :—

(नियमित सेना)

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टेन बी० एस० सिंह, (एम० एस०-07727 एन०), ए० एम० सी०—22 जनवरी 1967।

कप्तान बी० एन० बोरंगहेन (एम० एस०-07940 एन०), ए० एम० सी०—13 मई, 1968।

एफ० एम० वीरजी, अवर सचिव

सं० 2118, दिनांक 24 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कर्नल से ब्रिगेडियर के रैंक में

एम० पी० गोयल (एम० आर० 310) ए० एम० सी०), पी० सी० 27 जनवरी 1972 से (ज्येष्ठता 4 अगस्त 1971 से, उनके वेतन और पेन्शन पर कोई प्रभाव डाले बिना।

एम० आर० गुरुस्वामी, उप सचिव

सं० 2119, दिनांक 28 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में

एच० जी० साजीलया, (एम० आर० 00924 एन०), सैनिक डाक्टर कोर, 7 जनवरी 1973, 15 जनवरी 1973 से केवल वेतन के लिये।

एस० बैनर्जी, (एम० आर० 01698 एन०), सैनिक डाक्टर कोर, 26 मार्च 1973।

कैप्टन से मेजर के रैंक में

एन० एन० मर्सीना, (एम० आर० 1905), सैनिक डाक्टर कोर, 24 जनवरी 1970, 6 फरवरी 1969 से ज्येष्ठता दी जायेगी जिसका प्रभाव वेतन और भत्ता पर नहीं पड़ेगा।

एम० पी० जयमवाल, (एम० आर० 01824 पी०) (7766), सैनिक डाक्टर कोर, 8 सितम्बर 1970, 9 फरवरी 1970 से ज्येष्ठता दी जायेगी जिसका प्रभाव वेतन और भत्ता पर नहीं पड़ेगा।

ए० बी० पाल, (एम० आर० 02436 के०), सैनिक डाक्टर कोर, 20 दिसम्बर 1971।

आर० एम० गुलाटी, (एम० आर० 02345 ए) (9592), सैनिक डाक्टर कोर, 31 दिसम्बर 1971, 10 दिसम्बर 1971 तक ज्येष्ठता दी जायेगी जिसका प्रभाव वेतन और भत्ता पर नहीं पड़ेगा।

एन० सी० डे०, (एम० आर० 02399 एफ०), सैनिक डाक्टर कोर, 31 दिसम्बर 1971, 27 दिसम्बर 1971 से ज्येष्ठता दी जायेगी जिसका प्रभाव वेतन और भत्ता पर नहीं पड़ेगा।

आर० शर्मा, (एम० आर० 02357 एम०), सैनिक डाक्टर कोर, 7 जनवरी 1972

एम० चैटर्जी, (एम० आर० 03065 वाई०), सैनिक डाक्टर कोर, 7 जनवरी 1972, 7 जून 1969 से ज्येष्ठता देते हुए।

बी० आर० पाठक, (एम० आर० 03075 एच०), सैनिक डाक्टर कोर, 7 जनवरी 1972, 24 दिसम्बर 1970 से ज्येष्ठता देते हुए।

सी० सी० गोगोई, (एम० आर० 03077 एन०), सैनिक डाक्टर कोर, 7 जनवरी 1972, 4 सितम्बर 1970 से ज्येष्ठता देते हुए।

एन० पी० नायडू, (एम० आर० 03092 एच०), सैनिक डाक्टर कोर, 7 जनवरी 1972, 24 दिसम्बर 1970 से ज्येष्ठता दी जायेगी जिसका प्रभाव वेतन और भत्ता पर नहीं पड़ेगा।

पी० शर्मा, (एम० आर० 03093 एल०), सैनिक डाक्टर कोर, 7 जनवरी 1972, 4 दिसम्बर 1970 से ज्येष्ठता देते हुए।

एम० सोन्कर, (एम० आर० 03102 एफ०), सैनिक डाक्टर कोर, 7 जनवरी 1972, 29 दिसम्बर 1970 से ज्येष्ठता दी जायेगी जिसका प्रभाव वेतन और भत्ता पर नहीं पड़ेगा।

डी० एम० राव, (एम० आर० 03137 एक्स), सैनिक डाक्टर कोर, 7 जनवरी 1972, 4 दिसम्बर 1970 से ज्येष्ठता देते हुए।

आर० एम० चौहान, (एम० आर० 03159 डबल्यू०), सैनिक डाक्टर कोर, 7 जनवरी 1972, 17 अगस्त 1967 से ज्येष्ठता देने हुए।

डी० प्रसाद, (एम० आर० 02349 डबल्यू०), सैनिक डाक्टर कोर, 20 मार्च 1972।

बी० मौलाकी, (एम० आर० 02515 वाई०), सैनिक डाक्टर कोर, 20 मार्च 1972।

सं० 2120, दिनांक 28 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं भारत सरकार के पत्र सं० 172/13/डी० जी० ए० एफ० एम० एम०-डी० जी० 1 वी० 7 (1)/2309/डी० (मेड) दिनांक 30 मई 1973।

नियमित सेना**(स्थायी कमीशन)****कैप्टन से मेजर के रैंक में**

आर० बी० जांणी, (एम० आर० 03110 ए), सैनिक डाक्टरी कोर, 7 जनवरी 1972, 31 दिसम्बर 1971 में ज्येष्ठता दी जायेगी जिसका प्रभाव वेतन और भत्ता पर नहीं पड़ेगा।

एफ० एम० वीरजी, अवर सचिव

सं० 2121, दिनांक 30 जुलाई 1973—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अफसर की तरक्की की है:—

प्रादेशिक सेना**प्रादेशिक कमीशन****कैप्टन से मेजर के रैंक में**

बी० एम० शाटनागर (टी० ए० 40557), इन्फैन्ट्री, 7 दिसम्बर 1971।

वाई० एन० श्रीवास्तव (टी० ए० 40623) इन्फैन्ट्री, 22 अप्रैल, 1972।

के० एस० जर्ण (टी० ए०—40684) आर्टिलरी, 28 अप्रैल, 1973।

जी० एस० वाल (टी० ए० 406868), इन्फैन्ट्री, 27 मई, 1972।

जे० चौबे, अवर सचिव

सं० 2122, दिनांक 3 अगस्त 1973—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अफसर की तरक्की की है:—

प्रादेशिक सेना**प्रादेशिक कमीशन****कैप्टन से मेजर के रैंक में**

बी० एम० अहलुवालया (टी० ए० 40691), इन्फैन्ट्री, 5 जून, 1973।

लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रैंक में

तेज सिंह (टी० ए० 41076), आर्टिलरी, 7 दिसम्बर 1971।

एस० एस० गुलेरया (टी० ए० 41132), इन्फैन्ट्री, 18 मार्च 1972।

के० जागीर सिंह (टी० ए० 41146), इन्फैन्ट्री, 30 अप्रैल, 1972।

बी० श्रीकांतन, अवर सचिव

सं० 2123, दिनांक 28 जुलाई 1973—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अफसर की तरक्की की है:—

प्रादेशिक सेना**प्रादेशिक कमीशन****लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रैंक में**

नाथराम (टी० ए० 40979), आर्टिलरी, 7 दिसम्बर 1971।

गुरुदीन सिंह (टी० ए० 40982), आर्टिलरी, 7 दिसम्बर 1971।

एम० के० बोहरा (टी० ए० 41015), इन्फैन्ट्री, 7 दिसम्बर 1971।

एम० एस० अहमद (टी० ए० 41090), इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर, 1971।

जे० चौबे, अवर सचिव

सं० 2124, दिनांक 28 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना**स्थायी कमीशन****लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रैंक में (परख पर)**

के० आर० विशारामकृष्णन, (एम० आर० 02674) उबल्यू०), सैनिक डाक्टरी कोर, 15 जनवरी 1971।

ए० सिंह, (एम० आर० 03024 पी०), सैनिक डाक्टरी कोर, 23 जनवरी 1973।

एफ० एम० वीरजी, अवर सचिव

सं० 2125, दिनांक 1 अगस्त 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों की पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना**स्थायी कमीशन****2/लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट**

दर्शनजित सिंह (आई० सी० 25052), दलीप भारद्वाज (आई० सी० 25053), एस०एम० बरार (आई० सी० 25057), आर० के० पिल्लय (आई० सी० 25087), डी० एम० शेवाल (आई० सी० 25094), एम० एम० बेन्म (आई० सी० 25133) दिपक बजाज (आई० सी० 25190), ए० एम० भिन्दर (आई० सी० 25220), एम०के० शर्मा (आई० सी० 25240) और राकेश कालीया (आई० सी० 25354), आरमडकोर, 13 जून 1973।

परमार्थेम राणा (आई० सी० 25069), आर० के० कालिया (आई० सी० 25119), जी० एम० डिहल्लाम (आई० सी० 25150), गोरुर रमास्वामीयेंयगर गोपीनाथ (आई० सी० 25160), आर० एस० शोहल (आई० सी० 25194), एस० एम० एस० राठोर (आई० सी० 25197), तहोना जवाहरलाल (आई० सी० 25199), बी० के० रावल (आई० सी० 25200), जगमल सिंह (आई० सी० 25247), एन० बी० सहोषे (आई० सी० 25248), रन्जीव कपूर (आई० सी० 25255), राजेन्द्र (आई० सी० 25259), जमबिर सिंह (आई० सी० 25279) एम० पी० सिंह, (आई० सी० 25292), मन्कियत सिंह (आई० सी० 25294), ए० के० मोटी (आई० सी० 25303) आई० आर० गोवहाने (आई० सी० 25311), जे० पी० आर्या (आई० सी० 25324) और के० रामाकृष्णन (आई० सी० 25338), आर्टी०, 13 जून 1973।

सी० पी० कपूर, अवर सचिव

सं० 2126, दिनांक 16 जुलाई 1973—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

लैफ्टि० से कॅप्टन के रैंक में (परख पर)

जे० सिंह (एम० एस० 09193 एम), ए० एम० सी०, 29 नवम्बर 1972 ।

सं० 2127, दिनांक 21 जुलाई 1973—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 15158/डी० जी० ए० एफ० एम० एस०/एम० एन० एम०/1638/एम० डी० (मेडिकल) दिनांक 31 दिसम्बर 1966 के अधीन निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा (अस्थायी)

लैफ्टिनेंट को स्थायीकृत कॅप्टन के रूप में

कुमारी एम० अमीनी (एन० टी० 14735), 17 नवम्बर 1970 ।

सं० 2128, दिनांक 8 मई 1973—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

(सेनिक डाक्टरी कोर)

सूबेदार मेजर (अम्बुलैन्स असिस्टेंट) के रैंक में

सूबेदार (ए० ए०) गुरमुख सिंह (जे० सी० 22468), 16 नवम्बर 1972 ।

सूबेदार मेजर (नर्सिंग टेक्नीशियन) के रैंक में

सूबेदार (एन० टी०) बसन्त कुमार (जे० सी० 33574), 25 दिसम्बर 1972 ।

सूबेदार (अम्बुलैन्स असिस्टेंट) के रैंक में

नायब सूबेदार (ए० ए०) चन्द्रा सेखर (जे० सी० 35143), 1 नवम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (ए० ए०) हनी चन्द्रा (जे० सी० 35145), 9 नवम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (ए० ए०) उमेद सिंह (जे० सी० 35146), 16 नवम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (ए० ए०) भानी चन्द (जे० सी० 35148), 14 दिसम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (ए० ए०) मोहन सिंह (जे० सी० 35149), 18 दिसम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (ए० ए०) बैकुण्ठ सिंह (जे० सी० 38385), 21 दिसम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (ए० ए०) संकर दाम (जे० सी० 33746), 30 दिसम्बर 1972 ।

सूबेदार (नर्सिंग असिस्टेंट) के रैंक में

नायब सूबेदार (एन० ए०) अब्दुल अजीज (जे० सी० 41469), 10 अगस्त 1972 ।

नायब सूबेदार (एन० ए०) सिगाही राय (जे० सी० 45177) 3 नवम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (एन० ए०) सुखदेव सिंह चानी (जे० सी० 45179) 8 नवम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (एन० ए०) मोहद इशाक (जे० सी० 45180), 25 दिसम्बर 1972 ।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) एम० टी० जार्ज (जे० सी० 53783), 13 नवम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) मुख राम (जे० सी० 53785), 16 नवम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) राम सुन्दर सिंह (जे० सी० 53786), 24 नवम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) इन्द्रादेव प्रसाद शर्मा (जे० सी० 54403), 27 नवम्बर 1972 ।

सूबेदार (स्टोरकीपर टेक्नीकल) के रैंक में

नायब सूबेदार (एम० के० टी०) भीम भट्ट जोशी (जे० सी० 48765), 2 नवम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (एम० के० टी०) गया प्रसाद (जे० सी० 48766), 6 नवम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (एम० के० टी०) चन्द्रा प्रकाश (जे० सी० 48767), 8 नवम्बर 1972 ।

सूबेदार (रेडियोग्राफर) के रैंक में

नायब सूबेदार (रेड) जी० सी० बनेजी (जे० सी० 32878) 1 नवम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (रेड) एम० देवानन्दम (जे० सी० 32879), 9 दिसम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (रेड) एम० ई० गेदक अब्दुल रहीम (जे० सी० 32880), 12 दिसम्बर 1972 ।

सूबेदार (लेबोरेटरी टेक्नीशियन) के रैंक में

नायब सूबेदार (एल० टी०) मथुरा प्रसाद जुगलान (जे० सी० 50241), 28 नवम्बर 1972 ।

सूबेदार (लेबोरेटरी असिस्टेंट) के रैंक में

नायब सूबेदार (एल० ए०) नेत्रा प्रकाश (जे० सी० 49457), 30 दिसम्बर 1972 ।

सूबेदार (डेंटल आपरेटिंग रूम असिस्टेंट) के रैंक में

नायब सूबेदार (डी० ओ० आर० ए०) सामे सिंह (जे० सी० 42867), 4 दिसम्बर 1972 ।

सूबेदार (डिस्पेन्सर) के रैंक में

नायब सूबेदार (डिस्पेन्सर) महावीर प्रसाद (जे० सी० 42883), 7 दिसम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार (डिस्पेंसर) सुन्दर राम (जे० सी० 42884),
29 दिसम्बर 1972।

सूबेदार (सैनीटरी अक्सिडेंट) के रैंक में

नायब सूबेदार (एस० ए०) लीनाधर गोपे (जे० सी० 55602),
9 दिसम्बर 1972।

सूबेदार (स्पेशल ट्रीटमेंट अक्सिडेंट) के रैंक में

नायब सूबेदार (एस० टी० ए०) सुधा लाल वर्मा (जे० सी०
48791), 6 नवम्बर 1972।

एफ० एम० बीरजी, अवर सचिव

सं० 2129, दिनांक 28 जुलाई 1973—राष्ट्रपति, निम्न-
लिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेवा

इन्फैन्ट्री

मद्रास रेजिमेंट

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क मुनिसामि (सं० 6864676 अब जे० सी०
71036), 31 जनवरी 1973।

पैराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० क्यू० एम० एच० भूपेन्द्र सिंह थापा (सं० 5834489
अब जे० सी०-71062)—13 नवम्बर 1972

हवलदार बासु थापा (सं० 5436579 अब जे० सी०-
71063), 27 दिसम्बर 1972*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 1972 से दी जाएगी)।

हवलदार अमर सिंह (सं० 2949012 अब जे० सी०-71064)
और हवलदार प्रेम सिंह (सं० 3952452 अब जे० सी०-71065)
—15 नवम्बर 1972।

बी० क्यू० एम० एच० सुब्रामनि (सं० 2545379 अब
जे० सी०-71066)—11 फरवरी 1973।

बी० एच० एम० किशन चन्द (सं० 3945454 अब जे०
सी०-71067)—12 फरवरी 1973।

सी० एच० एम० हेम राज सिंह (सं० 2843685 अब जे०
सी०-71068)—16 फरवरी 1973।

तोप खाना रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

बी० एच० एम० हंस राज (सं० 1150643 अब जे० सी०-
71051)—11 अगस्त 1972।

आर० एच० एम० मोहिन्दर सिंह (सं० 1160393 अब
जे० सी०-71052)—19 अगस्त 1972।

बी० एच० एम० जागीर सिंह (सं० 1148536 अब जे०
सी०-71053)—1 अक्टूबर 1972।

5—204GI/73

आर० एच० एम० सदासिदन नायर एम० (सं० 1147004
अब जे० सी०-71054)—10 अक्टूबर 1972*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1972 से दी जाएगी)।

आर० एच० एम० ईश्वर जंग थापा (सं० 1136085 अब
जे० सी०-71055)—22 अक्टूबर 1972%।

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1972 से दी जाएगी)।

बी० एच० एम० भवन सिंह (सं० 1135479 अब जे०
सी० 71056)—23 दिसम्बर 1972@।

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1972 से दी जाएगी)।

हवलदार आर० वडी वेलू (सं० 1148823 अब जे० सी०-
71057)—26 अक्टूबर 1972।

आर० एच० एम० दाता राम (सं० 1149007 अब जे०
सी०-71058)—6 जनवरी 1973£।

£ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 28 अक्टूबर 1972 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क बी० के० डानीयल (सं० 1139967 अब
जे० सी०-71059)—13 दिसम्बर 1972।

नायब सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

हवलदार माधव राजे शिर्के (सं० 6865756 अब जे०
सी०-71060)—14 नवम्बर 1972।

हवलदार कुशल देव (सं० 1129085 अब जे० सी०-
71061)—29 नवम्बर 1972।

कोर आफ इंजिनियर्स

मद्रास इंजिनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क कन्जीरामला थामस जाय (सं० 1320933
अब जे० सी०-71131)—23 जनवरी, 1973*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 2 दिसम्बर 1972 से दी जाएगी)।

कोर आफ सिगनलस

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

सी० एच० एम० गोपाल दास (सं० 6263616 अब जे०
सी०-71079); सी० एच० एम० बरोगा सिंह (सं० 6263683
अब जे० सी०-71080); सी० एच० एम० बरयाम सिंह (सं०
6263696 अब जे० सी०-71081); सी० एच० एम० बंशी
लाल (सं० 6263843 अब जे० सी०-71082); सी० एच०
एम० हरबंश सिंह (सं० 6263870 अब जे० सी०-71083);
हवलदार दाता राम (सं० 6264062 अब जे० सी०-71084);
हवलदार बनवारी लाल (सं० 6264260 अब जे० सी०-71085)
सी० क्यू० एम० एच० नारायण दास (सं० 6264516 अब जे०
सी०-71086); हवलदार चन्द्रमा सिंह यादव (सं० 6264512
अब जे० सी०-71087); हवलदार बलदेव सिंह (सं० 6264513

अब जे० सी०-71088); सी० एच० एम० सेवा सिंह (सं० 6264707 अब जे० सी० 71089); सी० एच० एम० दुराई स्वामी (सं० 6264684 अब जे० सी०-71090); आर० एच० एम० मुनि लाल (सं० 6264838 अब जे० सी०-71091); हवलदार जमुना राय (सं० 6265258 अब जे० सी०-71092) सी० एच० एम० राधाकृष्णनन (सं० 6265333 अब जे० सी०-71093); और सी० एच० एम० बलदेव सिंह (सं० 6265367 अब जे० सी०-71094)—7 अक्टूबर 1972।

नायब सूबेदार (बलक) रैंक के

हवलदार कपिलेश्वर सिंह (सं० 6276228 अब जे० सी०-71095); हवलदार बेबी के० के० (सं० 6277752 अब जे० सी०-71096); हवलदार पंचदेव प्रसाद (सं० 6264578 अब जे० सी०-71097); और हवलदार के० गंगाधरन (सं० 6270992 अब जे० सी०-71098)—7 अक्टूबर 1972।

नायब सूबेदार (साइफर) के रैंक में

सी० एच० एम० मयाई के० सी० (सं० 6285521 अब जे० सी०-71099); सी० एच० एम० राजिन्दर सिंह (सं० 6285579 अब जे० सी० 71100); सी० एच० एम० मुस्तफा शेख (सं० 6285623 अब जे० सी० 71101); सी० एच० एम० तारहरीश चन्द्र (सं० 6283397 अब जे० सी० 71102); सी० एच० एम० जोगिन्दर पाल (सं० 6284290 अब जे० सी०-71103); सी० एच० एम० केशर सिंह (सं० 6284842 अब जे० सी०-71104); सी० एच० एम० रविन्द्र नाथ भट्टाचार्जी (सं० 6285236 अब जे० सी०-71105); सी० एच० एम० किशन लाल (सं० 6285312 अब जे० सी०-71106); सी० एच० एम० पिल्ला सीता रामैया (सं० 6284324 अब जे० सी० 71107); सी० एच० एम० रणजीत कुमार दत्त (सं० 6284584 अब जे० सी० 71108); और सी० एच० एम० आर० गोपालकृष्ण पिल्ले (सं० 6284918 अब जे० सी०-71109)—7 अक्टूबर 1972।

नायब सूबेदार (आपरेटर स्पेशल) के रैंक में

हवलदार रणजीत सिंह (सं० 6263741 अब जे० सी०-71110); हवलदार रंग राव जाधव (सं० 6271734 अब जे० सी०-71111); हवलदार रामभू सिंह रावत (सं० 6273123 अब जे० सी० 71112); सी० एच० एम० पूरन चन्द्र (सं० 6273187 अब जे० सी०-71113); हवलदार दीप नारायण झा (सं० 6274138 अब जे० सी०-71114); हवलदार एम० अप्पा राव (सं० 6268912 अब जे० सी०-71115) हवलदार करनेल सिंह (सं० 6273041 अब जे० सी०-71116); हवलदार ई० जी० समुएल (सं० 6271989 अब जे० सी०-71117); और हवलदार अमिय कुमार मुकर्जी (सं० 6269407 अब जे० सी०-71118)—7 अक्टूबर 1972।

नायब सूबेदार (वाई० आफ० एस०) के रैंक में

हवलदार श्याम लाल अरोड़ा (सं० 6275773 अब जे० सी०-71119)—7 अक्टूबर 1972।

नायब सूबेदार (एफ० आफ० एस०) के रैंक में

हवलदार सुरेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव (सं० 6278909 अब जे० सी०-71120); हवलदार पंच राम उपाध्या (सं० 6279989 अब जे० सी०- 71121); हवलदार तरसेम सिंह छतरा (सं० 6280572 अब जे० सी०-71122); हवलदार अजायब सिंह (सं० 6280716 अब जे० सी०-71123); हवलदार इन्द्रजीत सिंह (सं० 6282803 अब जे० सी०-71124); हवलदार रणजोध सिंह (सं० 6283159 अब जे० सी०-71125); हवलदार पुलि वेंकटेश्वरु (सं० 6283757 अब जे० सी०-71126) हवलदार अनुप सिंह सिधु (सं० 6276490 अब जे० सी०-71127); हवलदार विजय राम वर्मा (सं० 6284986 अब जे० सी०-71128); हवलदार दयानन्द सिनाई भांगुई (सं० 6285717 अब जे० सी०-71129); और हवलदार टी० ए० अन्धोनी (सं० 6285692 अब जे० सी०-71130)—7 अक्टूबर 1972।

बक्तरबन्ध कोर

नायब रिंसालदार के रैंक में

दफादार हिम्मत सिंह (सं० 1021748 अब जे० सी० 71132), 21 सितम्बर, 1972*।

* (नायब रिंसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अगस्त, 1972 से दी जायेगी)।

एस० डी० एम० धरमपाल सिंह (सं० 1017435 अब जे० सी० 71133), 16 जनवरी, 1973%।

% (नायब रिंसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 दिसम्बर, 1972 से दी जायेगी)।

दफादार चेरीयन अब्राहम (सं० 1029730 अब जे० सी० 71134), 20 दिसम्बर, 1972।

एस० डी० एम० क्लार्कल खांडी म्याथ्यू (सं० 1031272 अब जे० सी० 71135), 21 दिसम्बर, 1972।

एस० डी० एम० वीयन्त सिंह (सं० 1022010 अब जे० सी० 71136), 24 दिसम्बर, 1972।

सैनिक शिक्षा कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रमेश चन्द्र उनियास (सं० 9500971 अब जे० सी० 71038), 15 नवम्बर, 1972*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 नवम्बर, 1973 से दी जायेगी)।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं० 9500941 अब जे० सी० 71039), 26 नवम्बर, 1972**।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 6 नवम्बर, 1972 से दी जायेगी)।

हवलदार पी० के० राघवन नम्बियार (सं० 9500990 अब जे० सी० 71040) 9 दिसम्बर, 1972***।

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 नवम्बर, 1972 से दी जायेगी)।

हवलदार राम किशोर शर्मा (सं० 9501095 अब जे० सी० 71041), 9 नवम्बर, 1972 ।

हवलदार हर्ष सिंह बिष्ट (सं० 9501143 अब जे० सी० 71042), 19 दिसम्बर, 1972 ।

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं० 9501152 अब जे० सी० 71043), 9 जनवरी, 1973 ।

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 नवम्बर, 1972 से दी जायेगी) ।

हवलदार सोन पाल सिंह (सं० 9501150 अब जे० सी० 71044), 30 नवम्बर, 1972 ।

हवलदार विद्या सागर (सं० 9501077 अब जे० सी० 71045), 26 दिसम्बर, 1972 ।

%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1972 से दी जायेगी) ।

हवलदार सरजीत सिंह परमार (सं० 9501156 अब जे० सी० 71046), 5 जनवरी, 1972 ।

%%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 दिसम्बर, 1972 से दी जायेगी) ।

हवलदार हरी राज सिंह त्यागी (सं० 9501179 अब जे० सी० 71047), 15 फरवरी, 1973 ।

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 दिसम्बर, 1972 से दी जायेगी) ।

हवलदार देव बत्त शर्मा (सं० 9501010 अब जे० सी० 71048 14 फरवरी 1973 ।

@@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 दिसम्बर, 1972 से दी जायेगी) ।

हवलदार रघुवर दयाल शर्मा (सं० 9501089 अब जे० सी० 71049), 18 दिसम्बर, 1972 ।

हवलदार सुराइन सिंह मखतानी (सं० 9500998 अब जे० सी० 71050), 20 फरवरी, 1973 ।

@@@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 दिसम्बर, 1972 से दी जायेगी) ।

हवलदार राम चन्दर नोहवाल (सं० 9501041 अब जे० सी० 71037), 21 जनवरी, 1973 ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जुलाई, 1972 से दी जायेगी) ।

सी० पी० कपूर, अवर सचिव

सं० 2130, दिनांक 1 अगस्त, 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

इम्फेन्ट्री

बोगरा रेजिमेंट

सुबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुखराम (जे० सी० 41101), 22 जून, 1973 ।

सुबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क धिगन दास (जे० सी० 49570), 6 जुलाई, 1973 ।

जम्मू और कश्मीर राइफलस

सुबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार भेजरा सिंह (जे० सी० 13637), 16 मार्च, 1973 ।

सूबेदार जनक सिंह (जे० सी० 15195), 19 अप्रैल, 1973 ।

सूबेदार रजमान सिंह (जे० सी० 14070), 25 अप्रैल, 1973 ।

सुबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सस्ती राम (जे० सी० 44982), 14 सितम्बर 1972 ।

नायब सूबेदार दल बहादुर (जे० सी० 44983), 21 नवम्बर, 1972 ।

नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जे० सी० 32954), 1 मार्च, 1973 ।

नायब सूबेदार बिधी सिंह (जे० सी० 36205), 24 मई, 1973 ।

सुबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क जसवन्त सिंह (जे० सी० 37839), 3 मार्च, 1973 ।

नायब सूबेदार क्लर्क ओमकार देव सिंह (जे० सी० 39918), 7 जून, 1973 ।

सिख लाइट इम्फेन्ट्री

सुबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अर्जन सिंह (जे० सी० 54496), 1 जून, 1973 ।

कोर आफ इंजिनियरस

एम० ई० एस० मिलिटरी कैंडर

सुबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क आर० जेम्स, (जे० सी०-14711), 7 अक्टूबर, 1972 ।

सूबेदार क्लर्क राम रतन, (जे० सी०-11759), 8 अक्टूबर, 1972 ।

सूबेदार क्लर्क हर रूप सिंह (जे० सी०-13787), 10 अक्टूबर, 1972।

सूबेदार क्लर्क विशान सिंह, (जे० सी०-15193), 16 नवम्बर 1972।

सूबेदार क्लर्क के० पी० संकरा मरार (जे० सी०-15387) 11 जनवरी, 1973।

सूबेदार क्लर्क के० कुमारा सामी (जे० सी०-15389), 12 जनवरी 1973।

सूबेदार क्लर्क थौमस फ्रांसिस डिसोजा (जे० सी०-15388), 15 जनवरी, 1973।

सूबेदार क्लर्क के० रागोथामा राव, (जे० सी०-15393); सूबेदार क्लर्क वाई० लैबान, (जे० सी०-15392); सूबेदार क्लर्क हरभजन सिंह (जे० सी०-15385), 27 जनवरी 1973।

सूबेदार क्लर्क जसवंत लाल मोतीलाल बाजवाला, (60032-जे० सी०), 24 फरवरी, 1973।

सूबेदार क्लर्क सुचा सिंह, (जे० सी०-13955); सूबेदार क्लर्क गुरवचन सिंह, (जे० सी०-16621), 5 मार्च 1973।

सूबेदार क्लर्क इन्द्रजीत सिंह (जे० सी०-15897), 25 मार्च 1973।

सूबेदार क्लर्क इन्द्रजीत सिंह सेठी, (जे० सी०-16620), 5 अप्रैल 1973।

सूबेदार क्लर्क लच्छमन सिंह, (जे० सी०-16622), 25 अप्रैल 1973।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार नालिह, (जे० सी०-14109), 6 मार्च 1973।

सूबेदार नीरती यादव (जे० सी०-9218), 11 मार्च 1973।

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रेवत सिंह, (जे० सी०-16529), 26 फरवरी, 1972।

सूबेदार नाथू सिंह, (जे० सी०-17143), 22 जुलाई, 1972।

सूबेदार हरगोविंद सिंह करकी (जे० सी०-16534), 25 सितम्बर, 1972।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्यारा सिंह, (जे० सी०-34297), 10 अगस्त 1972।

नायब सूबेदार सूरज मल, (जे० सी०-34300), 25 सितम्बर 1972।

नायब सूबेदार हरचन्द्र सिंह, (जे० सी०-34302), 3 नवम्बर 1972।

नायब सूबेदार सत्य नारायण साओ (जे० सी०-39815) 5 फरवरी, 1973।

कोर आफ सिगनल

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार काबल सिंह, (जे० सी०-12808), 12 अक्टूबर 1972।

सूबेदार के० राजगोपाल सिंह, (जे० सी०-14169) 21 दिसम्बर 1972।

सूबेदार हरि सिंह, (जे० सी०-12807), 16 फरवरी, 1973।

सूबेदार पी० कुन्ही कसन नायर (जे० सी०-14170), 21 फरवरी, 1973।

सूबेदार त्रिलोक सिंह, (जे० सी०-15555); सूबेदार होशियार सिंह, (जे० सी०-15572), 30 मार्च 1973।

सूबेदार मोहम्बत सिंह, (जे० सी०-16631, 4 अप्रैल, 1973।

सूबेदार टी० के० बेबी, (जे० सी०-16637), 7 अप्रैल, 1973।

सूबेदार जे० सिंह पनवर, (जे० सी०-15577), 29 अप्रैल 1973।

इंफेन्ट्री

गावर ब्रिगेड

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अत्तर सिंह, (जे० सी०-34668), 22 मई 1973।

अ० वे० कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

सं० 2131 दिनांक 30 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक आर्डनेन्स कोर

सूबेदार मेजर एम्ब्यूनीशन टेक्निसियन के रैंक में

सूबेदार ताड़तटिल केसवन नायर (जे० सी०-81110), 14 मार्च 1973।

सूबेदार वी० बेंकटेशन, (जे० सी०-8951), 26 मई 1973।

सूबेदार मेजर क्लर्क भण्डार के रैंक में

सूबेदार क्लर्क भंडार (कंट्रोल) रसमय चौधरी, (जे० सी०-53118) 16 अप्रैल 1973।

सूबेदार क्लर्क भंडार (प्रोबीजन) सूखदेव प्राणर, (जे० सी०-53119), 17 मई 1973।

सूबेदार मेजर स्टोर कीपर टेक्निकल के रैंक में

सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (वेपन), जनेन्द्र लाल बोस (42041-जे० सी०), 8 अप्रैल 1973।

सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल, (जी० एस० एण्ड सी०) ए० के० बालाकृष्णन, (जे० सी०-15898), 25 मई 1973।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार स्टोर हेन्ड सामान्य ड्यूटी, मोहम्मद मुस्तफा, (जे० सी०-6531), 1 अप्रैल, 1973।

सूबेदार कारपेंटर (यूनिट), मारुति अप्पाजी सुतार (जे० सी०-7642), 5 अप्रैल, 1973।

सूबेदार स्टोर हेन्ड टेक्निकल, साधू सिंह, (जे० सी०-11975) 19 अप्रैल, 1973।

सूबेदार स्टोर हेन्ड सामान्य ड्यूटी, बाबू राम, (जे० सी०-14320), 23 मई 1973।

सूबेदार एम्प्लोयेशन टेक्नीशियन के रैंक में

नायब सूबेदार मथाइ पी० आइ० (जे० सी०-38049), 16 अप्रैल, 1973

सूबेदार क्लर्क सामान्य ड्यूटी के रैंक में

नायब सूबेदार एम० सी० नायगम (जे० सी०-41140), 18 अप्रैल, 1973।

नायब सूबेदार हर भजन सिंह (जे० सी०-41508), नायब सूबेदार बच्चू लाल यादव (जे० सी०-41153), 17 मई, 1973।

नायब सूबेदार चन्द्र नारायण शर्मा अधिकारी (जे० सी०-41600) 22 मई, 1973।

नायब सूबेदार किशन चन्द (जे० सी०-44142), 23 मई, 1973।

नायब सूबेदार कोशी तिनान (जे० सी०-44143) 26 मई, 1973।

नायब सूबेदार बी० टी० बालाकृष्ण मेनन (जे० सी०-44144), 28 मई, 1973।

सूबेदार क्लर्क सप्लायर (कंट्रोल) के रैंक में

नायब सूबेदार राम किशोर सिंह (जे० सी०-37993), 28 अप्रैल, 1973।

नायब सूबेदार राम रतन सिंह (जे० सी०-38000), 16 मई, 1973।

नायब सूबेदार वैद्यनाथ सिंह (जे० सी०-38001), 23 मई, 1973।

नायब सूबेदार भोला नाथ चौधरी (जे० सी०-38002), 24 मई, 1973।

नायब सूबेदार श्री चन्द (जे० सी०-38009), 25 मई, 1973।

नायब सूबेदार जे० धनराज (जे० सी०-38063), 26 मई, 1973।

सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल के रैंक में

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०) विष्णु दत्त (जे० सी०-44154), 7 मार्च, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (सिगनल) बनारसी लाल (जे० सी०-44155), 14 मार्च, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०) करम चन्द (जे० सी०-44156), 15 मार्च, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०) सुरेश चन्द (जे० सी०-44157), 18 मार्च, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०) पोखर दास (जे० सी०-44158), 20 मार्च, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (जी० एस० एण्ड सी०) तीरथ दास (जे० सी०-30831), 21 मार्च, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०) गिर राज शर्मा (जे० सी०-44159), 1 अप्रैल, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (जी० एस० एण्ड सी०) वृज नारायण त्रिपाठी (जे० सी०-44160), 5 अप्रैल, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (इंजीनियर) मधु सूदन लाल (जे० सी०-44161), 8 अप्रैल, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (जी० एस० एण्ड सी०) शिव शंकर शुक्ला (जे० सी०-44162), 29 अप्रैल, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर (वेपन) प्रताप सिंह (जे० सी०-44164), 30 अप्रैल, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०) मनोहर लाल (जे० सी०-44165), नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (जी० एस० एण्ड सी०) निरंजन दास (जे० सी०-44167), 7 मई, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (जी० एस० एण्ड सी०) वी० आइ० भास्करन (जे० सी०-47378), 8 मई, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (जी० एस० एण्ड सी०) चमन लाल (जे० सी०-46750), 11 मई, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०) कशमीरी राम (जे० सी०-46751), 15 मई, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०) मोहम्मद नसीम अब्बासी (जे० सी०-46752), 18 मई, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०) किशन लाल सेठी (जे० सी०-46753), 28 मई, 1973।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (वेपन) दुलार चन्द राय (जे० सी०-46754), 29 मई, 1973।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार स्टोर हेण्ड सामान्य ड्यूटी चनन सिंह (जे० सी०-41206), 3 मार्च, 1973।

नायब सूबेदार पेंटर (यूनिट) वी० जी० नागराजन (जे० सी०-44177), 7 मार्च, 1973।

नायब सूबेदार टेक्सटाइल रिपेयरर बन्त सिंह (जे० सी०-44178), 12 मार्च, 1973।

बिजली और मशीनी इंजीनियर कोर**सुबेदार मेजर आर्मामेंट आर्ट और आरटीजन (इलिजिबिलि कैटेगरीज) के रैंक में**

सूबेदार शिवाजी पाण्डे (जे० सी०-9364), सूबेदार जनक सिंह (जे० सी०-16217), 1 जुलाई 1973।

सुबेदार मेजर (ड्राईविंग बिग) के रैंक में

सूबेदार ई० आप्पुकुट्टन नायर (जे० सी०-20495), 1 अप्रैल 1973।

सूबेदार के० पी० कारुनाकरन (जे० सी०-19621), 1 जुलाई, 1973।

सुबेदार आर्मामेंट आर्ट और आरटीजन (इलिजिबिलि कैटेगरीज) के रैंक में

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जे० सी०-36278), 1 जनवरी 1973।

नायब सूबेदार जगत राम (जे० सी०-39617), 1 जून 1973।

नायब सूबेदार लक्ष्मी चन्द (जे० सी०-38699), नायब सूबेदार परस राम (जे० सी०-38700), नायब सूबेदार प्रीतम चन्द (जे० सी०-38703), नायब सूबेदार सत पाल (जे० सी०-39608), नायब सूबेदार जगदीश राम (जे० सी०-38684), नायब सूबेदार पूरन सिंह (जे० सी०-38685), नायब सूबेदार मदन लाल (जे० सी०-38686), नायब सूबेदार खैरत लाल नन्दा (जे० सी०-38687), नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-38688), नायब सूबेदार भाग सिंह रानोते (जे० सी०-38689), 1 जुलाई, 1973।

सुबेदार आरमोरर के रैंक में

नायब सूबेदार तेलू राम (जे० सी०-38794), 1 जून, 1973।

सुबेदार बलक (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में

नायब सूबेदार वी० सीतारामन (जे० सी०-39660), 1 फरवरी 1973।

नायब सूबेदार टी० वी० बैन्कीटाचलापथी (जे० सी०-50685) 1 अप्रैल 1973।

नायब सूबेदार विश्वेश्वर दत्ता (जे० सी०-50781), नायब सूबेदार टी० कान्ना कुरुप (जे० सी०-52743), नायब सूबेदार के० मुथु कृष्णन (जे० सी०-52744), नायब सूबेदार विपरा चरन पात्री (जे० सी०-52693), 1 जून 1973।

नायब सूबेदार जगदीश लाल बखशी (जे० सी०-52746), नायब सूबेदार जगदीश नारायण (जे० सी०-52694), नायब सूबेदार एन० कृष्णन (जे० सी०-52695), नायब सूबेदार मदन सारूप (जे० सी०-53756), 1 जुलाई, 1973।

सुबेदार भंडार के रैंक में

नायब सूबेदार नारायण कुट्टी के० (जे० सी०-37165), नायब सूबेदार मोह्व अली खान (जे० सी०-37166), नायब सूबेदार पी०के० सुब्रामनियम (जे० सी०-38770), 1 जुलाई 1973।

सुबेदार (ड्राईविंग बिग) के रैंक में

नायब सूबेदार कृष्ण मोहदीन (जे० सी०-38865), 1 अप्रैल, 1973।

नायब सूबेदार एन० गोविन्दन (जे० सी०-38883), नायब सूबेदार राम लाल (जे० सी०-42202), 1 जून, 1973।

नायब सूबेदार माहाकृष्णा जाकटे (जे० सी०-38887) 1 जुलाई 1973।

सुबेदार (ड्राईविंग बिग) के रैंक में (क्रमशः)

नायब सूबेदार गोपालन नायर (जे० सी०-42204), 1 जुलाई, 1973।

विजय कुमार, अवर सचिव

सं० 2132, दिनांक 28 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेवा**सैनिक सेवा कोर (मोटर परिवहन)****सुबेदार मेजर के रैंक में**

सूबेदार जागेर देव सिंह, (जे० सी०-36957)—18 फरवरी 1973।

सूबेदार मुनुसु पेरिया कराप्पा थैवर रामासवामी, (जे० सी०-36959)—25 फरवरी 1973।

सूबेदार बालाकृष्णा कुरुप, (जे० सी०-36960)—21 मार्च 1973।

सूबेदार बीदा प्रसाद सिंह, (जे० सी०-36961)—31 मार्च 1973।

सूबेदार कखवीलेल नारायण पिल्ले सिवासंकरन नायर, (जे० सी०-36962)—13 अप्रैल 1973।

सूबेदार जिले सिंह (जे० सी०-36963)—23 अप्रैल 1973।

सूबेदार बीरबल शर्मा, (जे० सी०-36964)—6 मई 1973।

सूबेदार बाला दत्त, (जे० सी०-36965)—30 मई 1973।

सुबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह, (जे० सी०-43509); नायब सूबेदार बालनपरम्बिल पद्मनभ पिल्ले बालाकृष्णन नायर, (जे० सी०-43510)—6 जनवरी 1973।

नायब सूबेदार बाबू सिंह, (जे० सी०-43511); नायब सूबेदार चेताराम, (जे० सी०-44036); नायब सूबेदार हरी राम, (जे० सी०-43512); नायब सूबेदार भगवती परशाद सिंह, (जे० सी०-43513)—13 जनवरी 1973।

नायब सूबेदार रामपत सिंह, (जे० सी०-43514); नायब सूबेदार जोगिंदर सिंह, (जे० सी०-43515); नायब सूबेदार अमर सिंह, (जे० सी०-43516)—14 जनवरी 1973।

नायब सूबेदार निहाल सिंह, (जे० सी०-43517); नायब सूबेदार दीवान सिंह, (जे० सी०-43518)—14 मार्च 1973।

नायब सूबेदार तेजपाल सिंह (जे० सी०-43519)—17 मार्च 1973।

नायब सूबेदार दरबंस लाल, (जे० सी०-43520); नायब सूबेदार सिध सिंह, (जे० सी०-45287)—12 अप्रैल 1973।

सेना सेवा कोर

पशु परिवहन

रिसालदार भेंजर के रैंक में

रिसालदार बिराज लाल, (जे० सी०-10493)—15 दिसम्बर 1972।

रिसालदार रघुपाल सिंह, (जे० सी०-5477); रिसालदार राम सरन नोटियाल, (जे० सी०-12389)—1 जनवरी 1973।

रिसालदार रघवीर सिंह, (जे० सी०-12390)—1 फरवरी 1973।

रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार लहरी सिंह, (जे० सी०-35747)—19 सितम्बर 1972।

नायब रिसालदार मेर सिंह सजबाम, (जे० सी०-35748)—15 दिसम्बर 1972।

नायब रिसालदार शिव सिंह राबत, (जे० सी०-35749); नायब रिसालदार मोर सिंह मेगी, (जे० सी०-35750)—1 जनवरी 1973।

नायब रिसालदार ह्योगियार सिंह, (जे० सी०-35752)—1 फरवरी 1973।

सैनिक सेवा कोर

सप्लाय

सूबेदार (व्यक्तिगत सहायक) के रैंक में

नायब सूबेदार अमोलक सिंह, (जे० सी०-45237)—18 मार्च 1973।

बी० एस० राधवन, अवर सचिव

सं० 2133, दिनांक 28 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को 7 जनवरी 1972 से सैनिक डाक्टरी कोर, में अपने आपाती कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और रक्षा मन्त्रालय के पत्र सं० 5404/(69)/डी० जी० ए० एफ० एम० एस०/डी० जी० 1(एक्स)/794/एस० डी० (ग्रेड) दिनांक 10 अगस्त 1970 द्वारा यथा परिचित बलसेना अनुदेश

191/62 के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन के रैंक में

सरुतपादा चैटर्जी, एम० बी० बी० एस०, डी० पी० एच० (कलकत्ता), (एम०-30803 अब एम० आर०-03065 आई), सैनिक डाक्टरी कोर, वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 7 जून 1962 से वी जायेगी (इसमें डी० पी० एच० के लिये 6 मास पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिये नहीं गिनी जायेगी) केवल पदोन्नति मेजर के रैंक में 7 जून 1963 से मानी जायेगी।

विजय रामचन्द्रा पाठक, एम० बी० बी० एस०, (एम०-30205 अब एम० आर०-03075 एच०), सैनिक डाक्टरी कोर, वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 24 दिसम्बर 1963 से दी जायेगी केवल पदोन्नति मेजर के रैंक में 24 दिसम्बर 1964 से मानी जायेगी।

चाध चन्द्रा गोगोई, एम० बी० बी० एस०, (एम०-30267 अब एम० आर०-03077 एन), सैनिक डाक्टरी कोर, वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 4 सितम्बर 1963 से वी जायेगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिये 6 मास पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिये नहीं गिनी जायेगी) केवल पदोन्नति मेजर के रैंक में 4 सितम्बर 1964 से मानी जायेगी।

निरजल्ला पान्डूरंगाम नायडू, एम० बी० बी० एस०, (एम०-30252 अब एम० आर०-03092 एच०), सैनिक डाक्टरी कोर, वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 24 दिसम्बर 1963 से वी जायेगी केवल पदोन्नति मेजर के रैंक में 24 दिसम्बर 1964 से मानी जायेगी।

पातनजली शर्मा, एम० बी० बी० एस०, डी० टी० डी० (दिल्ली), (एम०-30254 अब एम० आर०-03093 एल०), सैनिक डाक्टरी कोर, वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 4 सितम्बर 1963 से वी जायेगी (इसमें डी० टी० डी० के लिये 6 मास पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिये नहीं गिनी जायेगी) पदोन्नति केवल मेजर के रैंक में 4 सितम्बर 1964 से मानी जायेगी।

दिगामबर मरोटी राव, एम० बी० बी० एस०, डी० पी० एच० (ओसमिना) (एम०-30127 अब एम० आर०-03137 एक्स०), सैनिक डाक्टरी कोर, वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 4 सितम्बर 1963 से मानी जायेगी (इसमें डी० पी० एच० के लिये 6 मास पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिये नहीं गिनी जायेगी) केवल पदोन्नति मेजर के रैंक में 4 सितम्बर 1964 से मानी जायेगी।

राजवीर सिंह चौहान, एम० बी० बी० एस०, एम० एस० (आगरा) (एम०-30598 अब एम० आर०-03159 डब्ल्यू०), सैनिक डाक्टरी कोर, वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 17 अगस्त 1960 से वी जायेगी (इसमें एम० एस० के लिये एक वर्ष पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिये नहीं गिनी

जायेगी) केवल पदोन्नति मेजर के रैंक में 17 अगस्त 1961 से मानी जायेगी।

सं० 2134, दिनांक 29 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को 20 जून 1968 से सैनिक डाक्टरी कोर, में अपने अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और रक्षा मन्त्रालय के पत्र सं० 5404(69)/डी० जी० ए० एफ० एम० एस०/डी० जी० 1(एक्स)/794/एस०/डी० (मेड) दिनांक 10 अगस्त 1970 द्वारा यथा परिवर्तित थल सेना अनुदेश 191/62 के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

**नियमित सेना
स्थायी कमीशन
कैप्टन के रैंक में**

नीमाह चन्द से, एम० बी० बी० एस०, (एम० एस०-7479 अब एम० आर०-02399 एफ०), सैनिक डाक्टरी कोर, वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 27 दिसम्बर 1965 से दी जायेगी केवल पदोन्नति मेजर के रैंक में 31 दिसम्बर 1965 से मानी जायेगी।

(18 अप्रैल 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 1026 दिनांक 25 मार्च 1970 को अहाँ तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है रह किया जाता है।

सं० 2135, दिनांक 28 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को 19 अप्रैल 1971 से सैनिक डाक्टरी कोर, में अपने अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और रक्षा मन्त्रालय के पत्र सं० 5404/(69)/डी० जी० ए० एफ० एम० एस०/डी० जी० 1(एक्स)/794/एस०/डी० (मेड) दिनांक 10 अगस्त 1970 द्वारा यथा परिवर्तित थलसेना अनुदेश 191/62 के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

**नियमित सेना
स्थायी कमीशन
कैप्टन के रैंक में**

बुद्धा नाथ बोरगोहेन, एम० बी० बी० एस०, (एम० एस०-7940 अब एम० आर०-02862 एक्स०), सैनिक डाक्टरी कोर, वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 13 मई 1968 से दी जायेगी।

सं० 2136, दिनांक 28 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को 14 दिसम्बर 1971 से सैनिक डाक्टरी कोर, में अपने अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और रक्षा मन्त्रालय के पत्र सं० 5404/(69)/डी० जी० ए० एफ० एम० एस०/डी० जी०/(एक्स)/794/एस०/डी० (मेड) दिनांक 10 अगस्त 1970 द्वारा यथा परिवर्तित थलसेना अनुदेश

191/62 के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

**नियमित सेना
स्थायी कमीशन
कैप्टन के रैंक में**

सन्तोष कुमार मिश्रा, एम० बी० बी० एस०, (एम० एस०-8069 अब एम० आर०-02996 डब्ल्यू०) (11983), सैनिक डाक्टरी कोर, वेतन और पदोन्नति में कसबे ज्येष्ठता 12 जनवरी 1964 से दी जायेगी केवल पदोन्नति मेजर के रैंक में 12 जनवरी 1965 से मानी जायेगी।

सं० 2137, दिनांक 6 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को असैनिक सेवा पुनर्ग्रहण करने के लिए कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

**नियमित सेना
आपाती कमीशन**

कैप्टन पी० रमनजानेयुल, (एम०-30428), ए० एम० सी०—29 सितम्बर 1967।

सं० 2138, दिनांक 6 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को अस्वस्थता के कारण अपना कमीशन छोड़ने की अनुमति प्रदान करते हैं।

**नियमित सेना
आपाती कमीशन**

कैप्टन डी० पी० बन्सल, (एम०-30836), ए० एम० सी०, —3 जून 1968।

एफ० एम० बीरजी
अवर सचिव

सं० 2139, दिनांक 28 जुलाई 1973—राष्ट्रपति ने निम्न-लिखित अफसर को, उस को अल्पकालीन कमीशन मिलने पर प्रादेशिक कमीशन त्यागने की अनुमति दी है :—

**प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन**

के० राम सिंह रटकूरिया (टी० ए०-41401), इन्फैन्ट्री—
29 अप्रैल 1973।

जे० चौधे,
अवर सचिव

सं० 2140, दिनांक 3 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को उनकी अपनी प्रार्थना पर निजी कारणों से थलसेना से सेवा-निवृत्त होने की अनुमति देते हैं :—

**नियमित सेना
स्थायी कमीशन**

कर्नल डी० पी० सेन (एम० आर०-293) ए० एम० सी०—
21 अक्तूबर 1972।

एस० आर० गुरुस्वामी, उप सचिव

सं० 2141, दिनांक 27 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को उसकी अपनी प्रार्थना पर निजी कारणों से थल सेना से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लैफ्टिनेन्ट कर्नल सोहन सिंह बाईस (आई० सी०-4333),
ए० ओ० सी०—5 फरवरी 1973 ।

लैफ्टिनेन्ट कर्नल बी० एन० शर्मा, (आई० सी०-2603),
आर्टिलरी—24 फरवरी 1973 ।

लैफ्टिनेन्ट कर्नल जी० सारंगपानी (आई० सी०-8905),
ए० एस० सी०—5 फरवरी 1973 ।

लैफ्टिनेन्ट कर्नल एम० शेरगिल, (आई० सी०-3887),
ए० ओ० सी०—12 फरवरी 1973 ।

लैफ्टिनेन्ट कर्नल (टी० एस०) गुरचरन सिंह (आई० सी०-
8903), ए० एस० सी०; लैफ्टिनेन्ट कर्नल एस० एन० भाटिया,
(आई० सी०-10305), सिगनल—4 अप्रैल 1973 ।

लैफ्टिनेन्ट कर्नल बसन्त सिंह, (आई० सी०-10904),
इन्जीनियर—2 अप्रैल 1973 ।

कैप्टन दत्ता नायक, (एस० एल०-635)—8 अप्रैल 1973
मेजर आर० एल० मलिक (आई० सी०-10838), ए०
ओ० सी०—27 अप्रैल 1973 ।

लैफ्टिनेन्ट कर्नल एस० एस० खोखर (आई० सी०-1477),
डोगरा—5 अप्रैल 1973 ।

मेजर सुदर्शन सिंह, (आई० सी०-6298), सिगनल—23
अप्रैल 1973 ।

सं० 2142, दिनांक 27 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अफसर को अनिवार्य सेवा निवृत्त की आयु को प्राप्त करने पर
थल सेना से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन के० एस० लायल, (आई० सी०-11410) सिगनल,
1 अगस्त 1968 ।

सी० पी० कपूर, अवर सचिव

सं० 2143, दिनांक 3 अगस्त 1973—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अफसर को अनिवार्य आयु प्राप्त करने पर अपना स्थाई
रैंक बनाए रखने का रैंक का प्रयोग करने की आज्ञा के साथ सैनिक
सेवा से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर के० सी० गोयल, (टी० ए०-40608), आर्टिलरी—
28 दिसम्बर 1971 ।

मेजर बी० वाई० होलकर (टी० ए०-40246), आर्टिलरी—
4 अगस्त 1972 ।

वी० श्रीकान्तन, अवर सचिव

सं० 2144, दिनांक 28 जुलाई 1973—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अफसर को उसकी बढ़ाई हुई अवधि के उपरांत अपना
स्थाई रैंक प्रयोग करने की आज्ञा के साथ सैनिक सेना से निवृत्त
होने की अनुमति देते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर एम० एस० नायडु, (टी० ए०-40611), इन्फैंट्री—
1 अक्टूबर 1972 ।

जे० चौबे, अवर सचिव

(नियमित सेना ए० ओ० सी०)

सं० 2145, दिनांक 1 अगस्त 1973—निम्नलिखित
अधिकारी उनके नाम के सामने लिखित तिथि से सेवा निवृत्त हुए—

श्री पी० प्रसाद, स्थायी आर्डनेंस अधिकारी सिविलियन
(भंडार)—1 जुलाई 1973 (पूर्वाह्न) ।

श्री एस० नारायणन्, स्थायी आर्डनेंस अधिकारी सिविलियन
(भंडार)—7 जुलाई 1973 (पूर्वाह्न) ।

सं० 2146, दिनांक 31 जुलाई 1973—निम्नलिखित
स्थाई ई० एम० ई० आफिसर (सिविलियन) उनके नाम के सामने
दी गई तिथि से सेवा से निवृत्त हुए :—

बिजली और मशीनी इंजीनियरिंग कोर

श्री बी० पी० डुबे—11 जून 1973 (पूर्वाह्न) ।

सं० 2147, दिनांक 1 अगस्त 1973—निम्नलिखित
अधिकारी का उनके नाम के सामने लिखित तिथि को देहान्त हुआ :—

एम० ई० एस० 20000, श्री बी० पी० गर्ग, स्थाई सुपरिन्टे-
न्डेंट, बी०/आर० ग्रेड I और अस्थाई ए० ई० ई० (बी०/आर०)—
2 जुलाई 1973 ।

जी० एस० अग्रवाल, अवर सचिव

सं० 2148, दिनांक 30 जुलाई 1973—निम्नलिखित अफसर
को जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दिये गये वंड के अनुसार उसके
नाम के सामने दी गई तारीख से नौकरी से कैंशियर किया गया :—

नियमित सेना

नियमित कमीशन

आई० सी० 3729 मेजर सार्दूल सिंह, ए० ओ० सी०—21
अप्रैल, 1969 ।

दीपक चटर्जी, अवर सचिव

सं० 2149, दिनांक 6 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को सेनिक सेवा से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टेन बी० एस० सिंह, (एम० एस०-07727 एन०), ए० एम० सी०—20 अप्रैल, 1973।

एफ० एम० वीरजी, अवर सचिव

सं० 2150, दिनांक 24 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित जनरल अफसर को, ब्रिगेड आफ गार्डज के सम्मानित कर्नल के पद को, 15 जनवरी, 1973 से, त्यागने की सहर्ष स्वीकृति देते हैं :—

जनरल एस० एच० एफ० जे० भानकशौ (आई० सी०-14) एम० सी०।

एल० दयाल, संयुक्त सचिव

सेना भूमि और छावनी सेवा

सं० 2151, तारीख 2 अगस्त, 1973—राष्ट्रपति सेना भूमि और छावनी सेवा में, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

श्रेणी 2 अधिकारी से स्थानापन्न श्रेणी-1 में जो 2 वर्ष की अवधि तक परछाधीन रहेंगे

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. श्री एम० के० वासवानी | 2-1-1973 (पूर्वाह्न) |
| 2. श्री पिरथीपाल सिंह | 19-1-1973 (पूर्वाह्न) |
| 3. श्री आर० डी० एन० वर्मा | 19-1-1973 (पूर्वाह्न) |
| 4. श्री एम० एन० श्रीवास्तव | 19-1-1973 (पूर्वा०) |
| 5. श्री बी० एल० घवन | 19-1-1973 (पूर्वाह्न) |
| 6. श्री बी० अल्फ्रेड | 9-2-1973 (पूर्वाह्न) |

ए० एस० बेदी, अवर सचिव

(नौसेना ब्रांच)

नौसेना मुख्यालय

सं० 2152, तारीख 2 अगस्त, 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

(क) श्री एम० जी० मधुरा, स्थायी सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर, श्री राजबहादुर, सिविलियन स्टाफ अफसर के स्थान पर, जिन्हें अवकाश प्रदान किया गया है, 14 मई, 1973 से 30 जून 1973 तक स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अफसर होंगे।

(ख) श्री हरबंस लाल, स्थायी सहायक, श्री एम० जी० माधुरा, जिन्हें पदोन्नत किया गया है, के स्थान पर 14 मई, 1973 से 30 जून, 1973 तक स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर होंगे।

सं० 2153, तारीख 2 अगस्त, 1973—राष्ट्रपति श्री आर० सी० गुप्ता, स्थायी सहायक को 17 मार्च, 1973 से 30 जून

1973 तक स्थानापन्न ए० सी० एस० ओ० के रूप में श्री सी० ए० डालटन, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई के स्थान पर नियुक्त करते हैं।

सं० 2154, तारीख 27 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति, श्री ओ० पी० रल्लन, स्थायी सहायक को 16 अप्रैल, 1973 से 31 मई, 1973 तक स्थानापन्न ए० सी० एस० ओ० के रूप में श्री आर० एल० जोशी, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई, के स्थान पर नियुक्त करते हैं।

सं० 2155, तारीख 27 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति, श्री जे० एन० शर्मा स्थायी सहायक को श्री प्रकाश लाल के स्थान पर, जिन्हें अवकाश प्रदान किया गया है 15 जून 1973 से स्थानापन्न ए० सी० एस० ओ० नियुक्त करते हैं।

पी० एन० मैनन,
सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी (ए०)

सं० 2156, तारीख 31 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

श्री जे० एम० डायस, स्थायी वरिष्ठ स्टोर कीपर/स्थानापन्न वरिष्ठ फोरमैन स्टोर, श्री एस० फरनैनडस, सहायक नौसेना स्टोर अफसर के स्थान पर, जिन्हें 9 अप्रैल, 1973 से 2 जून 1973 तक अवकाश प्रदान किया गया है, स्थानापन्न सहायक नौसेना स्टोर अफसर होंगे।

श्री सी० सुदर्शन, स्थायी, वरिष्ठ स्टोरकीपर/स्थानापन्न, वरिष्ठ स्टोर फोरमैन की श्री एच० पी० राव, सहायक नौसेना स्टोर अफसर के स्थान पर, जिन्हें 9 अप्रैल, 1973 से 26 मई, 1973 तक अवकाश प्रदान किया गया है, स्थानापन्न सहायक नौसेना स्टोर अफसर नियुक्त करते हैं।

ए० एस० बेदी, अवर सचिव

सं० 2157, तारीख 3 अगस्त, 1973—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय नौसेना

(अल्प सेवा कमीशन)

इन्जेन्यूअरिंग ब्रांच

कार्यकारी सब लेफ्टि० की सब-लेफ्टि० के पद पर

ए० के० मनराए, ए० एस० मैनेज और सी० एल० नन्दा, 22 जनवरी, 1973, 22 जनवरी 1972 की ज्येष्ठता सहित (केवल पदोन्नति के लिए)। देखिए रक्षा मंत्रालय ओ० एफ०/4304/61/एन० एच० क्यू०/409/डी० (एन०-II), तारीख 21 जनवरी 1963 और ओ० एफ०/4356/69/एन० एच० क्यू०/3599/डी० एन०-II) तारीख 3 मई, 1970।

सुरेश चन्द्र पुरोहित, अवर सचिव

सं० 2158, तारीख 30 जुलाई, 1973—निम्नलिखित अफसर उनके नाम के आगे निर्दिष्ट तारीख से सेवा-निवृत्त हुए :—

श्री एस० एस० कपूर, स्थायी नौसेना स्टोर अफसर—27 नवम्बर, 1971 ।

जी० एस० अग्रवाल, अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

सं० 2159, तारीख 1 अगस्त, 1973 (i) भारत के राजपत्र तारीख 14 अगस्त, 1971 में शीर्षक "नौसेना ब्रांच" उप शीर्षक स्थायी कमीशन (इलेक्ट्रीकल ब्रांच) के अंतर्गत प्रकाशित रक्षा मंत्रालय अधिसूचना 1994, तारीख 27 जुलाई 1971 में 'उमेश चन्द्र गुप्त' के नाम के आगे नियुक्ति की तारीख '14-12-69, के लिए '15-12-69' पढ़ें ।

(ii) भारत के राजपत्र भाग 1 खण्ड 4 तारीख 28 सितम्बर, 1972 में "भारतीय नौसेना इंजीनियरी ब्रांच" शीर्षक, उप-शीर्षक "सब० लेफ्टि० से लेफ्टि०" के अन्तर्गत लेफ्टि० टी० एम० राम के बारे में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2454, तारीख 2 सितम्बर, 1972 का शुद्धि पत्र :—

"29-9-71 की बजाय "8-9-82", '29-9-71' की ज्येष्ठता सहित" (केवल पदोन्नति के लिये) पढ़ा जाय ।

(iii) भारत के राजपत्र भाग 1 खण्ड 4, तारीख 19-7-69 में शीर्षक, भारतीय नौसेना, उप शीर्षक, सब लेफ्टि० की लेफि० के पद पर, के अन्तर्गत के० सी० देवरस के बारे में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय, अधिसूचना संख्या 1823, तारीख 7-7-69 का शुद्धि पत्र ।

16 मार्च, 1967 (16-3-67) के स्थान पर, 1 सितम्बर, 66 (1-9-66) पढ़ें ।

सुरेश चंद्र पुरोहित, अवर सचिव

(वायु शाखा)

सं० 2160, तारीख 24 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति, वायुसेना के निम्नलिखित अफसरों की, जिन को स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था, पुष्टि करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

प्रशासन शाखा

पायलट अफसर सी० पी० रहेजा (13079), ए० एस० स्वामी (13080), एस० एस० मेहता (13081); जे० बी० सक्सेना (13083); जे० एन० धवले (13084), ए० एस० मान (13086); आई० पी० एस० धूमन (13087); के० एस० साथी (13089); एस० टी० कुलकर्णी (13090), आर० रंगनाथन् (13092); जे० आर० जौहर (13094); वी० के० दयालु (13096); तथा भोपेन्द्र सिंह (13097)—17 जून, 1972 ।

परिभारिकी शाखा

पायलट अफसर मोती लाल (13098); एस० भसीन (13099); जे० बी० गुप्ता (13100); एच० एस० विक्सन

(13101); वी० के० एस० रमेश (13102); बी० एम० बालकृष्णन (13103); डी० पी० एस० रेखी (13104); एस० एन० अन्सारी (13105); पी० के० सहगल (13106); पी० आर० अरविन्द (13107); जे० एस० बोपाराय (13108); टी० एन० गुप्ता (13109); एस० हरलु (13110); ए० के० सिंह (13111) तथा एस० पी० सिंह (13112)—17 जून, 1972 ।

पायलट अफसर इंद्रीत सिंह (13128)—12 अगस्त 1972 ।

लेखा शाखा

पायलट अफसर पी० एन० मिश्रा (13113); सी० सी० अपन्ना (13114); राजीव कुमार (13116); जी० चांद (13117); एस० मुखर्जी (13118); डी० वी० अरोड़ा (13119); एस० जे० ओक (13120); ए० के० जैतली (13121); एम० जी० नायडू (13122); यू० एम कौशिक (13123); एस० एस० पुरी (13124); ए० एन० सूद (13125); पी० के० गुप्ता (13126) तथा ए० के० पुरी (13127)—17 जून, 1972 ।

होशनाक सिंह, अवर सचिव

सं० 2161, तारीख 24 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को ग्रुप कैप्टेन के कार्यकारी रैंक में पदोन्नत करते हैं :—

भारतीय वायुसेना

उड़ान (पायलट) शाखा

विंग कमाण्डर मान सिंह, वा० प, वि० से० प (4094)—29 जनवरी, 1973 ।

उड़ान (नॉनपैटर) शाखा

विंग कमाण्डर बी० एल० चड्ढा (4110)—29 जनवरी, 1973 ।

शिव प्रसाद राय, उप-सचिव

सं० 2162, तारीख 23 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायुसेना

बैनामिक इंजीनियरी (विद्युत) शाखा

विंग कमाण्डर आर० शुक्ल (3615)—24 अप्रैल, 1972 से ।

सं० 2163, तारीख 23 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित अफसर को स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायुसेना

बैनामिक इंजीनियरी (विद्युत) शाखा

विंग कमाण्डर (कार्यकारी ग्रुप कैप्टेन) आर० एस० शिव स्वामी (3798)—1 मार्च, 1973 ।

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट लैफ्टिनेन्ट एन० एस० मेहता (6520)—30 अगस्त, 1972।

सं० 2164 तारीख 23 जुलाई, 1973—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को नाम के सामने लिखी तारीख से, फ्लाईंग अफसर के मूल रैंक में, उड़ान (नेवी) शाखा से प्रशासन शाखा में स्थानान्तरित करते हैं, किन्तु भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वायु सेना मुख्यालय/21901/11372/पी० ओ० 2/5285/

डी० (एयर III) तारीख 27 जून, 1972 के अधीन इस रैंक में उनकी बरिष्ठता 31 दिसम्बर, 1969 से प्रभावी होगी।

भारतीय वायुसेना**प्रशासन शाखा**

फ्लाईंग अफसर रवीन्द्र सिंह (11372)—4 जनवरी, 1972।

होपनाक सिंह, अवसर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 25th August 1973

No. 2087, dated 19th July 1973.—The President is pleased to appoint Shri S Koteeswaran, a pmt Grade I officer of the CSS, Under Secy, Min of Def as Planning Officer (Air Force) for the period from 5th July 1973 to 23rd Aug 1973.

No. 2088, dated 20th July 1973.—On transfer from the Government of Assam, the President is pleased to appoint Shri A K Pandey, IAS, as Under Secy, Min of Def wef the 18th July, 1973.

S N ROY, Under Secy

(ARMY BRANCH)

No. 2089, dated 30th July 1973.—The President is pleased to make the following appointment:—

Office of the CAO

Shri R K Sharma, pmt Asstt to be ACSO in an offg capacity from 14th May 1973 to 13th July 1973, vice Shri I P Goyal, on leave.

A D ANAND, Asstt CAO.

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 2090, dated 31st July 1973.—The President is pleased to make the following appointments:—

Defence Science Service

Shri SURESH KUMAR, tempy JSO, Research & Development Establishment (Engrs), Poona, to be tempy. SSO, Grade II, in Defence Research & Development Laboratory, Hyderabad, on probn for a period of two years—17th Apr 1973 (FN).

Shri SHIV CHARAN, Quasi pmt JSO, Solid State Physics Laboratory, Delhi, to be Senior Scientific Officer, Grade II, in the same Establishment on probn for a period of two years—5th June 1973 (FN).

V R RAMASWAMY, Dy Dir.

DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION

No. 2091, dated 27th July 1973.—The undermentioned officers retired from service wef the date shown:—

Defence Science Service

Shri S Misra, tempy Principal Scientific Officer (pmt SSO Grade I), Controllerate of Inspection (Metals), Ishapore, 30th June 1973 (AN).

Shri T N Dar, tempy Principal Scientific Officer (pmt SSO Grade II), Inspectorate of Small Arms, Kanpur, 20th July 1973 (AN).

S S GUPTA, Dy Dir (Admin.)

DIRECTORATE OF TECHNICAL DEVELOPMENT AND PRODUCTION (AIR)

No. 2092, dated 4th Aug 1973.—The President is pleased to make the following appointment:—

Defence Science Service

Shri S B Prasad, tempy Junior Scientific Officer (Assistant

Inspecting Officer), OCRI DTD&P (Air), Nasik, to be tempy Senior Scientific Officer Grade II (Inspecting Officer) in the same establishment, on probn. for a period of 2 years, wef 19th July 1973 (F/N).

T V SANKARAN, Dir.

NATIONAL CADET CORPS

No. 2093, dated 26th July 1973.—The President is pleased to grant commission to the following:—

Senior Division (Army Wing)**To be 2/Lts****Maharashtra**

Vasant Ramchandra PATIL (NCC/930), 26th Mar 1970.

Tamil Nadu

KANDASAMY RAMAIAH (NCC/14129), 27th Feb 1971.
Edyarpalayam Krishnakonar RAMASWAMY (NCC/14130), 21st July 1972.

Andhra Pradesh

NIPPATLA SREENIVASULU (NCC/11014), 1st July 1972.

Punjab

Karam Jit Singh GREWAL (NCC/6428), 7th Apr 1971.
Harinder Singh SIDHU (NCC/6430), 9th Feb 1972.
Malinder Singh LAMBA (NCC/6431), 25th Mar 1971.
Hakam Singh BRAR (NCC/6432) and Sarbjit Singh BASI (NCC/6433), 21st Sep 1971.

Rajasthan

Mohan Lal SHARMA (NCC/9510), 8th July 1972.

No. 2094, dated 19th July 1973.—The President is pleased to make the following promotions:—

Senior Division (Army Wing)**Cpts to be Majors****Maharashtra**

S B Pandit (NCC/91) and N P Sharma (NCC/92), 15th July 1971.

Lts to be Cpts**Maharashtra**

B R Joshi (NCC/467), R M Pai (NCC/487) and S B Patil (NCC/472), 30th June 1971.

K S Gundawar (NCC/367), 1st Apr 1971.

Tamil Nadu

K R Venkataramanan (NCC/1404), 1st Apr 1971.

Uttar Pradesh

J P Srivastava (NCC/4418) and S P Singh (NCC/4288), 28th June 1969.

R N Singh (NCC/4940), U V Singh (NCC/4927) and K S Chahar (NCC/4937), 1st Oct 1971.

S C Singhal (NCC/4258), 26th July 1967.

- Soran Singh (NCC/4601), 1st Apr 1971.
C L Padiyar (NCC/4488), 27th June 1970.
- Rajendra Giri (NCC/4750), S G Sibtain (NCC/4850), Maganu Singh (NCC/4812), M P S Tomar (NCC/4851), G Ramchandani (NCC/4826), R C Dhoundiyal (NCC/4792), S L Madhwal (NCC/4796), B B Singh (NCC/4860), C M Upadhyay (NCC/4808) and J K Mendevell (NCC/4786), 12th July 1971.
- M B Sah (NCC/4495), 27th June 1970.
- Delhi*
- J P Vidyalkar (NCC/5584), 9th July 1971.
- Himachal Pradesh*
- Shamsher Chand (NCC/6147), 9th July 1971.
- Mysore*
- D K Moorthy (NCC/7129), 1st Apr 1971.
C S M Shankarappa (NCC/7211), 30th June 1971.
J Viswanath (NCC/7290), 28th Nov 1971.
- Gujarat*
- D G Dhakan (NCC/9834), R N Jaiswal (NCC/9823), 30th June 1971.
- I D Bhatt (NCC/9775), 24th Dec 1970.
- 2/Lts to be Lts*
- Maharashtra*
- K K Khade (NCC/824), 9th Jan 1970.
R N Mothghare (NCC/820), 21st July 1971.
R L Jeryal (NCC/761), 12th Dec 1970.
M C Wakde (NCC/788), 1st July 1971.
- Uttar Pradesh*
- S S Behere (NCC/5326), Jagannath Rai (NCC/5333) and S D Tiwari (NCC/5339), 30th June 1971.
- M M Saran (NCC/5352), O P Soti (NCC/5344), S C Saxena (NCC/5347), S C Kuthari (NCC/5349), T R Kumar (NCC/5354), J U A Siddiqui (NCC/5362), Y N Misra (NCC/5381), S S Singh (NCC/5353), M P Singh (NCC/5383), and P N Pandey (NCC/5367), 21st July 1971.
- R S Bisht (NCC/5303), S P Shukla (NCC/5316), C B Dwivedi (NCC/5312) and D R Sharma (NCC/5313), 6th Mar 1971.
- Bechan Singh (NCC/5385), 1st Aug 1971.
B P Sarbhai (NCC/5393), 11th May 1967.
N K Takyal (NCC/5387), 21st Nov 1967.
- Delhi*
- N K Bhattacharyya (NCC/5627), 31st July 1969.
- Kerala*
- Joseph Abraham (NCC/8085), 5th June 1971.
- Senior Division (Naval Wing)*
- Sub/Lts to be Lts*
- Tamil Nadu*
- K Paramasivan (NCCN/1323), 30th July 1969.
- Uttar Pradesh*
- L N Sharma (NCCN/4625), 1st Apr 1971.
- Junior Division (Army Wing)*
- First Officers to be Chief Officers*
- West Bengal*
- P K Mallick (NCCJ/14166), 16th July 1969.
D D Indra (NCCJ/14223), 15th July 1970.
- Second Officers to be First Officers*
- West Bengal*
- B B Maity (NCCJ/14365), 10th Nov 1965.
K R Roy (NCCJ/14451) and K L Kumar (NCCJ/14452), 1st Jan 1969.
- S C Mukherjee (NCCJ/14556), 3rd Aug 1970.
H S Bannerjee (NCCJ/14611) and Bimalendu Das (NCCJ/14631), 2nd Dec 1970.
S Bhattacharyya (NCCJ/14508), 20th Dec 1970.
P K Ray (NCCJ/14534), 24th Dec 1970.
- Delhi*
- H S Sohal (NCCJ/6163), 1st Aug 1971.
R N Kashyap (NCCJ/6157), 5th Sep 1971.
- Punjab*
- J S Nagi (NCCJ/8020), 16th Aug 1972.
Suriit Singh Sandhu (NCCJ/7692), 11th Oct 1972.
- Mysore*
- P K Venkataramanna (NCCJ/23131), 7th Sep 1972.
- Kerala*
- T C Thomas (NCCJ/25266), A A Abdul Khader (NCCJ/25268) and T V S Warriar (NCCJ/25283), 3rd Dec 1971.
P. Kader (NCCJ/25299), P K Parthasarathy (NCCJ/25313), K M Ouseph (NCCJ/25323) and Sreedharan Nair (NCCJ/25307) and A Balakrishna Panikkar (NCCJ/25325), 23rd Feb 1972.
C V Sankaranarayanan (NCCJ/25352) and B C Pande (NCCJ/25353), 14th July 1972.
K Philip (NCCJ/25334), 12th Aug 1972.
- Third Officers to be Second Officers*
- Pondicherry*
- Rethinasamy Thandapani (NCCJ/51540), 12th Oct 1972.
- West Bengal*
- P G Paroi (NCCJ/14635), 17th July 1966.
R K Mondal (NCCJ/14984), A Samad (NCCJ/14987), K P Mondal (NCCJ/14996) and K P Karfa (NCCJ/15000), 1st Sep 1969.
S P Bandyopadhaya (NCCJ/14675), 3rd Dec 1966.
G S Patra (NCCJ/14846), 18th Dec 1966.
R R Mondal (NCCJ/14717), K B Mukhopadhyay (NCCJ/14777), C S De (NCCJ/14791) and A K Hazra (NCCJ/14803), 1st July 1967.
N C Debnath (NCCJ/14863), 7th Jan 1968.
B K Ghosh (NCCJ/14670), 22nd Mar 1968.
D K Bhaduri (NCCJ/15233), 29th Aug 1968.
S R Bayen (NCCJ/15026), 1st Sep 1969.
A B Kar (NCCJ/15070), 20th Nov 1969.
B B Banerjee (NCCJ/15077), 24th Jan 1970.
J Acharyya (NCCJ/14896), 12th Feb 1970.
G S Chattopadhyay (NCCJ/15157), 13th Sep 1970.
G D Das (NCCJ/15158), 1st Oct 1970.
ID. V Symss (NCCJ/15134), 27th Oct 1970.
D R Chatterjee (NCCJ/15169), 5th Feb 1971.
- Delhi*
- M P Sharma (NCCJ/7795), 27th Jan 1970.
V S Vatsa (NCCJ/7802), 24th Jan 1970.
Moinuddin (NCCJ/7813), B P Mandal (NCCJ/7814), B S Malik (NCCJ/7817), O S Teotia (NCCJ/7821) and D S Negi (NCCJ/7826), 5th June 1970.
H S Vatsa (NCCJ/7853), S C Sharma (NCCJ/7861) and Hari Ram (NCCJ/7862), 22nd Sep 1970.
Victor Sundar Singh (NCCJ/6305), 12th Oct 1972.
Ram Mehar Singh (NCCJ/7867), 27th Oct 1970.
B N Joshi (NCCJ/6283), 22nd Dec 1970.
- Punjab*
- Faqir Singh Kasturya (NCCJ/8023), 21st May 1972.
G S Gosal (NCCJ/8202), 12th Oct 1972.

Himachal Pradesh

L R Sharma (NCCJ/23721) and C R Sundal (NCCJ/23722), 1st Apr 1969.

J G Sharma (NCCJ/23689), 19th June 1969.

Sangat Singh (NCCJ/23654), 6th July 1969.

Kerala

K J Ravi (NCCJ/25512), M V John (NCCJ/25517), K C Varkey (NCCJ/25519) and V N Subramonia Pillai (NCCJ/25521), 4th June 1972.

A Gopalakrishnan (NCCJ/25503), 4th Sep 1972.

*Junior Division (Naval Wing)**Second Officers to be First Officers**Madhya Pradesh*

M C Mishra (NCCJN/5452), 17th Apr 1972.

Kerala

P Gopalan (NCCJN/25336), Stanley Robert Parambath (NCCJN/25339) and K G Bhat (NCCJN/25340), 2nd Aug 1972.

*Third Officers to be Second Officers**Kerala*

Panampelavil Narayana Pillai Velayudha Kurup (NCCJN/25534), K G Ramachandran Pillai (NCCJN/25535) and K Sugunan Pillai (NCCJN/25536), 6th July 1972.

*Junior Division (Air Wing)**Second Officer to be First Officer**West Bengal*

N C Ganguly (NCCJA/14536), 15th July 1970.

*Junior Division (Army Wing)**First Officers to be Chief Officers**Tamil Nadu*

S Singaravelu (NCCJ/9269), 1st Aug 1970.

L R Balasubramaniam (NCCJ/9343), 7th July 1972.

S Lourdasamy (NCCJ/9460), 10th Nov 1972.

Madhya Pradesh

D N Karmahe (NCCJ/5331), 7th July 1972.

West Bengal

S D Prasad (NCCJ/14321), 8th Sep 1972.

Bihar

M K Verma (NCCJ/1198), 6th Aug 1970.

Uttar Pradesh

S M Zakaria (NCCJ/12271), 8th Sep 1972.

Haryana

K K Malhotra (NCCJ/7246), 15th Mar 1971.

Mysore

Seetharama Rao Prabhakara (NCCJ/23022), 8th Sep 1972.

Orissa

Bidyadhar Pawida (NCCJ/11069), 30th Dec 1969.

*Second Officers to be First Officers**Tamil Nadu*

S Seshadri (NCCJ/51114), 31st Oct 1969.

C A Srinivasaraghavan (NCCJ/51290), 14th July 1972.

Madhya Pradesh

S N Dwivedi (NCCJ/5448), 14th May 1971.

P S Bundela (NCCJ/5475) and K C Rajvaidya (NCCJ/5481), 3rd Dec 1971.

West Bengal

S C Samanta (NCCJ/14600), 7th Aug 1971.

B C Samanta (NCCJ/14737), A Bagchi (NCCJ/14759) and S S Panda (NCCJ/14816), 1st July 1972.

Bihar

S D Singh (NCCJ/1338) and S N Upadhyaya (NCCJ/1344), 2nd Dec 1970.

Uttar Pradesh

N S Rathaur (NCCJ/13161) and Udai Raj Singh Shishodia (NCCJ/13167), 23rd Feb 1972.

K L Batra (NCCJ/13316), 8th Dec 1972.

Haryana

S K Mehta (NCCJ/7864), 1st Oct 1972.

Kerala

K P Krishnan Nair (NCCJ/25305), 23rd Feb 1972.

Orissa

M Moharana (NCCJ/61114), 1st Oct 1972.

Jammu and Kashmir

M L Bhat (NCCJ/26281), 2nd Dec 1970.

*Third Officers to be Second Officers**Maharashtra*

Bhimrao Anna Khot (NCCJ/81568), 15th Feb 1973.

Tamil Nadu

S Krishnan (NCCJ/51494), 7th Oct 1970.

Perumal Pillai Pazhani (NCCJ/51725), 25th Dec 1971.

R Narayanaswamy (NCCJ/51541), 10th Oct 1972.

K R Subramanian (NCCJ/51552), 1st Nov 1972.

S Vaithilingam (NCCJ/51548), 15th Feb 1973.

Madhya Pradesh

G P Mishra (NCCJ/5496), 16th Mar 1968.

M L Gupta (NCCJ/5748), 8th Feb 1969.

R N Sharma (NCCJ/5619), 5th June 1970.

R K Tiwari (NCCJ/5865), 4th Mar 1971.

R Y Pandey (NCCJ/5683) and L P Pandey (NCCJ/5689), 21st June 1971.

R N Mishra (NCCJ/5862) 21st May 1972.

O P Agrawal (NCCJ/5715), R D Yadav (NCCJ/5717) and G D Soni (NCCJ/5723), 4th June 1972.

O S Kawale (NCCJ/5681), 17th June 1972.

G S Naik (NCCJ/5708), 8th Oct 1972.

P D Balaiya (NCCJ/5790), 13th Oct 1972.

S C Thacker (NCCJ/5676), 30th Dec 1972.

West Bengal

B N Datta (NCCJ/14742) and S C Pal (NCCJ/14794), 1st July 1967.

A R Roy (NCCJ/14895), 1st Apr 1969.

L M Mondal (NCCJ/14983) and K C Mandal (NCCJ/15018), 1st Sep 1969.

B N Ray (NCCJ/15203) and P J Rao (NCCJ/15204), 4th June 1972.

Bihar

G N Prasad (NCCJ/1472) and Deobali Choubey (NCCJ/1474) 21st Aug 1969.

Uttar Pradesh

B R Dwivedi (NCCJ/13388) and R S Lal (NCCJ/13389), 12th Oct 1972.

S N Singh (NCCJ/13395), 22nd Oct 1972.

Haryana

Yogender Singh (NCCJ/8095), 12th Oct 1972.

O P Sharma (NCCJ/8153), 15th Feb 1973.

Himachal Pradesh

Lekh Ram (NCCJ/23713), 14th Mar 1970.

R P Misra (NCCJ/23745), 1st Apr 1970.

Nagaland

Khalo (NCCJ/480), 12th Oct 1972.

Mysore

M Narayana Rao (NCCJ/23391), 4th June 1973.

Kerala

K A Radhakrishnan (NCCJ/25516) and O T Joseph (NCCJ/25520), 4th June 1972.

R Gangadharan Unnithan (NCCJ/25523), 12th Oct 1972.

Gujarat

B K Patel (NCCJ/35362), 15th Feb 1973.

Jammu and Kashmir

S D Singh (NCCJ/26359), 3rd Jan 1969.

O P Magotra (NCCJ/26353), 4th June 1972.

*Junior Division (Naval Wing)**Second Officers to be First Officers**Tamil Nadu*

D L Philips (NCCJN/51241), 15th Aug 1970.

Y Dharmaraj (NCCJN/51245), 23rd Aug 1970.

A R Jambukeswaran (NCCJN/51250), 28th July 1971.

Madhya Pradesh

B S Sant (NCCJN/5451), 28th July 1971.

*Junior Division (Air Wing)**First Officers to be Chief Officers**Madhya Pradesh*

S K Choudhary (NCCJA/5350), 25th Feb 1972.

Delhi

R S Bhargava (NCCJA/6075) and O P Sharma (NCCJA/6078), 4th Nov 1972.

*Second Officers to be First Officers**Madhya Pradesh*

Trimbak Deo (NCCJA/5454), 7th July 1971.

Bihar

A K Chatterjee (NCCJA/1373), 5th July 1972.

*Third Officers to be Second Officers**Madhya Pradesh*

S N Choube (NCCJA/5540), 4th July 1968.

Bihar

Mohammad Taqiuddin (NCCJA/1552), 27th July 1972.

*Junior Division (Army Wing)**First Officers to be Chief Officers**Tamil Nadu*

P Ramachandran (NCCJ/9260), 1st Aug 1970.

Madhya Pradesh

R K Khatri (NCCJ/5320), 5th Nov 1972.

West Bengal

J B De (NCCJ/14219), 15th July 1970.

P K Pramanik (NCCJ/14330), 10th Nov 1972.

*Second Officers to be First Officers**Maharashtra*

D L Desai (NCCJ/81093), 17th Sep 1971.

N B Singh (NCCJ/81197) and S R Nilpankar (NCCJ/81211), 1st July 1972.

R S Bhujbal (NCCJ/81174), 20th Sep 1972.

P S Chede (NCCJ/81042) and M R Joshi (NCCJ/81088), 18th Nov 1972.

D M Shelke (NCCJ/81228), 5th Mar 1973.

S B Tonpe (NCCJ/81224), 16th Mar 1973.

H K Ghawate (NCCJ/81302), 26th Mar 1973.

Madhya Pradesh

U M Kelkar (NCCJ/5751), 9th Aug 1969.

S A Majid (NCCJ/5334), 23rd Mar 1970.

Kuwar Jaipal Singh Raiji (NCCJ/5429), 13th Aug 1971.

K L Pathak (NCCJ/5495), 16th Mar 1973.

West Bengal

B K Biswas (NCCJ/14582), 20th July 1971.

S A Hyder (NCCJ/14870), 1st May 1972.

I B Maity (NCCJ/14732) and S K Chowdhury (NCCJ/14755), 1st July 1972.

N N Samanta (NCCJ/14862), 1st Sep 1972.

A K Pal (NCCJ/14892), 1st Jan 1973.

*Third Officers to be Second Officers**Maharashtra*

B T Jawale (NCCJ/81263), 22nd June 1969.

W C Wadhonkar (NCCJ/81431), 27th Oct 1970.

S G Dhavde (NCCJ/81487), 21st Feb 1971.

S V Suryawanshi (NCCJ/81536), 4th June 1972.

K V Nalawade (NCCJ/81548), and L S Sonawale (NCCJ/81549), 12th Oct 1972.

P D Kulkarni (NCCJ/81563) and B T Patil (NCCJ/81569), 15th Feb 1973.

P R Kale (NCCJ/81603) and S B Nirmal (NCCJ/81604), 25th Mar 1973.

D K Sen (NCCJ/81606), 26th Mar 1973.

P B Patil (NCCJ/81611), 1st June 1973.

Tamil Nadu

A Rajasekaran (NCCJ/51769), 13th Sep 1972.

A Meignanamoorthi (NCCJ/51566), 5th Feb 1973.

V Ganapathy (NCCJ/51567) and R Jacob (NCCJ/51669), 6th Feb 1973.

S H Santhappa (NCCJ/51545), P V Rajasekaran (NCCJ/51549) and M Subramanian (NCCJ/51550), 15th Feb 1973.

M G Seethupandian (NCCJ/51569), 1st Apr 1973.

S Arokiaraja (NCCJ/51571), 1st June 1973.

Madhya Pradesh

S A Majid (NCCJ/5334), 1st July 1964.

U M Kelkar (NCCJ/5751), 9th Aug 1964.

A N Singh (NCCJ/5662), 27th Apr 1968.

J P Banker (NCCJ/5569), 29th May 1969.

S N Pandey (NCCJ/5743), 16th Aug 1969.

S K Joshi (NCCJ/5693), 1st Jan 1970.

G S Runwal (NCCJ/5555), 31st Mar 1970.

A P Paliwal (NCCJ/5626), 5th June 1970.

S S Nirbhaya (NCCJ/5564), 1st July 1970.

V L Yadav (NCCJ/5726), 29th Nov 1972.

M K Shrivastava (NCCJ/5764), 3rd Dec 1972.

B B Singh (NCCJ/5733), 15th Feb 1973.

R K Pande (NCCJ/5361), 3rd July 1963.

West Bengal

R R Dey (NCCJ/14781), 1st July 1967.

M Pandey (NCCJ/14933), 16th June 1968.

B B Pal (NCCJ/14922), 29th May 1969.

N P Misra (NCCJ/14975) K K Choubey (NCCJ/14990), R A Rai (NCCJ/15015) and A R Banerjee (NCCJ/15045), 1st Sep 1969.

A C Khan (NCCJ/15154), 12th Dec 1969.

A M Paladhi (NCCJ/15083), 14th Mar 1970.

C R Kar (NCCJ/15080), 20th Apr 1970.

R N Guchhait (NCCJ/14991), 2nd May 1970.

M A Ansari (NCCJ/14947), 1st June 1970.

J K Mondal (NCCJ/15137), 27th Oct 1970.

P K Banerjee (NCCJ/15159), 21st Feb 1971.

- H B Jha (NCCJ/15216), 1st July 1971.
 N B Maity (NCCJ/15217), 1st Feb 1972.
 S D K Baranwal (NCCJ/15223), 12th Oct 1972.
 J Majumdar (NCCJ/15234), 1st Nov 1972.
Junior Division (Naval Wing)
First Officer to be Chief Officer
West Bengal
- D P Ganguly (NCCJN/14293), 26th June 1972.
Second Officers to be First Officers
Madhya Pradesh
- R K Tiwari (NCCJN/5572), 28th July 1971.
West Bengal
- R Tewary (NCCJN/14797), 2nd Aug 1972.
Third Officers to be Second Officers
Madhya Pradesh
- M R Joshi (NCCJN/5637) and B S Tyagi (NCCJN/5639), 26th June 1970.
 B M Goyal (NCCJN/5736), 6th July 1972.
Junior Division (Air Wing)
First Officer to be Chief Officer
West Bengal
- A P Upadhvay (NCCJA/14296), 9th June 1972.
Third Officers to be Second Officers
West Bengal
- M L Rai Singh (NCCJA/15128), 20th July 1970.
 S K Mandal (NCCJA/15211), 27th July 1972.
Junior Division (Army Wing)
First Officers to be Chief Officers
Madhya Pradesh
- R K Mahendra (NCCJA/5204), 21st Dec 1970.
 K D Jha (NCCJA/5222), 27th Dec 1970.
 G A Ashtekar (NCCJ/5270), 15th July 1971.
Second Officers to be First Officers
Maharashtra
- V S Adgaonkar (NCCJ/81071), S E Pargaonkar (NCCJ/81079) and S K Medhekar (NCCJ/81084), 3rd Aug 1970.
 T T Lawande (NCCJ/81188), 3rd Dec 1971.
 P M Gandhe (NCCJ/81178), 14th Feb 1972.
Tamil Nadu
- M S Viswanathan (NCCJ/51119), 31st Oct 1969.
Madhya Pradesh
- R K Mahendra (NCCJ/5204), 21st Dec 1963.
 L B Singh (NCCJ/5468), 6th Jan 1969.
 J K Rai (NCCJ/5702), 1st July 1969.
 S Chandraker (NCCJ/5450), 30th Aug 1970.
 B S Chaudhry (NCCJ/5433), 2nd Dec 1970.
 R R Joshi (NCCJ/5427), 3rd June 1971.
 S A Kadar (NCCJ/5420), 6th June 1971.
 M L Nema (NCCJ/5489), 1st Sep 1971.
 M S Bundela (NCCJ/5464) and U S Tripathi (NCCJ/5465), 23rd Sep 1971.
 G R Tiwari (NCCJ/5472), S L Yaduwanshi (NCCJ/5473),
 I L Kashyap (NCCJ/5474), K P Pandey (NCCJ/5477) and
 K B Quershi (NCCJ/5480), 3rd Dec 1971.
 R K Naidu (NCCJ/5486), 23rd Feb 1972.
 D P Ber (NCCJ/5463), 24th June 1972.
West Bengal
- J K Goswami (NCCJ/14331), 10th Nov 1965.
 S Mitra (NCCJ/15189), 10th June 1968.
- K P Singh (NCCJ/14469), 1st Jan 1969.
 K C Das (NCCJ/14557), and H D Dubey (NCCJ/14559),
 3rd Aug 1970.
 P C Chandra (NCCJ/14612) and B N Chatterji (NCCJ/14628), 2nd Dec 1970.
 M P Shaw (NCCJ/14552), 28th June 1971.
 Udhoji Rai (NCCJ/14576), 1st July 1971.
 P C Kundu (NCCJ/14634), 3rd Nov 1971.
 S L Chowdhury (NCCJ/14682), 3rd Dec 1971.
 D Chakrabarty (NCCJ/14752), B P Koyal (NCCJ/14754),
 P C Mukherjee (NCCJ/14767), G C Chakrabarti (NCCJ/14831),
 S K Mishra (NCCJ/14836) and L K Mandal (NCCJ/14858), 1st July 1972.
Third Officers to be Second Officers
Maharashtra
- Rajendra Dube (NCCJ/81448), M G Rothey (NCCJ/81452),
 L H Rane (NCCJ/81461), P P Mehta (NCCJ/81471) and
 D R Bhadkamkar (NCCJ/81488), 21st Feb 1971.
 A D Ahire (NCCJ/81425), 27th Aug 1971.
 V P Jawalkar (NCCJ/81521), 3rd Mar 1972.
 A N Deshmukh (NCCJ/81541), 7th Mar 1972.
 H G Bhosale (NCCJ/81522), 13th Mar 1972.
Madhya Pradesh
- J K Rai (NCCJ/5702), 1st July 1964.
 M S Nandanwan (NCCJ/5667), 3rd Mar 1969.
 P K Mukherji (NCCJ/5611), 1st Jan 1970.
 D M Tripathy (NCCJ/5621) and N P Shukla (NCCJ/5629),
 5th June 1970.
 S P Shrivastava (NCCJ/5643) and H R Pal (NCCJ/5647),
 7th Aug 1970.
 V P Tripathi (NCCJ/5657), A K Bose (NCCJ/5658) and
 M L Dalal (NCCJ/5664), 22nd Sep 1970.
 S K Gupta (NCCJ/5620), 20th Feb 1971.
 S C Gupta (NCCJ/5671), 21st Feb 1971.
 J P Tamrakar (NCCJ/5679), 30th Mar 1971.
 M S Sengar (NCCJ/5686), S P Pandey (NCCJ/5688),
 R M Awasthi (NCCJ/5690) and T N Tiwari (NCCJ/5691),
 21st June 1971.
 V S Thakur (NCCJ/5750), 16th July 1971.
 P A Bhagwat (NCCJ/5697), 1st Nov 1971.
 V S Bhati (NCCJ/5721), 4th June 1972.
West Bengal
- K C Dey Sarkar (NCCJ/14820), 1st July 1967.
 S K Roy Choudhury (NCCJ/14944), 31st July 1969.
 M M Mal (NCCJ/15013), 1st Sep 1969.
 B C Ray (NCCJ/14899), 2nd Feb 1970.
 S M Tiwari (NCCJ/15165), 21st Feb 1971.
 S C Ghosh (NCCJ/15175), 21st June 1971.
 B K Ghosh (NCCJ/15140), 27th Oct 1971.
 K L Maity (NCCJ/15185), 1st Nov 1971.
 G Bhattacharyya (NCCJ/15205), 4th June 1972.
 K N Ojha (NCCJ/15218), 1st July 1972.
Junior Division (Naval Wing)
Second Officers to be First Officers
Tamil Nadu
- Manicka Kannian (NCCJN/51107), 6th Aug 1969.
Madhya Pradesh
- B S Adhikari (NCCJN/5330), 16th July 1967.
West Bengal
- V V Singh (NCCJN/14641), 28th July 1971.

*Third Officers to be Second Officers**Maharashtra*

M S Pandit (NCCJN/81510) 7th July 1971

Madhya Pradesh

P S Bagga (NCCJN/5634) 18th Dec 1970

West Bengal

R C Bhattacharya (NCCJN/14798) 2nd Aug 1967.

J Brown (NCCJN/15187) A K Ray (NCCJN/15192) and S Sasmal (NCCJN/15193) 7th July 1971

*Junior Division (In Wing)**First Officers to be Chief Officers**Madhya Pradesh*

K D Rainaparkhay (NCCJA/5351) 4th Aug 1971,

West Bengal

B N Mazumder (NCCJA/14299) 9th June 1972

*Second Officers to be First Officer**West Bengal*

N C Das (NCCJA/14653), T B Gupta (NCCJA/14656) and S Mukherjee (NCCJA/14659) 7th July 1971

*Third Officers to be Second Officers**Madhya Pradesh*

S N Dwivedi (NCCJA/5542) and D R Sinha (NCCJA/5570), 7th Feb 1969

*Junior Division (Army Wing)**First Officers to be Chief Officers**Bihar*

R P Sharma (NCCJ/1201) 26th July 1971

R D Vishwakarma (NCCJ/1240), 10th Nov 1972

Uttar Pradesh

Narbadeshwar Azad (NCCJ/12249), 12th Feb 1971

D B Joshi (NCCJ/12285) 10th Nov 1972

*Second Officers to be First Officers**Bihar*

Jagdish Prasad (NCCJ/1289) 3rd July 1968

B P Singh (NCCJ/1299), 1st Jan 1969

S P Sah Gupta (NCCJ/1312) 31st Oct 1969

G L Senapathi (NCCJ/1315) 14th Jan 1970,

Chandrika Prasad (NCCJ/1357) 3rd Aug 1970.

Uttar Pradesh

S N Tripathi (NCCJ/13006) 9th Nov 1966

P B Singh (NCCJ/13084), 1st Jan 1970

Bhola Singh (NCCJ/13140) 3rd Dec 1971

K S Awasthi (NCCJ/13131) 19th Dec 1971

Noor Mohammad (NCCJ/13416) 2nd Feb 1972

D N Verma (NCCJ/13170) 23rd Feb 1972

Madan Jeet Singh Vig (NCCJ/13142) 25th Aug 1972

H C Mathur (NCCJ/13088), 18th Nov 1972

Delhi

A S Dabas (NCCJ/6131) 31st Oct 1969

R K Pathak (NCCJ/6135) 1st Nov 1969

U S Dabas (NCCJ/6166) 2nd Dec 1970

S P Vaid (NCCJ/6158) 1st Aug 1971

P S Ahuja (NCCJ/6156) 28th Aug 1971

K C Rahu (NCCJ/6167) and S S Sharma (NCCJ/6180) 3rd Dec 1971

V S Verma (NCCJ/6170), Hazari Lal Kodan (NCCJ/6171) and Arthur Wasley (NCCJ/6173) 13th July 1972

*Third Officers to be Second Officers**Bihar*

N K Prasad (NCCJ/1398) 7th Apr 1969

S C Dwary (NCCJ/1419) and I N Bhagat (NCCJ/1424) 31st July 1969

B Choudhary (NCCJ/1449), Jagdish Poddar (NCCJ/1453), R C P Singh (NCCJ/1458), A K Ghosh (NCCJ/1461) and K P Saha (NCCJ/1473) 21st Aug 1969

N K Jha (NCCJ/1444) and Samresh Choudhary (NCCJ/1445), 10th Nov 1969

D L Mandal (NCCJ/1478), 20th Nov 1969

S P Gupta (NCCJ/1500), R P Sinha (NCCJ/1501) and B P Sinha (NCCJ/1505) 13th Mar 1970

Mohammad Siddique Ali (NCCJ/1506) 12th May 1970

N C Majeed (NCCJ/1534) and S K Lahiri (NCCJ/1536) 21st June 1971

Harendra Singh (NCCJ/1542) and I D Singh (NCCJ/1549), 4th June 1972

Uttar Pradesh

B B Singh (NCCJ/13093) 2nd Aug 1965

A N Dubey (NCCJ/13271), 24th Jan 1970

R S Verma (NCCJ/13290) 24th Jan 1971

P R Sharma (NCCJ/13324), S P Joshi (NCCJ/13325), V S Rawat (NCCJ/13331), K N Badoni (NCCJ/13336) and Sukh Dev (NCCJ/13337), 21st Feb 1971

D D Sharma (NCCJ/13359) 20th Apr 1971

E U Khan (NCCJ/13340), 21st June 1971

P N Srivastava (NCCJ/13353) and S P Dubay (NCCJ/13356) 1st Nov 1971,

M S Yadav (NCCJ/13369) and B B Tewari (NCCJ/13370), 4th June 1972,

Amanat Ullah (NCCJ/13381), Ranvir Singh (NCCJ/13385), K Kumar (NCCJ/13386) and C S Khurwar (NCCJ/13391), 12th Oct 1972

M C Sharma (NCCJ/13397), 21st Oct 1972

S S Chauhan (NCCJ/13396), 19th Nov 1972

Delhi

Arthur Welev (NCCJ/6173) 13th July 1967

Fateh Singh (NCCJ/7804) and V M Anand (NCCJ/7810), 13th Mar 1970

A P Nath (NCCJ/7815), S P Jain (NCCJ/7822) and Abnash Chander (NCCJ/7832), 5th June 1970

Daya Chand (NCCJ/7852), 19th Sep 1970

A S Saini (NCCJ/7855), 22nd Sep 1970

Rajpal Singh (NCCJ/7792), 1st Apr 1971,

Ranvir Singh (NCCJ/7824) 3rd Apr 1971

N N Sharma (NCCJ/6278), 21st June 1971

M S Dabas (NCCJ/6290) 7th Sep 1971

M S Dabas (NCCJ/6292), R B Sharma (NCCJ/6293), D K Gautam (NCCJ/6295) and Ram Dass (NCCJ/6296) 4th June 1972

B L Mahajan (NCCJ/6311) and C P Bhatia (NCCJ/6312) 8th Aug 1972

S N Sharma (NCCJ/6307) 15th Feb 1973

*Junior Division (Naval Wing)**First Officers to be Chief Officers**Delhi*

P S Verma (NCCJN/6069) and R G Chaturvedi (NCCJN/6070) 29th July 1972

*Second Officers to be First Officers**Delhi*

B I Bhaidwaj (NCCJN/6147) 1st July 1970

*Third Officers to be Second Officers**Uttar Pradesh*

Jaswant Singh (NCCJN/13363), 7th July 1971

Delhi

I S Atora (NCCJN/6287) 20th Apr 1969

Rajendra Singh (NCCJN/6289), 7th July 1971

S M Yadav (NCCJN/6302) and Harbhajan Singh (NCCJN/6304), 6th July 1972.

Junior Division (Air Wing)
Third Officers to be Second Officers
Uttar Pradesh

Peter Anthony (NCCJA/13376) and J B Das (NCCJA/13377), 27th July 1972.

Junior Division (Army Wing)
First Officers to be Chief Officers
Kerala

R Kunjukrishna Pillai (NCCJ/25070), 30th Apr 1972.
P M John (NCCJ/25087) and P V Chummar (NCCJ/25098), 4th Nov 1972.

A K George (NCCJ/25076) and K M Dominic (NCCJ/25100), 10th Nov 1972.

Andhra Pradesh

T C Veeranna (NCCJ/9430), 15th Mar 1972.

M Padma Rao (NCCJ/9520), 26th May 1972.

Second Officers to be First Officers

Maharashtra

Prabhakar Jadhav (NCCJ/81101), 20th Oct 1971.

D V Deshmukh (NCCJ/81169), 3rd Dec 1971.

D G Kant (NCCJ/81156), 10th May 1972.

T D Patil (NCCJ/81194), K V Dharmadlukari (NCCJ/81199) P K Gune (NCCJ/81206), M I Khan (NCCJ/81208) and P B Upase (NCCJ/81226), 1st July 1972.

R H Bayas (NCCJ/81153) and Bhaskar Nairhar Rao Tathode (NCCJ/81212), 26th July 1972.

M B Gokhale (NCCJ/81170), 18th Sep 1972.

I J Sharma (NCCJ/81148), 2nd Oct 1972.

Mysore

G D Kale (NCCJ/23169) and M Subbannachar (NCCJ/23170), 14th July 1972.

Kamshetty Vaijanath (NCCJ/23129), 2nd Oct 1972.

Kerala

R Kunjukrishna Pillai (NCCJ/25070), 30th Apr 1965.

K Madhavan Nair (NCCJ/25351), 14th July 1972.

Andhra Pradesh

G Rama Reddy (NCCJ/41179), 16th Apr 1972.

M Narayana Reddy (NCCJ/41218), G Kullayappa (NCCJ/41219) and M F Saheb (NCCJ/41226), 3rd Dec 1971.

Third Officers to be Second Officers

Maharashtra

P J Patil (NCCJ/81344), 16th Aug 1969.

N G Yedke (NCCJ/81282), 22nd Feb 1970.

D H Bhosale (NCCJ/81419), 27th Oct 1970.

S G Pandarge (NCCJ/81473), 21st Feb 1971.

L K Deshpande (NCCJ/81381), 2nd May 1971.

B H Patil (NCCJ/81429), 27th Aug 1971.

U M Jalkote (NCCJ/81460), 24th Feb 1972.

M G Sharma (NCCJ/81519), 1st Apr 1972.

I. B Dhotre (NCCJ/81535), 4th June 1972.

M L Sahni (NCCJ/81531), V G Kher (NCCJ/81532) and Moinuddin Ahmed (NCCJ/81533), 2nd July 1972.

G S Kore (NCCJ/81556), 14th July 1972.

N B Digraikar (NCCJ/81546), S A Jadhav (NCCJ/81550), D D Prade (NCCJ/81552), B B Kotkar (NCCJ/81553) and M K Joshi (NCCJ/81554), 12th Oct 1972.

West Bengal

K R Pramanik (NCCJ/14866), 6th Aug 1970.

K P Mahato (NCCJ/15145), 25th Sep 1970.

Mysore

H G Chikkamudalaiah (NCCJ/23369), 19th July 1971.

Kerala

Abraham George (NCCJ/25434) 22nd Sep 1970.

C R Chandrasekhara Panicher (NCCJ/25557), 3rd July 1972.

P A Varghese (NCCJ/25524), K Moidunni (NCCJ/25527), M A Antony (NCCJ/25528) and G Sekhara Pillai (NCCJ/25529), 12th Oct 1972.

Andhra Pradesh

M A Pasha (NCCJ/41456), 4th June 1972.

M Veerabhadrapa (NCCJ/41462) and N S Krishna Suri (NCCJ/41463), 12th Oct 1972.

M Krishna (NCCJ/41468), M A Qayyum (NCCJ/41469) and B Sathyanarayan (NCCJ/41480), 4th Nov 1972.

Junior Division (Naval Wing)

First Officer to be Chief Officer

West Bengal

S Bhowmick (NCCJN/14290), 26th June 1972.

Second Officers to be First Officers

Maharashtra

H S Gurbani (NCCJN/81181), 7th June 1972.

Mysore

K R Rangaswamanna (NCCJN/23136), H Suryanarayana Hande (NCCJN/23137) and H Sadashiva Hegde (NCCJN/23165), 7th June 1972.

M Vishnu Moorthy (NCCJN/23260), 2nd Aug 1972.

Kerala

K M Joseph (NCCJN/25338), 2nd Aug 1972.

Andhra Pradesh

P Venkata Rao (NCCJN/41165), 14th Sep 1971.

Third Officers to be Second Officers

Maharashtra

M K Paralkar (NCCJN/81333), 31st July 1970.

B M Wandile (NCCJN/81511), G Parthasarathy (NCCJN/81512) and R N Moharir (NCCJN/81514), 7th July 1971.

S S Karnik (NCCJN/81562), 8th July 1972.

Mysore

M K Subba Rao (NCCJN/23365), 26th June 1970.

K Anandan (NCCJN/23410), 6th July 1972.

Goa

S M Ferrao (NCCJN/81597), 24th Nov 1972.

Kerala

M R Yadav (NCCJN/25559), 12th Oct 1972.

Andhra Pradesh

P H T Prakasam (NCCJN/41461), 6th July 1972.

Junior Division (Air Wing)

First Officers to be Chief Officers

Andhra Pradesh

K Sambasiva Rao (NCCJA/9399) and D R Satyanarayana (NCCJA/9424), 4th Nov 1972.

Second Officers to be First Officers

Maharashtra

B S Pande (NCCJA/81214), 5th July 1972.

Mysore

S Parameswaraiiah (NCCJA/23156) and U Machendranath (NCCJA/23163), 5th July 1972.

*Third Officers to be Second Officers**West Bengal*

Y M Trivedi (NCCJA/15213) and J P Roy (NCCJA/15214), 27th July 1972.

Mysore

H S Abdul Gaffar (NCCJA/23399) and K Basavaraju (NCCJA/23404), 27th July 1972.

*Junior Division (Army Wing)**First Officers to be Chief Officers**Punjab*

Puran Singh (NCCJ/19033), 1st Jan 1973.

Assam

K C Baruah (NCCJ/60), C Bordoloi (NCCJ/64), K C Das (NCCJ/65) and B K Chakrabarty (NCCJ/68), 19th Feb 1972.

D Bhagabati (NCCJ/77), 8th Sep 1972.

Orissa

S Rath (NCCJ/11094), 7th July 1972.

*Second Officers to be First Officers**Punjab*

Gurdev Singh (NCCJ/7747), 20th Aug 1971.

Gurmit Singh (NCCJ/7651), 3rd Dec 1971.

B P Bhandari (NCCJ/7649), 18th Nov 1972.

Karamjit Singh (NCCJ/7770), 26th Mar 1973.

Haryana

D N Gupta (NCCJ/8010), 13th Aug 1967.

Himachal Pradesh

M L Jaijvi (NCCJ/7661) and K I. Gupta (NCCJ/23562), 3rd Dec 1971.

I D Sharma (NCCJ/23544), 6th Nov 1971.

D R Narula (NCCJ/7713) and S S Thakur (NCCJ/23614), 13th July 1972.

Assam

K Bora (NCCJ/190), R C Handique (NCCJ/192), H N Chetia (NCCJ/197), D N Barua (NCCJ/211), D Kalita (NCCJ/215), P C Sarmah (NCCJ/220), and P K Saha (NCCJ/1872), 3rd Dec 1971.

R C Pandey (NCCJ/231), B N Sarma (NCCJ/254), U N Saikia (NCCJ/266), S C Das (NCCJ/267) and B N Pathak (NCCJ/268), 23rd Feb 1972.

C M Nath (NCCJ/173), 1st Apr 1972.

B B Roy (NCCJ/171), 2nd Apr 1972.

Mohamed Abdus Samad (NCCJ/1377), 15th Apr 1972.

N R Saikia (NCCJ/1378), 1st May 1972.

H C Tamuli (NCCJ/292) and B B Das (NCCJ/318), 12th July 1972.

K C Talukdar (NCCJ/174), 6th Sep 1972.

J N Bordoloi (NCCJ/204), 3rd Dec 1972.

D Phukon (NCCJ/186), 4th Dec 1972.

T C Barman (NCCJ/176), 15th Feb 1973.

B C Medhi (NCCJ/261), 23rd Feb 1973.

G C Lakkar (NCCJ/172), 27th Feb 1973.

Andhra Pradesh

B Ramakrishna (NCCJ/41247), 10th Mar 1973.

V Khasim Vali (NCCJ/41244), 26th Mar 1973.

*Third Officers to be Second Officers**Punjab*

Bachittar Singh Litt (NCCJ/7812), 31st May 1968.

Jaimal Singh (NCCJ/8201), 23rd Nov 1970.

S P S Brar (NCCJ/8045), 24th Aug 1971.

Harbhajan Singh (NCCJ/8039), 1st Nov 1971.

Sher Singh (NCCJ/7874), 20th May 1972.

S K Beri (NCCJ/8107), 18th Dec 1972.

Surinder Mohan (NCCJ/8061), 4th June 1972.

J S Kahlon (NCCJ/8091), 7th Jan 1973.

Joginder Singh Premi (NCCJ/8103), 15th Feb 1973.

Haryana

Virender Mehta (NCCJ/8287), 23rd Mar 1970.

D D Sharma (NCCJ/7999), 21st Feb 1971.

S L Khanna (NCCJ/8097), 26th July 1972.

D C Singhamar (NCCJ/8149) and Chander Bhan Maur (NCCJ/8216), 10th Dec 1972.

Neer Singh (NCCJ/8094), 12th Feb 1973.

Jai Dev Singh Rathee (NCCJ/8152), 15th Feb 1973.

Himachal Pradesh

R K Gupta (NCCJ/23623), 13th July 1967.

Y P Sharma (NCCJ/23742), 23rd Apr 1967.

R P Saini (NCCJ/23729), 20th Nov 1969.

Manohar Lal (NCCJ/23743), 11th July 1970.

Assam

A K Sarma (NCCJ/61372), 4th June 1972.

S Chakrabarty (NCCJ/464) and D C Bora (NCCJ/465), 1st Nov 1971.

Mohammad Nazimuddin Ahmed (NCCJ/443), 1st Nov 1972.

Nagaland

M Chakraborty (NCCJ/27001), 24th Dec 1968.

C I Lofha (NCCJ/425), 14th Mar 1970.

P Angami (NCCJ/435), 19th Sep 1970.

Andhra Pradesh

N Rama Rao (NCCJ/41471), K Venkateswara Rao (NCCJ/41473) and G Subbarama Raju (NCCJ/41474), 15th Feb 1973.

Orissa

K Panigrahi (NCCJ/61322), 18th Jan 1970.

Jagadananda Chhuria (NCCJ/61393), 20th Jan 1973.

*Junior Division (Naval Wing)**Second Officers to be First Officers**Haryana*

Kuldeep Chand (NCCJN/7687), 2nd Feb 1972.

Assam

Nelson Bhorora (NCCJN/159), 1st July 1970.

A K Kar (NCCJN/272), D C Baruah (NCCJN/273) and A B Bhattacharya (NCCJN/274), 2nd Feb 1972.

L N Sarma (NCCJN/278), S Gogoi (NCCJN/279) and G C Saha (NCCJN/280), 7th June 1972.

Orissa

K C Parhi (NCCJN/61217), 7th June 1972.

*Junior Division (Air Wing)**Second Officers to be First Officers**Punjab*

O S Bedi (NCCJA/7727), 5th July 1972.

Assam

G S Challam (NCCJA/283) and U C Talukdar (NCCJA/285), 5th July 1972.

*Third Officer to be Second Officer**Haryana*

Jawahar Lal (NCCJA/8112), (8th June 1973).

No. 2095, dated 29th June 1973.—The President is pleased to accept the resignation of the following officers from the NCC wef 15th Mar 1973. The period shown in brackets against their names shall not be counted for the purposes of seniority or promotion or any other benefits in the NCC:—

*Junior Division (Army Wing)**Maharashtra*

F/O S U Zadgaonkar (NCCJ/3250), (1st July 1972 to 14th Mar 1973).

S/O P B Ghalge (NCCJ/81286), (12th June 1972 to 14th Mar 1973).

T/O M V Kharadkar (NCCJ/81257), (15th June 1970 to 14th Mar 1973).

Tamil Nadu

C/O C D Perumalsamy (NCCJ/9265), (1st Apr 1972 to 14th Mar 1973).

F/O N Sihanunathan Thampj (NCCJ/51167), (21st July 1972 to 14th Mar 1973).

T/O S Ramaniyam (NCCJ/51565), (1st Apr 1971 to 14th Mar 1973).

Madhya Pradesh

S/O R K Tiwari (NCCJ/5865), (14th June 1972 to 14th Mar 1973).

West Bengal

F/O P C Mahato (NCCJ/14478), (1st Apr 1972 to 14th Mar 1973).

F/O A C Mukhuty (NCCJ/14316) (3rd June 1970 to 14th Mar 1973).

F/O A K Bhattacharyya (NCCJ/14278) (3rd Aug 1969 to 14th Mar 1973).

S/O G C Sengupta (NCCJ/14842) (2nd Jan 1970 to 14th Mar 1973).

S/O N B Sinha (NCCJ/14565) (27th Apr 1970 to 14th Mar 1973).

S/O S C Pal (NCCJ/14615) (5th Aug 1968 to 14th Mar 1973).

S/O K Sengpanbay (NCCJ/14426) (26th July 1972 to 14th Mar 1973).

S/O H P Singh (NCCJ/14404), (1st Feb 1972 to 14th Mar 1973).

S/O S K Biswas (NCCJ/15017) (12th Feb 1972 to 14th Mar 1973).

S/O N C Mukherjee (NCCJ/14604) (1st July 1972 to 14th Mar 1973).

S/O A K Chakraborty (NCCJ/14738) (22nd Jan 1971 to 14th Mar 1973).

S/O B Banerjee (NCCJ/15075) (1st Nov 1969 to 14th Mar 1973).

T/O M R Chatterjee (NCCJ/14936) (1st July 1967 to 14th Mar 1973).

T/O R Y Rai (NCCJ/15100) (1st Dec 1970 to 14th Mar 1973).

T/O A K Mandal (NCCJ/14674) (16th June 1971 to 14th Mar 1973).

Uttar Pradesh

S/O Brijai Singh (NCCJ/13185) (8th Apr 1971 to 14th Mar 1973).

Assam

S/O J N Das (NCCJ/378), (12th May 1971 to 14th Mar 1973).

Andhra Pradesh

F/O P Balnag Rao (NCCJ/41018) (1st Dec 1972 to 14th Mar 1973).

Gujarat

S/O K C Kharadi (NCCJ/35303), (1st Apr 1972 to 14th Mar 1973).

*Junior Division (Naval Wing)**Tamil Nadu*

S/O C I Isaac (NCCJN/51508) (15th Feb 1972 to 14th Mar 1973).

*Junior Division (Air Wing)**West Bengal*

T/O R S Singh (NCCJA/14657) (1st Jan 1968 to 14th Mar 1973).

Assam

F/O C C Routh (NCCJA/114) (1st Nov 1971 to 14th Mar 1973).

Rajasthan

T/O R S Verma (NCCJA/31436) (28th Aug 1972 to 14th Mar 1973).

No. 2096, dated 25th Oct 1973.—The President is pleased to discharge the following officers from the NCC wef 24th Oct 1972. The period shown in brackets against their names shall not be counted for the purposes of seniority or promotion or any other benefits in the NCC:—

*Junior Division (Army Wing)**Maharashtra*

S/O Bapu Rao Shendye (NCCJ/81255) (31st Mar 1970 to 23rd Oct 1972).

S/O D H Patil (NCCJ/81463) (14th June 1972 to 23rd Oct 1972).

S/O K M Patil (NCCJ/81272) (1st June 1972 to 23rd Oct 1972).

T/O M V Chalwad (NCCJ/81625) (8th June 1971 to 23rd Oct 1972).

Tamil Nadu

F/O V Joseph Asirvatham (NCCJ/9267) (1st Mar 1970 to 23rd Oct 1972).

S/O P Sundararajan (NCCJ/51421) (26th May 1971 to 23rd Oct 1972).

T/O A. Santy (NCCJ/51574) (1st July 1972 to 23rd Oct 1972).

T/O M V Krishnamurthy (NCCJ/51666) (16th Dec 1971 to 23rd Oct 1972).

Madhya Pradesh

S/O K L Garhpayale (NCCJ/5609) (30th June 1970 to 23rd Oct 1972).

West Bengal

C/O J N Chatterjee (NCCJ/14096) (1st May 1965 to 23rd Oct 1972).

F/O S K Chattaraj (NCCJ/14285) (1st June 1971 to 23rd Oct 1972).

F/O S N Rai (NCCJ/14406) (11th Jan 1971 to 23rd Oct 1972).

S/O P K Chakraborty (NCCJ/15156) (14th Mar 1972 to 23rd Oct 1972).

S/O B B Chakravarty (NCCJ/14056) (15th Jan 1960 to 23rd Oct 1972).

S/C J N Goswami (NCCJ/14120) (1st Mar 1960 to 23rd Oct 1972).

S/O O Kunjachan (NCCJ/14220) (9th July 1960 to 23rd Oct 1972).

S/O Dharendra Subba (NCCJ/14281) (23rd Feb 1963 to 23rd Oct 1972).

S/O N S Chhetri (NCCJ/14393) (5th Apr 1963 to 23rd Oct 1972).

S/O K B Ghosh (NCCJ/14856) (1st Apr 1969 to 23rd Oct 1972).

S/O S Singh (NCCJ/14283) (2nd Dec 1960 to 23rd Oct 1972).

S/O H Kanjilal (NCCJ/14163) (1st Dec 1963 to 23rd Oct 1972).

T/O G P Mishra (NCCJ/14753) (15th Nov 1966 to 23rd Oct 1972).

T/O P C Acharya (NCCJ/14448) (28th Nov 1962 to 23rd Oct 1972).

T/O S K Chakrabarti (NCCJ/14443) (1st Aug 1963 to 23rd Oct 1972).

Uttar Pradesh

S/O K K Arya (NCCJ/13104) (1st Apr 1969 to 23rd Oct 1972).

Punjab

S/O M S Sidhu (NCCJ/8123) (11th May 1971 to 23rd Oct 1972).

S/O Mohinder Singh (NCCJ/7989) (22nd Mar 1972 to 23rd Oct 1972).

T/O A S Khurana (NCCJ/8145) (7th Aug 1971 to 23rd Oct 1972).

T/O Rajinder Singh (NCCJ/8206) (1st May 1972 to 23rd Oct 1972).

T/O Harcharan Singh Bhatia (NCCJ/8067) (7th Apr 1971 to 23rd Oct 1972).

T/O Gurdip Singh (NCCJ/8135) (17th Apr 1972 to 23rd Oct 1972).

Haryana

T/O S S Malik (NCCJ/8101) (27th Jan 1972 to 23rd Oct 1972).

T/O H O Sanwal (NCCJ/8285) (23rd May 1972 to 23rd Oct 1972).

Kerala

F/O J Joseph (NCCJ/25206) (19th Apr 1972 to 23rd Oct 1972).

F/O A D Jose (NCCJ/25122) (31st Dec 1970 to 23rd Oct 1972).

T/O P K Alexander (NCCJ/25513) (1st June 1972 to 23rd Oct 1972).

Andhra Pradesh

F/O A Venkateswarlu (NCCJ/41161) (6th May 1972 to 23rd Oct 1972).

F/O M D Prakash Rao (NCCJ/9522) (1st Apr 1968 to 23rd Oct 1972).

S/O V J Rajkumar (NCCJ/41252) (25th June 1972 to 23rd Oct 1972).

T/O M Sree Ramulu (NCCJ/41430) (15th June 1970 to 23rd Oct 1972).

T/O A Subba Rami Reddy (NCCJ/41454) (17th Aug 1970 to 23rd Oct 1972).

Rajasthan

S/O C L Sharma (NCCJ/31141) (14th Nov 1969 to 23rd Oct 1972).

S/O Lekh Singh (NCCJ/31153) (8th Oct 1970 to 23rd Oct 1972).

S/O T S Taxak (NCCJ/31112) (13th Oct 1970 to 23rd Oct 1972).

S/O A S Rathore (NCCJ/31311) (8th Nov 1970 to 23rd Oct 1972).

T/O K C Sharma (NCCJ/31367) (5th Dec 1970 to 23rd Oct 1972).

Gujarat

S/O D N P Sinha (NCCJ/35354) (7th July 1972 to 23rd Oct 1972).

T/O S B Patel (NCCJ/35441) (1st June 1972 to 23rd Oct 1972).

T/O P J Mehta (NCCJ/35432) (29th Apr 1972 to 23rd Oct 1972).

T/O T M Madhiwala (NCCJ/35379) (6th Oct 1971 to 23rd Oct 1972).

Junior Division (Naval Wing)

Madhya Pradesh

F/O B S Adhikari (NCCJN/5330) (28th May 1971 to 23rd Oct 1972).

West Bengal

F/O L N Mukherjee (NCCJN/14289) (11th Nov 1969 to 23rd Oct 1972).

Punjab

S/O Jatinder Verma (NCCJN/7905) (4th Apr 1972 to 23rd Oct 1972).

Junior Division (Air Wing)

Maharashtra

S/O V Seshan (NCCJA/81315) (1st June 1970 to 23rd Oct 1972).

Tamil Nadu

F/O Chundalayandi Thevar Thankappan (NCCJA/51139) (14th Sep 1971 to 23rd Oct 1972).

West Bengal

S/O S K Basu (NCCJA/14655) (8th Dec 1968 to 23rd Oct 1972).

Uttar Pradesh

S/O S R Gupta (NCCJA/13111) (1st Aug 1971 to 23rd Oct 1972).

Punjab

T/O Tarsem Singh (NCCJA/8278) (9th May 1972 to 23rd Oct 1972).

Andhra Pradesh

S/O C G Pandurangam (NCCJA/41274) (16th July 1970 to 23rd Oct 1972).

Rajasthan

F/O D K Singh (NCCJA/31075) (1st July 1969 to 23rd Oct 1972).

S/O R K Gupta (NCCJA/31269) (1st Aug 1968 to 23rd Oct 1972).

S/O S B L Srivastava (NCCJA/31215) (16th Feb 1971 to 23rd Oct 1972).

Gujarat

T/O S M Pathan (NCCJA/35422) (1st Apr 1972 to 23rd Oct 1972).

No. 2097, dated 29th June 1973.—The President is pleased to discharge the following officers from the NCC wef 9th Mar 1973. The periods shown in brackets against their names shall not be counted for the purposes of seniority or promotion or any other benefits in the NCC :—

Junior Division (Army Wing)

Maharashtra

F/O P G Dalvi (NCCJ/81016) (1st Jan 1973 to 8th Mar 1973).

F/O S A Thombare (NCCJ/81165) (24th July 1972 to 8th Mar 1973).

S/O A D Ahire (NCCJ/81425) (12th June 1972 to 8th Mar 1973).

S/O Chandrakant Rao Pande (NCCJ/81291) (1st July 1971 to 8th Mar 1973).

S/O G V Kshirsagar (NCCJ/81307) (10th Nov 1972 to 8th Mar 1973).

S/O K D Vashta (NCCJ/81074) (1st June 1972 to 8th Mar 1973).

F/O D. R. Waghe (NCCJ/81372) (1st July 1972 to 8th Mar 1973).

Tamil Nadu

T/O M Edwin (NCCJ/51575) (10th Aug 1972 to 8th Mar 1973).

Madhya Pradesh

S/O G P Mishra (NCCJ/5496) (4th Oct 1969 to 8th Mar 1973).

T/O R K Goel (NCCJ/5847) (25th July 1972 to 8th Mar 1973).

S/O M L Gupta (NCCJ/5748) (1st Feb 1970 to 8th Mar 1973).

T/O B S Rajput (NCCJ/5845) (13th Nov 1972 to 8th Mar 1973).

T/O R S Soni (NCCJ/5818) (30th June 1972 to 8th Mar 1973).

S/O C V Paranjpe (NCCJ/5368) (3rd July 1970 to 8th Mar 1973).

T/O P M Kulkarni (NCCJ/5882) (14th Oct 1972 to 8th Mar 1973).

F/O G B Prasad (NCCJ/5311) (16th July 1971 to 8th Mar 1973).

West Bengal

S/O Goutam Sengupta (NCCJ/14745) (12th Aug 1971 to 8th Mar 1973).

F/O Joseph D'Sa (NCCJ/14372) (1st May 1972 to 8th Mar 1973).

F/O P K Karmakar (NCCJ/14399) (6th Jan 1969 to 8th Mar 1973).

S/O M K Basak (NCCJ/14553) (1st June 1969 to 8th Mar 1973).

S/O R D Roy (NCCJ/14062) (1st July 1969 to 8th Mar 1973).

S/O R M Ghosh (NCCJ/14649) (14th Apr 1969 to 8th Mar 1973).

T/O P K Khanra (NCCJ/14974) (7th Aug 1969 to 8th Mar 1973).

F/O B K Bishnu (NCCJ/14312) (9th July 1967 to 8th Mar 1973).

F/O A. Mukherjee (NCCJ/14193) (15th Feb 1963 to 8th Mar 1973).

S/O B G Banerjee (NCCJ/14271) (1st May 1959 to 8th Mar 1973).

S/O S D Mukherjee (NCCJ/14902) (30th Oct 1969 to 8th Mar 1973).

S/O B Dutta (NCCJ/14700) (10th July 1969 to 8th Mar 1973).

S/O K C Mandal (NCCJ/15018) (1st Apr 1970 to 8th Mar 1973).

C/O M L Chatterjee (NCCJ/14418) (1st July 1969 to 8th Mar 1973).

S/O M Bandyopadhyay (NCCJ/14959) (1st May 1970 to 8th Mar 1973).

F/O A N Pandey (NCCJ/14190) (25th Oct 1969 to 8th Mar 1973).

Punjab

S/O Nachhattar Singh Growal (NCCJ/7967) (23rd Feb 1972 to 8th Mar 1973).

T/O Yoginder Paul (NCCJ/8031) (16th Feb 1972 to 8th Mar 1973).

T/O Darshan Singh (NCCJ/8188) (1st Sep 1971 to 8th Mar 1973).

T/O Gurmeet Singh Multani (NCCJ/8246) (12th Sep 1972 to 8th Mar 1973).

S/O K B Dhawan (NCCJ/8001) (11th July 1972 to 8th Mar 1973).

Haryana

T/O Kanwar Singh Rao (NCCJ/8159) (2nd Feb 1972 to 8th Mar 1973).

T/O D P Angris (NCCJ/8235) (28th Mar 1972 to 8th Mar 1973).

Himachal Pradesh

T/O G K Sood (NCCJ/23746) (1st Oct 1971 to 8th Mar 1973).

Mysore

F/O H D Kasthuri (NCCJ/23035) (1st Nov 1972 to 8th Mar 1973).

F/O P V Thakare (NCCJ/23104) (2nd Dec 1972 to 8th Mar 1973).

Kerala

S/O M K Maibew (NCCJ/25442) (15th July 1972 to 8th Mar 1973).

Andhra Pradesh

S/O P Muralidhar (NCCJ/41436) (28th Oct 1971 to 8th Mar 1973).

S/O G J S Surya Rao (NCCJ/41495) (3rd Aug 1972 to 8th Mar 1973).

S/O V Venu Gopal Rao (NCCJ/41400) (26th July 1971 to 8th Mar 1973).

Rajasthan

S/O M L Vanmali (NCCJ/31327) (7th Aug 1972 to 8th Mar 1973).

T/O Mohan Lal Sharma (NCCJ/31314) (23rd Sep 1969 to 8th Mar 1973).

S/O K C Sharma (NCCJ/31275) (10th July 1971 to 8th Mar 1973).

S/O J S Chauhan (NCCJ/31247) (8th Sep 1971 to 8th Mar 1973).

C/O S P Mathur (NCCJ/24023) (29th July 1971 to 8th Mar 1973).

F/O R R Singh Dixit (NCCJ/31016) (10th Sep 1971 to 8th Mar 1973).

T/O A R Purohit (NCCJ/31383) (6th Aug 1971 to 8th Mar 1973).

F/O S P Chaturvedi (NCCJ/31131) (7th Sep 1971 to 8th Mar 1973).

F/O D C Jain (NCCJ/31090) (7th Nov 1971 to 8th Mar 1973).

S/O M L Arya (NCCJ/31023) (1st Dec 1968 to 8th Mar 1973).

S/O H S Agarwal (NCCJ/31203) (25th July 1967 to 8th Mar 1973).

T/O S L S Sharan (NCCJ/31321) (1st Dec 1968 to 8th Mar 1973).

Gujarat

T/O B B Mori (NCCJ/35460) (14th Oct 1972 to 8th Mar 1973).

Jammu and Kashmir

T/O D R Choudhary (NCCJ/26321) (1st Dec 1971 to 8th Mar 1973).

*Junior Division (Naval Wing)**West Bengal*

C/O P K Mallick (NCCJN/14078) (2nd Feb 1964 to 8th Mar 1973).

Delhi

S/O S S Rai (NCCJN/7843) (7th Sep 1972 to 8th Mar 1973).

Mysore

T/O P Venkatramana (NCCJN/23429) (18th Sep 1972 to 8th Mar 1973).

Rajasthan

S/O S P Mathur (NCCJN/31281) (8th Sep 1971 to 8th Mar 1973).

*Junior Division (Air Wing)**Maharashtra*

S/O A K Deshpande (NCCJA/81230) (12th Aug 1972 to 8th Mar 1973).

Tamil Nadu

T/O V Chellappan (NCCJA/51556) (16th Apr 1972 to 8th Mar 1973).

West Bengal

T/O N G Ghosh (NCCJA/14298) (1st Jan 1960 to 8th Mar 1973).

Delhi

S/O N C Gupta (NCCJA/7839) (1st Mar 1972 to 8th Mar 1973).

Punjab

S/O Bhupinder Sahi (NCCJA/7894) (5th Aug 1972 to 8th Mar 1973).

Haryana

T/O O P Sharma (NCCJA/8108) (7th Dec 1972 to 8th Mar 1973).

Chandigarh

F/O R K Pathak (NCCJA/7555) (6th Oct 1972 to 8th Mar 1973).

Andhra Pradesh

S/O R V S Hanumantha Rao (NCCJA/41419) (10th Nov 1971 to 8th Mar 1973).

Rajasthan

S/O R R Singh Chauhan (NCCJA/31219) (10th Sep 1971 to 8th Mar 1973).

No. 2098, dated 29th June 1973.—The President is pleased to discharge the following officers from the NCC wef the dates shown against their names:—

*Junior Division (Army Wing)**Maharashtra*

C/O R S Mahajan (NCCJ/5059), 15th Sep 1972

Tamil Nadu

F/O T P C Shannugam (NCCJ/9270), 8th Nov 1968.

Madhya Pradesh

F/O H S Shrivastava (NCCJ/5218), 1st July 1970.

Uttar Pradesh

S/O N D Mall (NCCJ/13210), 31st Jan 1970.

Punjab

C/O Mehar Singh (NCCJ/7264), 17th Oct 1972.

Andhra Pradesh

S/O T Rama Rao (NCCJ/41249), 4th Dec 1970.

*Junior Division (Air Wing)**Madhya Pradesh*

S/O S N Chaube (NCCJA/5540), 1st July 1969.

*Junior Division (Army Wing)**Maharashtra*

F/O W D Thakre (NCCJ/5216), 22nd Dec 1972.

F/O D V Khajurkar (NCCJ/5225), 1st Apr 1972.

S/O Baskar Rao Chincholkar (NCCJ/81100), 1st Apr 1971.

Tamil Nadu

C/O L Aruldass (NCCJ/9213), 27th Feb 1973.

T/O M Krishnapillai (NCCJ/51656), 2nd July 1971.

T/O P N Chellappan (NCCJ/51648), 21st July 1971

Madhya Pradesh

F/O V N Pandya (NCCJ/5289), 16th Jan 1971.

S/O Mohammad Hussain (NCCJ/5438), 13th Dec 1972.

S/O R S Chendawat (NCCJ/5328), 10th Apr 1961.

T/O G S Mehta (NCCJ/5859), 1st Mar 1967.

West Bengal

C/O S P Chatterjee (NCCJ/14061), 1st Apr 1971.

C/O N Manna (NCCJ/14069), 1st Jan 1971

C/O R C Saha (NCCJ/14144), 1st Jan 1971.

C/O N C De Dhara (NCCJ/14175), 1st Apr 1971.

C/O R C Pal (NCCJ/14160), 1st May 1971.

C/O S S Mondal (NCCJ/14043), 1st Oct 1970.

C/O R C Ghosh (NCCJ/14041), 2nd May 1970.

C/O N N R Choudhury (NCCJ/14143), 1st Oct 1970.

C/O B K Ghosh (NCCJ/14153), 1st Mar 1970.

C/O P K Mallick (NCCJ/14166), 1st Oct 1971.

C/O P R Kundu (NCCJ/14141), 1st Oct 1970.

C/O J C Manna (NCCJ/14060), 1st Apr 1970.

C/O S N Sengupta (NCCJ/14072), 1st Apr 1970.

C/O B Chakravarty (NCCJ/14224), 1st Nov 1970.

C/O S K Thakur (NCCJ/14186), 1st Dec 1972.

C/O S C Mandal (NCCJ/14202), 1st Oct 1971.

C/O K C Chowdhury (NCCJ/14138), 1st May 1969.

F/O Jai Kant Jha (NCCJ/14437), 2nd Jan 1972.

F/O B B Ghosh (NCCJ/14025), 2nd Jan 1960.

F/O A Kar (NCCJ/14035), 1st Jan 1956.

F/O R P Mandal (NCCJ/14182), 1st Oct 1969.

F/O Dibakar Pal (NCCJ/14326), 1st Jan 1971.

F/O S K Goswami (NCCJ/14350), 1st July 1969.

F/O C G Roy (NCCJ/14328), 1st Apr 1971.

S/O S D Banerjee (NCCJ/14450), 1st Apr 1971.

S/O N C Maity (NCCJ/14890), 1st June 1971.

S/O K P Mondal (NCCJ/14996), 1st Oct 1970.

Uttar Pradesh

S/O N S Bhadauria (NCCJ/13214), 2nd Jan 1973.

S/O S S Bhatnagar (NCCJ/13157), 28th Apr 1972.

Haryana

C/O K K Malhotra (NCCJ/7246), 24th Oct 1972.

Mysore

C/O R U Pandurangi (NCCJ/23053), 5th Jan 1973.

Kerala

C/O P Krishnankutty Nair (NCCJ/25018), 8th Aug 1972.

S/O M P Velu Nair (NCCJ/25316), 23rd Nov 1972.

S/O K V Paul (NCCJ/25384), 1st July 1971.

Andhra Pradesh

T/O K Kondaiah (NCCJ/41483), 18th Aug 1971.

Orissa

C/O R C Samolo (NCCJ/11065), 1st Apr 1971.

F/O C M Bagh (NCCJ/11075), 1st Apr 1971.

F/O S C Panigrahi (NCCJ/11067), 1st Apr 1971.

S/O B K Mohapatra (NCCJ/61025), 1st Apr 1971.

S/O B S Samalo (NCCJ/61259), 11th Mar 1970.

Jammu and Kashmir

S/O Nath Ji Chandra (NCCJ/26345), 19th Jan 1973.

*Junior Division (Naval Wing)**Tamil Nadu*

C/O M V Venugopalan (NCCJN/9066), 1st Apr 1970.

C/O Koshy K Mathews (NCCJN/9118), 20th Oct 1972.

Kerala

F/O Kenneth Nunes (NCCJN/25075), 2nd Oct 1972.

Junior Division (Air Wing)

Tamil Nadu

F/O D J Paul Raj (NCCJA/9486), 17th Feb 1973

CORRIGENDA

No. 2099, dated 26th July 1973.—(i) In M of D Notn No. 3099, dated 11th Nov 1970, published in the G of I dated 5th Dec 1970, under heading 'Senior Division (Army Wing)', below 'Madhya Pradesh', delete the name of 'Suresh Narayan KONHAR (NCC/13071)', with all its connected entries.

(ii) In M of D Notn No. 2399, dated 3rd June, 1972 published in the G of I of 19th Aug 1972, under heading "Junior Division (Army Wing)" below 'Madhya Pradesh' delete the name of T/O V K Kanhe (NCCJ/5610) with all its connected entries.

(iii) In M of D Notn No. 1478, dated 21st May 1971 published in the G of I of 26th June, 1971, under heading "Junior Division (Army Wing)", below 'Madhya Pradesh' delete the name of F/O N S Chauhan (NCCJ/19523) with all its connected entries.

(iv) In M of D Notn No. 951 dated 8th Feb 1972 published in the G of I of 8th Apr 1972, under heading "Junior Division (Army Wing)", below 'Tamil Nadu' delete the name of S/O A Kufandaisamy (NCCJ/51459) and below 'Andhra Pradesh' delete the name of S/O T Rama Rao (NCCJ/41249) with all their connected entries.

(v) In M of D Notn No. 2082, dated 15th July 1971 published in the G of I of 28th Aug 1971, under heading "Junior Division (Army Wing)" "Third Officers to be Second Officers", below 'Himachal Pradesh' against the name of Arian Singh (NCCJ/23723) for 25th Aug 1968, read 13th Nov 1970

S S TANEJA, Dir of Pers.

DIRECTORATE OF PUBLIC RELATIONS

No. 2100, dated 2nd Aug 1973.—The President is pleased to appoint Shri T R Ramanathan as Senior Photographic Officer in substantive capacity wef 11th May 1972.

A S BEDI, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 2101, dated 6th Aug 1973.—The President is pleased to make the following appointment:—

COMMANDS & STAFF

To be Director SC Course Faculty of Instruction,
College of Combat Mhow

Col (A/Brig) F Bhatti (IC 2343) VSM, Grenadiers, 18th Jan 1973.

S D CHATTERJEE, Dy Secy.

ARMY BRANCH

AG's Branch

No. 2102, dated 30th July 1973.—The President is pleased to make the following appointments:—

(a) Shri H B Lal, permitt ACSO as offg CSO from 23rd Apr 1973 to 8th June 1973 vice Shri G S Ranaut, granted leave.

(b) Shri J L Jain, permitt Asstt as offg ACSO from 23rd Apr 1973 to 8th June 1973 vice Shri H B Lal, promoted.

(c) Shri Girish Chandra, permitt ACSO as offg CSO from 14th May 1973 to 30th June 1973 vice Shri A N Sharma, granted leave.

(d) Shri S R Lamba, permitt Asstt as offg ACSO from 14th May 1973 to 30th June 1973 vice Shri Girish Chandra, promoted.

(a) Shri V Hariharen, pmt ACSO as offg CSO from 18th May 73 to 11th Jul 73 vice Shri K C Salani, granted leave.

(b) Shri A R Viji, pmt Asstt as offg ACSO from 18th May 73 to 11th Jul 73 vice Shri V Hariharen, promoted.

(c) Shri Raghunath Prasad, pmt ACSO as offg CSO from 14th May 73 to 30th Jun 73 vice Shri B N Bhatt, granted leave.

(d) Shri S N Gupta pmt Asstt as Offg ACSO from 14th May 73 to 30th Jun 73 vice Shri Raghunath Prasad promoted.

(a) Shri K D Joshi pmt ACSO as offg CSO from 21st May 73 to 7th July 73 vice Shri R N Sahai granted leave

(b) Shri K V Bahadur, pmt Asstt as offg ACSO from 18th May 73 to 7th Jul 73 vice Shri N K Chhibber, granted leave.

P N MENON, Asstt CAO

MS Branch

No. 2103, dated 28th July 1973.—The President is pleased to appoint Shri H C Gupta, pmt, ACSO (offg CSO on local basis) as offg CSO in the AFHQ Civil Service wef 23rd July, 1973 until further orders

HANS KUMAR JAIN, Asstt CAO

No. 2104, dated 3rd August 1973.—The President to make the following appointment:—

Personal Staff

Lt Col N S UTHAYA (IC 05391), PARA to be Dy Military Secretary to the President vice Lt Col JAI KRISHNA (IC 2252), 14 HORSE vacated, 15 Jul 73 (FN)

C P KAPOOR, Under Secy.

No. 2105, dated 24th July 1973.—The President is pleased to appoint the undermentioned General Officer as Honorary Colonel of the Brigade of GUARDS wef 15th Jan 1973:—

General G G BEWOOR (IC 129), PVSM.

L DAYAL, Jt. Secy.

No. 2106, dated 28th July 1973.—The President is pleased to make the following appointment under Min of Def letter No. 20618/DGAFMS/MNS/5545/D (Med) dated 25 Sep 69 and AI 274/50:—

REGULAR ARMY

Military Nursing Service

(To be Lt on probn)

Miss Sachinder Kaur, BHATTI NR-15000, 16-12-71.

Miss Vaduthala Mathew, NAITHO NR-15001, 16-12-71

Miss Valliakalayil Samuel, MARYKUTTY NR-15002, 16-12-71.

Miss Kora Kochet, BRIDGET NR-15003, 16-12-71.

Miss Pulliallunkel Joseph, RAJAMMA NR-15004 16-12-71.

Miss Balakrishnan Nair, BALAMANIAMMA NR-15005, 16-12-71.

Miss MARY KURIAN NR-15006 16-12-71.

Miss THRESIAMMA THOMAS NR-15007, 16-12-71.

Miss Elvira Louisa, ANDREWS NR-15008, 16-12-71.

Miss PREM LATA NR-15009, 16-12-71.

Miss OMANA JOHN NR-15010, 16-12-71.

F M VIRJEE, Under Secy.

No. 2107, dated 3rd August 1973.—The President is pleased to make the following appointment:—

Territorial Army

Territorial Commission

To be 2/Lt (on probn)

Gurdeep Singh (TA-41470), Arty, 6th Apr, 1973.

V SRIKANTAN, Under Secy.

No. 2108, dated 30th July 1973.—The President is pleased to make the following appointments/promotions:—

REGULAR ARMY

Special List

Corps of Signals

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Gopi Nath Pandey (JC-71069), 10th Jan 1972.

Gaya Datt Bhatt (JC-71070), 10th Jan 1972.

Rohini Prasad Tripathi (JC-71071), 10th Jan 1972.

Ganesh Prasad Mishra (JC-71072), 10th Jan 1972.

Sundar Lal Pandey (JC-71073), 28th Jan 1972.

Sigmn. Peras Nath Upadhyaya (No. 6324081 now JC-71074), 15th Mar 1972.

Sigmn Ram Sukhit Prasad Singh (No. 6305476 now JC-71075), 22nd Mar 1972.

Sigmn Pandey Jitendra Sharma (No. 6327231 now JC-71076), 21st Apr 1972.

Hari Charan Tripathy (JC-71077), 22nd Apr 1972.

L/Hav Krishna Nand (No. 4149196 now JC-71078), 6th Jul 1972.

C P KAPOOR, Under Secy.

No. 2109, dated 2nd August 1973.—The President is pleased to make the following appointments:—

Military Engineer Services

Pmt SSW and tempy CSW to be pmt CSW

Shri J P BAJAJ, 6 Feb 1973.

No. 2110, dated 2nd August 1973.—The President is pleased to appoint the following individuals as Offg AO Grade II wef 5 May 73 until further orders:—

1. MES 16965 Shri BHUPENDRA KUMAR SARKAR, Pmt Office Supdt.
2. MES 8462748 Shri GAJINDAR SINGH GOMER, Pmt Steno and Temp Office Supdt.
3. MES 31174 Shri INDRA SINGH SOLANKI, Pmt UDC and Temp Office Supdt.
4. MES 8677 Shri ARUN KUMAR ROY, Pmt Steno and Temp Office Supdt.
5. MES 3030 Shri MADAN LAL PATHAK, Pmt PA and Temp Office Supdt.
6. MES 8462332 Shri SETHU MADHAVAN NAIR, Pmt UDC and Temp Office Supdt.
7. MES 15888 Shri VASHESHAR NATH KOHLI, Pmt UDC and Temp Office Supdt.
8. MES 30870 Shri PALKAR MADHUKAR BALLAL, Pmt UDC and Temp Office Supdt.
9. MES 30789 Shri PATCHI NATARAJAN, Pmt UDC and Temp Office Supdt.
10. MES 31692 Shri PAUL BARBOZA, Pmt UDC and Temp Office Supdt.
11. MES 30113 Shri MITTHAN LAL SHARMA, Pmt Office Supdt.
12. MES 30886 Shri M SEKHARAN, Pmt UDC and Temp Office Supdt.

The officers will be on probn for two years.

8—204GI/73

No. 2111, dated 2nd August 1973.—The President is pleased to appoint the following individuals as Offg AO Gde II until further orders:—

- (a) MES 2715 Shri HARWAND SINGH, Pmt UDC and Temp Office Supdt, 15 May 73 (FN).
- (b) MES 30246 Shri C KRISHNA MURTHY, Pmt UDC and Temp Office Supdt, 24 May 73 (FN).
- (c) MES 425012 Shri CHITTES CHANDRA ROY, Pmt Steno and Temp Office Supdt, 26 May 73 (FN).
- (d) MES 2371 Shri D D MULLICK, Pmt UDC and Temp Office Supdt, 1 Jun 73 (FN).
- (e) MES 17442 Shri AMARENDRA KUMAR BHADURY, Pmt UDC and temp Office Supdt, 2 Jul 73 (FN).
- (f) MES 16245 Shri B N BANERJEE, Pmt UDC and Temp Office Supdt, 4 Jun 73 (FN).
- (g) MES 8463315 Shri N N MIRCHANDANI, Pmt Steno and Temp Office Supdt, 23rd Jun 73 (FN).
- (h) MES 5759 Shri JAGDEV PARKASH CHUNI, Pmt UDC and Temp Office Supdt, 6 Jul 73 (FN).

The officers will be on probn for two years.

No. 2112, dated 31st July 1973.—The President is pleased to make the following ad-hoc appointment:—

Corps of Signals

Shri N G PENDHARKAR, Civilian Instructor SIGNALS (CGO), Military College of Telecommunication Engineering, MHOW, to be offg Lecturer in the same College for a period of six months—31 May 73 (FN).

A S BEDI, Under Secy

No. 2113, dated 28th July 1973.—The President is pleased to make the following appointment under AI 13/S/65:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned ECO is granted Permanent Commission wef 1 Jul 70 in the rank of 2/Lt with seniority for promotion 1 Jun 66 but for increments of pay from 1 Nov 64 under AI 13/S/65 on relinquishing his Emergency Commission from 1 Jul 70. His inter-se-seniority vis-a-vis ECO granted Permanent Commission will, however, remain the same as allocated in the Gazette Notn for grant of Emergency Commission. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt wef 1 Jul 70 with seniority in that rank from 1 Jun 68:—

SUSHIL KUMAR TALWAR (EC-59364 now IC-22809) Arty.

The undermentioned ECO is granted permanent commission wef 10 May 72 in the rank of 2/Lt with seniority for promotion from 20 Jan 66 but for increments of pay from 2 Aug 64 under AI 13/S/65 on relinquishing his Emergency Commission from 10 May 72. His inter-se-seniority vis-a-vis ECO granted permanent commission will, however, remain the same as allocated in the Gazette Notn for grant of Emergency Commission. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt wef 10 May 72 with seniority in that rank from 20 Jan 68:—

SHIV DARSHAN SINGH SAMBYAL (EC-58634 now IC-22522) ARTY.

No. 2114, dated 1st August 1973.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

Short Service Commission (On Probation)

The undermentioned are granted Short Service Commission (on probn) for a period of 5 years wef 15th June 1969 under AI 11/S/64 in the rank of 2/Lt. Their Short Service Commission (On Probn) is confirmed from the same date consequent on the completion of the probationary period:—

OM VIR SINGH (SS 22083) Signals with seniority next below 2/Lt ABQ QEZILBASH (SS 22081) Armd Corps, Mohinder Pal JAGGI (SS 22089) EME, with seniority next below 2/Lt RAJBIR SINGH (SS 22088) Inf., Pratay Singh

SHEHRAWAT (SS 22091) EME. with seniority next below 2/Lt MAN SINGH (SS 22090) Inf., RAJINDER PAI SINGH (SS 22117) Inf. with seniority next below 2/Lt J DESOUZA (SS 22116) Engineers, Sham Saroop DUTTA (SS 22125) Artillery with seniority next below 2/Lt MIBALASUBRAMANIAN (SS 22124) ASC., Ashok Kumar MADAN (SS 22140) and DARSHAN SINGH (SS 22141) Engineers with seniority next below 2/Lt CHHATTAR SINGH (SS 22139) Signals, Satish Kumar BAHU (SS 22145) Inf., with seniority next below 2/Lt YUDHBIR SINGH (SS 22144) Engineers, Madan Mohan SHARMA (SS 22153) Inf., with seniority next below 2/Lt SR KALE (SS 22152) EME., Divender Singh KAUSHAL (SS 22170) Armd Corps with seniority next below 2/Lt ZV CHARLES (SS 22169) Signals, SUJAKSHAN MOHAN (SS 22181) Artillery with seniority next below 2/Lt PREHLAD SINGH (SS 22180) Inf., SUDHIR KUMAR (SS 22190) Artillery with seniority next below 2/Lt SS SANDHU (SS 22189) ASC., Vallikad Krishnan PRABHAKARAN (SS 22229) EME., with seniority next below 2/Lt GS VIRK (SS 22228) Artillery, Oinam Nabakumar SINGH (SS 22232) Inf., with seniority next below 2/Lt SK DATTA (SS 22231) Inf., Ashok JULKA (SS 22236) EME., with seniority next below 2/Lt AC POOVAIAH (SS 22235) Inf., Arjun Singh SHEKHAWAT (SS 22260) EME., with seniority next below 2/Lt S BHATTACHARYA (SS 22259) Inf., BALBIR SINGH (SS 22266) Artillery with seniority next below 2/Lt PIS LAMBA (SS 22265) Armd Corps, Jagjit Singh JUDGE (SS 22271) Engineers with seniority next below 2/Lt SC GHOSHAL (SS 22270) Inf., Devinder Parkash DUTTA (SS 22286) EME with seniority next below 2/Lt HMP SINGH (SS 22285) Inf., Sanyasirao REDDY (SS 22289) Artillery with seniority next below 2/Lt DN YADAV (SS 22288) Signals, Amrik Singh AHLUWALIA (SS 22295) Artillery with seniority next below 2/Lt BS PRASANNA (SS 22294) EME., Pyare Lal VERMA (SS 22315) AEC with seniority next below 2/Lt DC KHULBE (SS 22314) EME., Bhaqat Jit Singh KHANDPUR (SS 22318), RAGHWENDRA SINGH (SS 22319) and Nalin KAPOOR (SS 22320) Inf., with seniority next below 2/Lt SC PASSI (SS 22317) Armd Corps, Robert Rattan BHARUCHA (SS 22324) Armd Corps with seniority next below 2/Lt JS TULSI (SS 22323) ASC., RAJINDER SINGH (SS 22329) ASC., with seniority next below 2/Lt NSD UMED SINGH (SS 22328) Inf., KULBIR SINGH (SS 22331) Inf., with seniority next below 2/Lt RK MIRAKHUR (SS 22330) Inf., Vazhakal Ranjit Singh LAKHVIIR SINGH (SS 22333) Signals, with seniority next below 2/Lt JK MONGA (SS 22332) Inf., BALKAR SINGH (SS 22344) Inf., with seniority next below 2/Lt BS CHAHAL (SS 22343) Inf., JEJ KRISHAN (SS 22361) Engineers with seniority next below 2/Lt MS MANN (SS 22360) Inf., Hemant Kumar GHISSING (SS 22366) Inf., with seniority next below 2/Lt UTPAL SINGH (SS 22365) Inf., Harkir Pal Singh SIDHU (SS 22380) AOC with seniority next below 2/Lt APS REWARI (SS 22379) Engineers, Tarsem Singh PLAHA (SS 22388) Engineers with seniority next below 2/Lt M SAHA (SS 22387) Engineers PURANDEV SINGH (SS 22400) Inf., with seniority next below 2/Lt MS SOMRA (SS 22399) ASC Vinod Kumar NAYAR (SS 22406) Engineers with seniority next below 2/Lt SS SAINI (SS 22405) Inf., UTTAM SINGH (SS 22421) Engineers with seniority next below 2/Lt KBS SIDHU (SS 22420) Armd Corps, Surinder Singh SAHNI (SS 22430) and Punya Deo Prasad DEO (SS 22431) Inf., with seniority below HS JAMES (SS 22429) Inf., Krishnakumar P K (SS 22434) Engineers with seniority next below 2/Lt Bansi Lal SHARMA (SS 22433) Engineers, Harish Chander DIXIT (SS 22442) EME with seniority next below 2/Lt XAVIER PM (SS 22441) Signals, DINESH KUMAR (SS 22450) Inf., with seniority next below 2/Lt S BHATIA (SS

22449) Inf., MAN SINGH (SS 22453) EME, with seniority next below 2/Lt JANG BAHADUR (SS 22452) Inf., Mohan Singh SAMBYAL (SS 22459) Inf., with seniority next below 2/Lt AW RANADE (SS 22458) Inf., Shashank Tiwari (SS 22468) Artillery with seniority next below 2/Lt AS MAVI (SS 22467) ASC Sudhir Jung RANA (SS 22483) Inf., with seniority next below 2/Lt SHARAN SINGH (SS 22482) Inf., Ashok Kumar DATT (SS 22428) Artillery with seniority next below 2/Lt NSJ SASTRY (SS 22487) Inf., Suresh Chandra NAUTHYAL (SS 22492) Inf., with seniority next below 2/Lt KS PANDURANG (SS 22491) Inf., Shri Ram BAKSHI (SS 22498) Engrs. with seniority next below 2/Lt GS SINGH (SS 22497) Signals ASHOK (SS 22506) Inf., with seniority next below 2/Lt NK GOGNA (SS 22505) AOC ASHOK KUMAR (SS 22512) Engineers with seniority next below 2/Lt DS MUNDY (SS 22511) Signals, Ramesh Chander VOHRA (SS 22514) and Madhavan Nair Atchuthan THAMPH (SS 22515) Inf., with seniority next below 2/Lt JB SHARMA (SS 22513) AEC., Jagdish Singh CHAUHAN (SS 22519) Armd Corps with seniority next below 2/Lt MSVDK RAO (SS 22518) Inf., KISHAN SINGH (SS 22524) Inf., with seniority next below 2/Lt A P SINGH (SS 22523) Inf., Ramabhajirao Shahajirao DANGE (SS 22526) Inf. with seniority next below 2/Lt RD JOSHI (SS 22525) ASC., Sudhir Kumar Rameshwerlal GHAI (SS 22529) Inf., with seniority next below 2/Lt JS NARANG (SS 22528) Inf., Boby JOSEPH (SS 22533) ASC., with seniority next below 2/Lt MOHAN LAL (SS 22532) ASC., Bapat Padmakar KESHAV (SS 22542) Inf., with seniority next below 2/Lt MOHAN AK (SS 22541) AOC., Subrata KAR (SS 22546) Engineers with seniority next below 2/Lt SH CHILLA (SS 22545) Inf., Prihri Pal Singh RANDHAWA (SS 22549) Artillery with seniority next below 2/Lt MS CHAHAR (SS 22548) Artillery, Karam Singh POONIA (SS 22561) AOC., with seniority next below 2/Lt DV YADAV (SS 22560) AEC., Kallu Vijayender REDDY (SS 22563) Artillery, with seniority next below 2/Lt BS MULTANI (SS 22562) Artillery, Autar Singh DUTTA (SS 22568) Inf., with seniority next below 2/Lt VK SHARMA (SS 22567) Inf., Nitya Nand SRIVASTAVA (SS 22570) Artillery, with seniority next below 2/Lt AK NAYAK (SS 22569) Inf., Rishi Pal Singh RANA (SS 22574) Inf., with seniority next below 2/Lt SHAMSHER SINGH (SS 22573) ASC., Ignance KACHHAP (SS 22576) Inf., with seniority next below 2/Lt KJS SANDHU (SS 22575) Inf., KARAN SINGH (SS 22582) and Mathew Abraham Thazhadathu ABRAHAM (SS 22583) Inf., with seniority next below 2/Lt SD PUROHIT (SS 22581) AEC., Dhan Bahadur RANA (SS 22591) Inf., with seniority next below 2/Lt RS KALRA (SS 22590) Signals, ZORAWAR SINGH (SS 22594) ASC with seniority next below 2/Lt VK JOLLY (SS 22593) Inf., Vijay Kumar RAMPAL (SS 22603) Artillery and PREM SHANKER (SS 22604) ASC with seniority next below 2/Lt NR RAO (SS 22602) Inf., Surrendra Singh BEDI (SS 22606) Inf., with seniority next below 2/Lt Virinder Kumar JAIN (SS 22605) ASC BHUPINDER SINGH (SS 22611) Armd Corps with seniority next below 2/Lt M Ansari (SS 22610) Inf., Jasbir Singh SAHI (SS 22615) Artillery and Manjit Singh SAWHNEY (SS 22616) AOC with seniority next below 2/Lt R GHOSH (SS 22614) Inf., Radhakrishnan NA (SS 22624) Engineers with seniority next below 2/Lt AK PATNI (SS 22623) Engineers, Bhupinder Singh MALIK (SS 22633) Artillery with seniority next below 2/Lt JASBIR SINGH (SS 22632) Inf., Naraindera Jeet Singh PANNU (SS 22642) Armd Corps with seniority next below 2/Lt KC SINGH (SS 22641) Inf., Puthiyathu Thomas JOSE (SS 22647) Inf., with seniority next below 2/Lt TPS CHEEMA (SS 22646) Inf., Subhash Chander MACHHRAL (SS 22662) ASC with seniority next below 2/Lt

SN JAJALI (SS 22661) Armd Corps. ANAND JEE (SS 22671) Artillery with seniority next below 2/Lt SK SEHGAL (SS 22670) ASC., Subhash CHANDRA PAREEK (SS 22673) Inf. with seniority next below 2/Lt LAKHMIR SINGH (SS 22672) Inf., CHEPA RAM (SS 22676) Inf. with seniority next below 2/Lt Rajesh GAUR (SS 22675) Inf., Tilak Raj SHARMA (SS 22689) Inf. with seniority next below 2/Lt Subhash Ranjandeb (SS 22688) Artillery.

REGULAR ARMY

Permanent Commission (Special List)

The undermentioned JCO is granted Permanent Commission in the Special List of Cipher Officers wef 17th Jul 1972 in the rank of Lt. under AI 24 of 59.

Nb. Sub. VENKATRAMASASTRY GOVINDAN (IC-68062 now SL-1935) SIGS, with seniority from 17th Jul 1970 for purposes of pay only under AI 222 of 48.

C. P. KAPOOR, Under Secy.

No. 2115, dated 30th July 1973.—The President is pleased to make the following appointment:—

TERRITORIAL ARMY

Territorial Commission

The undermentioned ex RRO is granted a Territorial Army Commission wef 23rd Jan 1968 with seniority for purposes of increments of pay and promotion under the provisions of paras 25(a) and 38(a) of TA Regs 1948 read with Government of India, Min of Def letter No. 46347/TA-41275/TA5/3628/SOII/D(GS-III) dated 5th Jan 1972, as indicated against his name:—

To be Lieut

Sudhir Ram Chandra KUNTE (EX-RR-40 now TA-41275), Arty. as 2/Lt from 18th Oct. 1962 and as Lt from 18th Oct 1965, but for purpose of pay from 29th Sep 1966. No arrears of pay will be admissible prior to 16th Apr 1969.

(Gaz Notn No. 1362 dated 16th May, 1968 published on 8th June 1968 is hereby cancelled).

J. CHOUBEY, Under Secy.

No. 2116, dated 27th July 1973.—The President is pleased to grant extension of service to the undermentioned officer who was re-employed under AI 6/S 57 wef 15th Oct 1969 vide M of D Notn. No. 119 dated 18th Dec 1972 published in the Gazette dated 20th Jan 1973 for the period mentioned against his name:—

Major Durgeswar TALUKDAR (IC 9579) Inf., 15th Oct 1971 to 14th Oct 1973.

C. P. KAPOOR, Under Secy.

No. 2117, dated 6th July 1973.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers consequent on the completion of the probationary period:—

REGULAR ARMY

Short Service Commission

Capt V S SINGH, (MS-07727 N), AMC 22nd Jan 1967.

Capt B N BORGHAIN, (MS-07940 N), AMC 13th May 1968.

F. M. VIRJEE, Under Secy.

No. 2118, dated 24th July 1973.—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**Col to be Brig*

M P GOEL (MR-310), AMC/PC, 27th Jan 1972 (with seniority without effect on pay and pension from 4 Aug 71).

S. R. GURUSWAMY, Dy Secy.

No. 2119, dated 28th July 1973.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**Maj to be Lt Col*

H G Majliya, (MR-00924 N), AMC, 7th Jan 1973 except for the purpose of pay from 14th Jan 1973.

S. Banerjee, (MR-01698 N), AMC, 26th Mar 1973.

Capt to be Maj

N N SAXENA, (MR-1905), AMC, 24th Jan 1970 with seniority from 6th Feb 1969 which will have no effect on pay and allowances.

M P Jayaswal, (MR-01824 P) (7766), AMC, 8th Sep 1970, with seniority from 9th Feb 1970 which will have no effect on pay and allowances.

(Min of Def Notn. No. 1668 dated 24th May 72 published in the G of I dated 17 June 1972 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

A B PAL, (MR-02436 K), AMC 20th Dec 1971.

R M GULATEE, (MR-02345 A), (9592) AMC, 31st Dec 1971, with seniority from 10th Dec 1971 which will have no effect on pay and allowances.

N C DE, (MR-02399-F), AMC, 31st Dec 1971 with seniority from 27th Dec 1971 which will have no effect on pay and allowances.

R. SHARMA, (MR-02356-M), AMC, 7th Jan 1972.

S. CHATTERJEE (MR-03065-Y), AMC, 7th Jan 1972 with seniority from 7th June 1969.

V. R. PATHAK (MR-03075-H), AMC, 7th Jan 1972 with seniority from 24th Dec 1970.

C. C. GOGOI (MR-03077-N), AMC, 7th Jan 1972 with seniority from 4th Sep 1970.

NP NAIDU, (MR-03092-H), AMC, 7th Jan 1972 with seniority from 24th Dec 1970 which will have no effect on pay and allowances.

P SHARMA, (MR-03093-L), AMC, 7th Jan 1972 with seniority from 4th Sep 1970.

M SONKER, (MR-03102-F), AMC, 7th Jan 1972 with seniority from 29th Dec 1970 which will have no effect on pay and allowances.

D M RAO, (MR-03137-X), AMC, 7th Jan 1972 with seniority from 4th Sep 1970.

R S CHAUHAN, (MR-03159-W), AMC, 7th Jan 1972 with seniority from 17th Aug 1967.

D PRASAD (MR-02349-W), AMC, 20th Mar 1972.

B SOLANKI (MR-02515-Y), AMC, 20th Mar 1972.

No. 2120, dated 28th July 1973.—The President is pleased to make the following promotion in terms of Govt. letter No. 172/13/DGAFMS/DG1B(i)/2309/D(Med), dated 30th May 1973.

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**Capt to be Maj*

R V JOSHI (MR-03110-A) AMC, 7th Jan 1972 with seniority from 31st Dec 1971 which will have no effect on pay and allowances.

F M VIRJEE, Under Secy.

No. 2121, dated 30th July 1973.—The President is pleased to make the following promotions:—

TERRITORIAL ARMY

*(Territorial Commission)**Capt to be Major*

B S BHAINAGAR (TA-40557), Inf 7th Dec 1971.

Y N SRIVASTAVA (TA-40623), Inf., 22nd Apr 1972.

K S JARG (TA-40684), Arty., 28th Apr 1973.

G S BAL (TA-40686), Inf., 27th May 1973.

J. CHOUBEY, Under Secy

No. 2122, dated 3rd Aug 1973.—The President is pleased to make the following promotions:—

TERRITORIAL ARMY
Territorial Commission
Capt to be Major

B S AHLUWALIA (TA-40691), Inf 5th June 1973.

Lt to be Capt

Tej Singh (TA-41076), Arty., 7th Dec 1971.

S S GULERIA (TA-41132), Inf., 18th Mar 1972.

K Jagir Singh (TA-41146), 30th Apr 1972.

V. SRIKANTAN, Under Secy.

No. 2123, dated 28th July 1973.—The President is pleased to make the following promotions:—

TERRITORIAL ARMY
(Territorial Commission)
Lt to be Capt

Laiq Ram (TA-40979), Arty., 7th Dec 1971.

Gurdip Singh (TA-40982), Arty., 7th Dec 1971.

M K VOHRA (TA-41015), Inf., 7th Dec 1971.

M S AHMED (TA-41090), Inf., 22nd Dec 1971.

J. CHOUBEY, Under Secy.

No. 2124, dated 28th July 1973.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
(Permanent Commission)
Lt to be Capt (on probn)

K R SIVARAMAKRISHNAN (MR-02674 W), AMC, 15th Jan 1971.

A SINGH, (MR-03024 P), AMC, 23rd Jan 1973.

F. M. VIRJEE, Under Secy.

No. 2125, dated 1st Aug 1973.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
Permanent Commission
2/Lts to be Lts

Darshan Jit Singh (IC 25052), Dalip Bhardwaj (IC 25053), S S Brar (IC 25057), R K Pillai (IC 25087), D S Grewal (IC 25094), S S Bains (IC 25133), Deepak Bajaj (IC 25190), A S Bhinder (IC 25220), S K Sharma (IC 25240) and Rakesh Kalia (IC 25354), Armoured Corps, 13th June 1973.

Pramathesh Raina (IC 25069), R K Kalia (IC 25119), G S Dhillon (IC 25150), Gorur Ramaswamiyengar Gopinath (IC 25160), R S Sohal (IC 25194), S M S Rathaur (IC 25197), Thota Jawaharlal (IC 25199), V K Rawal (IC 25200), Jagmal Singh (IC 25247), N V Shouche (IC 25248), Ranjeev Kapoor (IC 25255), Rajinder Singh (IC 25259), Jasbir Singh (IC 25279), S P Singh (IC 25292), Malkiat Singh (IC 25294), A K Soti (IC 25303), I R Gophane (IC 25311), J P Arya (IC 25324) and K Ramakrishnan (IC 25338), Arty., 13th June 1973.

C. P. KAPOOR, Under Secy.

No. 2126, dated 16th July 1973.—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

Short Service Commission

Lt to be Capt (on probn)

J SINGH (MS-09193M), AMC, 29th Nov 1972.

No. 2127, dated 21st July 1973.—The President is pleased to make the following promotion under Min of Def letter No. 15158/DGAFMS/MNS/1638/S/D(Med), dated 31st Dec 1966:—

REGULAR ARMY

Military Nursing Service (Tempy)

Lt to be Quasi Substantive Capt

Miss M AMMUNI NT-14735, 17th Sep 1970.

No. 2128, dated 8th May 1973.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

(Army Medical Corps)

To be Subedar Major (Ambulance Assistant)

Sub (AA) Gurmukh Singh (JC-22468), 16th Nov 1972.

To be Subedar Major (Nursing Technician)

Sub (NT) Basant Kumar (JC-33574), 25th Dec 1972.

To be Subedar (Ambulance Assistant)

Nb Sub (AA) Chandra Shekhar (JC-35143), 1st Nov 1972.

Nb Sub (AA) Duni Chandra (JC-35145), 9th Nov 1972.

Nb Sub (AA) Umed Singh (JC-35146), 16th Nov 1972.

Nb Sub (AA) Bhanj Chand (JC-35148), 14th Dec 1972.

Nb Sub (AA) Mohan Singh (JC-35149), 18th Dec 1972.

Nb Sub (AA) Bai Kunh Singh (JC-38385), 21st Dec 1972.

Nb Sub (AA) Shankar Dass (JC-33746), 30th Dec 1972.

To be Subedar (Nursing Assistant)

Nb Sub (NA) Abdul Aziz (JC-41469), 10th Aug 1972.

Nb Sub (NA) Sipahi Rai (JC-45177), 3rd Nov 1972.

Nb Sub (NA) Sukhdev Singh Chani (JC-45179), 8th Nov 1972.

Nb Sub (NA) Mohd Ishaq (JC-45180), 25th Dec 1972.

To be Subedar (Clerk—GD)

Nb Sub (Clk-GD) M T George (JC-53783), 13th Nov 1972.

Nb Sub (Clk-GD) Sukh Ram (JC-53785), 16th Nov 1972.

Nb Sub (Clk-GD) Ram Sunder Singh (JC-53786), 24th Nov 1972.

Nb Sub (Clk-GD) Indradeo Prasad Sharma (JC-54403), 27th Nov 1972.

To be Subedar (Storekeeper Technical)

Nb Sub (SKT) Bhim Bhatt Joshj (JC-48765), 2nd Nov 1972.

Nb Sub (SKT) Gaya Prasad (JC-48766), 6th Nov 1972.

Nb Sub (SKT) Chandra Prakash (JC-48767), 8th Nov 1972.

To be Subedar (Radiographer)

Nb Sub (Rad) G C Banerjee (JC-32878), 1st Nov 1972.

Nb Sub (Rad) S Devanandam (JC-32879), 9th Dec 1972.

Nb Sub (Rad) M E Sheikh Abdul Rahim (JC-32880), 12th Dec 1972.

To be Subedar (Laboratory Technician)

Nb Sub (LT) Mathura Prasad Juglan (JC-50241), 28th Nov 1972.

To be Subedar (Laboratory Assistant)

Nb Sub (LA) Netra Prakash (JC-49457), 30th Dec 1972.

To be Subedar (Dental Operating Room Assistant)

Nb Sub (DORA) Same Singh (JC-42867), 4th Dec 1972.

To be Subedar (Dispenser)

Nb Sub (Disp) Mahabir Prasad (JC-42883), 7th Dec 1972.

Nb Sub (Disp) Sunder Ram (JC-42884), 29th Dec 1972.

To be Subedar (Sanitary Assistant)

Nb Sub (SA) Liladhar Gope (JC-55602), 9th Dec 1972.

To be Subedar (Special Treatment Assistant)

Nb Sub (STA) Sualal Verma (JC-48791), 6th Nov 1972.

F. M. VIRJEE, Under Secy.

No. 2129, dated 28th July 1973.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

*Infantry**The Madras Regt**To be Nb Sub (Clerk)*

Hav Clk Munisami (No 6864676 now JC-71036), 31st Jan 1973.

*The Parachute Regiment**To be Nb Sub*

CQMH Bhupinder Singh Thapa (No 5834489 now JC-71062), 13th Nov 1972.

Hav Vasu Thapa (No 5436579 now JC-71063), 27th Dec 1972.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Nov 1972 without effect on pay and allowances.)

Hav Amar Singh (No 2949012 now JC-71064), 15th Nov 1972.

Hav Prem Singh (No 3952452 now JC-71065), 15th Nov 1972.

BQMH Subramani (No 2545379 now JC-71066), 11th Feb 1973.

BHM Kishan Chand (No 3945454 now JC-71067), 12th Feb 1973.

CHM Hem Raj Singh (No 2843685 now JC-71068), 16th Feb 1973.

*Regiment of Artillery**To be Nb Sub*

BHM Hans Raj (No 1150643 now JC-71051), 11th Aug 1972.

RHM Mohinder Singh (No 1160393 now JC-71052), 19th Aug 1972.

BHM Jagir Singh (No 1148536 now JC-71053), 1st Oct 1972.

RHM Sadasivan Nair M (No 1147004 now JC-71054), 10th Oct 1972.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1972 without effect on pay and allowances.)

RHM Ishwar Jang Thapa (No 1136085 now JC-71055), 22nd Oct 1972.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1972 without effect on pay and allowances.)

BHM Bachan Singh (No 1135479 now JC-71056), 23rd Dec 1972.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1972 without effect on pay and allowances.)

Hav R Vadi Velu (No 1148823 now JC-71057), 26th Oct 1972.

RHM Data Ram (No 1149007 now JC-71058), 6th Jan 1973.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28th Oct 1972 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clerk)

Hav Clk V K Daniel (No 1139967 now JC-71059), 13th Dec 1972.

To be Nb Sub (SKT)

Hav Madhav Rajc Shirke (No 6865756 now JC-71060), 14th Nov 1972.

Hav Kushal Dev (No 1129085 now JC-71061), 29th Nov 1972.

*Corps of Engineers**Madras Engineer Group**To be Nb Sub (Clerk)*

Hav Clk Kanjiramala Thomas Joy (No 1320933 now JC-71131), 23rd Jan 1973.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 2nd Dec 1972 without effect on pay and allowances.)

*Corps of Signals**To be Nb Sub (GD)*

CHM Gopal Das (No 6263616 now JC-71079), 7th Oct 1972.

CHM Daroga Singh (No 6263683 now JC-71080), 7th Oct 1972.

CHM Waryam Singh (No 6263696 now JC-71081), 7th Oct 1972.

CHM Bansi Lal (No 6263843 now JC-71082), 7th Oct 1972.

CHM Harbans Singh (No 6263870 now JC-71083), 7th Oct 1972.

Hav Data Ram (No 6264062 now JC-71084), 7th Oct 1972.

Hav Banwari Lal (No 6264260 now JC-71085), 7th Oct 1972.

CQMH Narain Dass (No 6264516 now JC-71086), 7th Oct 1972.

Hav Chanderna Singh Yadav (No 6264512 now JC-71087), 7th Oct 1972.

Hav Baldev Singh (No 6264513 now JC-71088), 7th Oct 1972.

CHM Sewa Singh (No 6264707 now JC-71089), 7th Oct 1972.

CHM Durai Swamy (No 6264684 now JC-71090), 7th Oct 1972.

RHM Muni Lal (No 6264838 now JC-71091), 7th Oct 1972.

Hav Jamuna Rai (No 6265258 now JC-71092), 7th Oct 1972.

CHM M Radhakrishnan (No 6265333 now JC-71093), 7th Oct 1972.

CHM Baldeo Singh (No 6265367 now JC-71094), 7th Oct 1972.

To be Nb Sub (Clerk)

Hav Clk Kapileshwar Singh (No 6276228 now JC-71095), 7th Oct 1972.

Hav Clk Baby K K (No 6267752 now JC-71096), 7th Oct 1972.

Hav Clk Panchdeo Prasad (No 6264578 now JC-71097), 7th Oct 1972.

Hav Clk K Gangadharan (No 6270992 now JC-71098), 7th Oct 1972.

To be Nb Sub (Cipher)

CHM Mathai K C (No 6285521 now JC-71099), 7th Oct 1972.

CHM Rajinder Singh (No 6285579 now JC-71100), 7th Oct 1972.

CHM Mustafa Sheik (No 6285623 now JC-71101), 7th Oct 1972.

CHM Thar Harish Chandra (No 6283397 now JC-71102), 7th Oct 1972.

CHM Joginder Paul (No 6284290 now JC-71103), 7th Oct 1972.

CHM Kesar Singh (No 6284842 now JC-71104), 7th Oct 1972.

CHM Rabindra Nath Bhattacharjee (No 6285236 now JC-71105), 7th Oct 1972.

CHM Kishan Lal (No 6285312 now JC-71106), 7th Oct 1972.

CHM Pilla Seetha Ramaiah (No 6284324 now JC-71107), 7th Oct 1972.

CHM Ranjit Kumar Dutta (No 6284584 now JC-71108), 7th Oct 1972.

CHM R Gopalakrishna Pillai (No 6284918 now JC-71109), 7th Oct 1972.

To be Nb Sub (Operator Special)

Hav Ranjit Singh (No 6263741 now JC-71110), 7th Oct 1972.

Hav Rang Rao Jadhav (No 6271734 now JC-71111), 7th Oct 1972.

Hav Shambhoo Singh Rawat (No 6273123 now JC-71112), 7th Oct 1972.

CHM Puran Chandra (No 6273187 now JC-71113), 7th Oct 1972.

Hav Dip Narayan Jha (No 6274138 now JC-71114), 7th Oct 1972.

Hav M Appa Rao (No 6268912 now JC-71115), 7th Oct 1972.

Hav Kamail Singh (No 6273041 now JC-71116), 7th Oct 1972.

Hav E C Samuel (No 6271989 now JC-71117), 7th Oct 1972.

Hav Aniya Kumar Mukherjee (No 6269407 now JC-71118), 7th Oct 1972.

To be Nb Sub (Y of S)

Hav Shani Lal Arora (No 6275773 now JC-71119), 7th Oct 1972.

To be Nb Sub (F of S)

Hav Surendra Prakash Srivastava (No 6278909 now JC-71120), 7th Oct 1972.

Hav Panch Ram Upadhyaya (No 6279989 now JC-71121), 7th Oct 1972.

Hav Tarsem Singh Chhatra (No 6280572 now JC-71122), 7th Oct 1972.

Hav Ajaib Singh (No 6280716 now JC-71123), 7th Oct 1972.

Hav Inderjit Singh (No 6282803 now JC-71124), 7th Oct 1972.

Hav Ranjodh Singh (No 6283159 now JC-71125), 7th Oct 1972.

Hav Puli Venkateswarlu (No 6283757 now JC-71126), 7th Oct 1972.

Hav Anoop Singh Sidhu (No 6276490 now JC-71127), 7th Oct 1972.

Hav Vijai Ram Verma (No 6284986 now JC-71128), 7th Oct 1972.

Hav Dayanand Sinai Bhangui (No 6285717 now JC-71129), 7th Oct 1972.

Hav T A Antony (No 6285692 now JC-71130), 7th Oct 1972.

Armoured Corps

To be Nb Ris

Dfr Himmat Singh (No. 1021748 now JC-71132), 21st Sep. 1972.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 25th Aug 1972, without effect on pay and allowances).

SDM Dharampal Singh (No 1017435 now JC-71133), 16th Jan 1973.

@(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 12th Dec 1972, without effect on pay and allowances).

Dfr Chetan Abraham (No 1029730 now JC-71134), 20th Dec 1972.

SDM Kalayil Chandu Mathew (No 1031272 now JC-71135), 21st Dec 1972.

SDM Beant Singh (No 1022010 now JC-71136), 24th Dec 1972.

Army Educational Corps

To be Nb Sub

Hav Ramesh Chandra Unival (No 9500971 now JC-71038), 15th Nov 1972.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 2nd Nov 1972 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Singh (No 9500941 now JC-71039), 26th Nov 1972.**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 6th Nov 1972 without effect on pay and allowances).

Hav P K Raghavan Nambiar (No 9500990 now JC-71040), 9th Dec 1972.***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 7th Nov 1972 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Kishor Sharma (No 9501095 now JC-71041), 9th Nov 1972.

Hav Harsh Singh Bisht (No 9501143 now JC-71042), 19th Dec 1972.%

Hav Rajinder Singh (No 9501152 now JC-71043), 9th Jan 1973.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28th Nov 1972 without effect on pay and allowances).

Hav Son Pal Singh (No 9501150 now JC-71044), 30th Nov 1972.

Hav Vidya Sagar (No 9501077 now JC-71045), 26th Dec 1972.%%

%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1972 without effect on pay and allowances).

Hav Sarjit Singh Parmar (No 9501156 now JC-71046), 5th Jan 1973.%%%

%%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 4th Dec 1972 without effect on pay and allowances).

Hav Hari Raj Singh Tyagi (No 9501179 now JC-71047), 15th Feb 1973.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 5th Dec 1972 without effect on pay and allowances).

Hav Dev Dutt Sharma (No. 9501010 now JC-71048), 14th Feb 1973.@@

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 7th Dec 1972 without effect on pay and allowances).

Hav Raghubar Dayal Sharma (No 9501089 now JC-71049), 18th Dec 1972.

Hav Surain Singh Maltani (No 9500998 now JC-71050), 20th Feb 1973.@@@

@@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27th Dec 1972 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Chander Nohwal (No 9501041 now JC-71037), 21st Jan 1973.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27th July 1972 without effect on pay and allowances).

C. P. KAPOOR, Under Secy.

No. 2130, dated 1st Aug, 1973.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Infantry

The Dogra Regt

To be Sub

Nb Sub Sukh Ram (JC-41101), 22nd June 1973.

To be Sub (Clerk)

Nb Sub Clk Bishan Dass (JC-49570), 6th July 1973.

JAK Rif

To be Sub Maj

Sub Mejra Singh (JC-13637), 16th Mar 1973.

Sub Janak Singh (JC-15195), 19th Apr 1973.

Sub Raiman Singh (JC-14070), 25th Apr 1973.

To be Sub

Nb Sub Sassi Ram (JC-44982), 14th Sep 1972.

Nb Sub Dal Bahadur (JC-44983), 21st Nov 1972.

Nb Sub Gian Singh (JC-32954), 1st Mar 1973.

Nb Sub Bidhi Singh (JC-36205), 24th May 1973.

To be Sub (Clerk)

Nb Sub Clk Jaswant Singh (JC-37839), 3rd Mar 1973.

Nb Sub Clk Omkardev Singh (JC-39918), 7th June 1973.

The Sikh Li

To be Sub

Nb Sub Arian Singh (JC-54496), 1st June 1973.

Corps of Engineers

MES Militarised Cadre

To be Sub Maj (Clerk)

Sub Clk R James (JC-14711), 7th Oct 1972.

Sub Clk Ram Rattan (JC-11759), 8th Oct 1972.

Sub Clk Har Rup Singh (JC-13787), 10th Oct 1972.

Sub Clk Bishan Singh (JC-15193), 16th Nov 1972.

Sub Clk K P Sankara Marar (JC-15387), 11th Jan 1973.

Sub Clk K Kumara Samy (JC-15389), 12th Jan 1973.

Sub Clk Thomas Francis D'Souza (JC-15388), 15th Jan 1973.

Sub Clk K Ragothama Rao (JC-15393), 27th Jan 1973.

Sub Clk Y Laban (JC-15392), 27th Jan 1973.

Sub Clk Harbhajan Singh (JC-15385), 27th Jan 1973.

Sub Clk Jaswantlal Motilal Baiwala (60032-JC), 24th Feb 1973.

Sub Clk Sucha Singh (JC-13955), 5th Mar 1973.

Sub Clk Gurbachan Singh (JC-16621), 5th Mar 1973.

Sub Clk Inderjit Singh (JC-15897), 25th Mar 1973.

Sub Clk Inderjit Singh Sethi (JC-16620), 5th Apr 1973.

Sub Clk Lachhman Singh (JC-16622), 25th Apr 1973.

To be Sub Major

Sub Nalliah (JC-14109), 6th Mar 1973.

Sub Niwauti Yadav (JC-9218), 11th Mar 1973.

Corps of Military Police

To be Sub Maj

Sub Rewat Singh (JC-16529), 26th Feb 1972.

Sub Nauth Singh (JC-17143), 22nd July 1972.

Sub Hargobind Singh Karki (JC-16534), 25th Sep 1972.

To be Sub

Nb Sub Piara Singh (JC-34297), 10th Aug 1972.

Nb Sub Suraj Mal (JC-34300), 25th Sep 1972.

Nb Sub Harchand Singh (JC-34302), 3rd Nov 1972.

Nb Sub Satya Narain Sao (JC-39815), 5th Feb 1973.

Corps of Signals

To be Sub Maj (GD)

Sub Kabal Singh (JC-12808), 12th Oct 1972.

Sub K Rajagopal Singh (JC-14169), 21st Dec 1972.

Sub Hari Singh (JC-12807), 16th Feb 1973.

Sub P Kunhi Kannan Nair (JC-14170), 21st Feb 1973.

Sub Tirlak Singh (JC-15555), 30th Mar 1973.

Sub Hoshiar Singh (JC-15572), 30th Mar 1973.

Sub Mohabbat Singh (JC-16631), 4th Apr 1973.

Sub T K Baby (JC-16637), 7th Apr 1973.

Sub Jai Singh Panwar (JC-15577), 29th Apr 1973.

Infantry

Brigade of The Guards

To be Sub

Nb Sub Altar Singh (JC-34668), 22nd May 1973.

A. V. KRISHNAMURTI, Under Secy.

No. 2131, dated 30th July 1973.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Army Ordnance Corps

To be Sub Maj Ann Tech

Sub Thazhathatil Kesavan Nair (JC-8110), 14th Mar 1973.

Sub V Venkatesan (JC-8951), 26th May 1973.

To be Sub Maj Clk Store

Sub Clk Store (Cont) Ramay Choudhury (53118-JC), 16th Apr 1973.

Sub Clk Store (Prov) Sukh Deo Prashar (53119-JC), 17th May 1973.

To be Sub Maj SK Tech

Sub SK Tech (Wep) Jnanendra Lal Bose (42041-JC), 8th Apr 1973.

Sub SK Tech (GS&C) A K Balakrishnan (45898-JC), 25th May 1973.

To be Sub Major

Sub SH GD MD Mustafa (JC-6531), 1st Apr 1973.

Sub Carp (Unit) Maruti Appaji Sutar (JC-7642), 5th Apr 1973.

Sub SH Tech Sadhu Singh (JC-11975), 19th Apr 1973.

Sub SH GD Baboo Ram (JC-14320), 23rd May 1973.

To be Sub Ann Tech

Nb Sub Mathai PJ (JC-38049), 16th Apr 1973.

To be Sub Clk GD

Nb Sub MC Nayagam (JC-41140), 18th Apr 1973.

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-41508), 17th May 1973.

Nb Sub Bachchu Lal Yadava (JC-41153), 17th May 1973.

Nb Sub Chandra Narayan Sarma Adhikary (JC-41600), 22nd May 1973.

Nb Sub Kishan Chand (JC-44142), 23rd May 1973.

Nb Sub Koshy Ninan (JC-44143), 26th May 1973.

Nb Sub VT Balakrishna Menon (JC-44144), 28th May 1973.

To be Sub Clk Store (Cont)

Nb Sub Ram Kishor Singh (JC-37993), 28th Apr 1973.

Nb Sub Ram Yatan Singh (JC-38000), 16th May 1973.

Nb Sub Baidya Nath Singh (JC-38001), 23rd May 1973.

Nb Sub Bhola Nath Chowdhury (JC-38002), 24th May 1973.

Nb Sub Siri Chand (JC-38009), 25th May 1973.

Nb Sub J Dhanaraj (JC-38063), 26th May 1973.

To be Sub SK Tech

Nb Sub SK Tech (MT) Vishnu Datt (JC-44154), 7th Mar 1973.

Nb Sub SK Tech (Sig) Banaraji Lal (JC-44155), 14th Mar 1973.

Nb Sub SK Tech (MT) Karam Chand (JC-44156), 15th Mar 1973.

Nb Sub SK Tech (MT) Suresh Chandra (JC-44157), 18th Mar 1973.

Nb Sub SK Tech (MT) Pokhar Dass (JC-44158), 20th Mar 1973.

Nb Sub SK Tech (GS&C) Tirath Dass (JC-30831), 21st Mar 1973.

Nb Sub SK Tech (MT) Gir Raj Sharma (JC-44159), 1st Apr 1973.

Nb Sub SK Tech (GS&C) Brij Narain Tripathi (JC-44160), 5th Apr 1973.

Nb Sub SK Tech (Eng) Madhu Sudan Lal (JC-44161), 8th Apr 1973.

Nb Sub SK Tech (GS&C) Shiva Shanker Shukla (JC-44162), 29th Apr 1973.

Nb Sub SK Tech (Wep) Partap Singh (JC-44164), 30th Apr 1973.

Nb Sub SK Tech (MT) Manohar Lal (JC-44165), 7th May 1973.

Nb Sub SK Tech (GS&C) Niranjan Das (JC-44167), 7th May 1973.

Nb Sub SK Tech (GS&C) VI Bhaskaran (JC-47378), 8th May 1973.

Nb Sub SK Tech (GS&C) Chaman Lal (JC-46750), 11th May 1973.

Nb Sub SK Tech (MT) Kashmiri Ram (JC-46751), 15th May 1973.

Nb Sub SK Tech (MT) Mohd Nasim Abbasi (JC-46752), 18th May 1973.

Nb Sub SK Tech (MT) Krishan Lal Sethi (JC-46753), 28th May 1973.

Nb Sub SK Tech (Wep) Dular Chand Roy (JC-46754), 29th May 1973.

To be Subedar

Nb Sub SH (GD) Chanan Singh (JC-41206), 3rd Mar 1973.

Nb Sub Pfr (Unit) V G Nagarajan (JC-44177), 7th Mar 1973.

Nb Sub Tex Rep Bant Singh (JC-44178), 12th Mar 1973.

Corps of Electrical and Mechanical Engineers

To be Sub Maj Armt Art & Artz (Eligible Categories)

Sub Shivaji Pandey (JC-9364), 1st July 1973.

Sub Janak Singh (JC-16217), 1st July 1973.

To be Sub Maj (Driving Wing)

Sub E Appukutti Nair (JC-20495), 1st Apr 1973.

Sub KP Karunakaran (JC-19621), 1st July 1973.

To be Sub Armt Art & Artz (Eligible Categories)

Naib Sub Sohan Singh (JC-36278), 1st Jan 1973.

Naib Sub Jagat Ram (JC-39617), 1st June 1973.

Naib Sub Lakshmi Chand (JC-38699), 1st July 1973.

Naib Sub Paras Ram (JC-38700), 1st July 1973.

Naib Sub Pritam Chand (JC-38703), 1st July 1973.

Naib Sub Sat Pal (JC-39608), 1st July 1973.

Naib Sub Jagdish Ram (JC-38684), 1st July 1973.

Naib Sub Puran Singh (JC-38685), 1st July 1973.

Naib Sub Madan Lal (JC-38686), 1st July 1973.

Naib Sub Khairaj Lal Nanda (JC-38687), 1st July 1973.

Naib Sub Prem Singh (JC-38688), 1st July 1973.

Naib Sub Bhag Singh Ranote (JC-38689), 1st July 1973.

To be Sub Armourer

Naib Sub Telu Ram (JC-38794), 1st June 1973.

To be Sub Clerk (GD)

Naib Sub V Sitaraman (JC-39660), 1st Feb 1973.

Naib Sub TV Venkitachalapathi (JC-50685), 1st Apr 1973.

Naib Sub Bi-hweshwar Dutta (JC-50781), 1st June 1973.

Naib Sub T Kanna Kurup (JC-52743), 1st June 1973.

Naib Sub K Muthu Krishnan (JC-52744), 1st June 1973.

Naib Sub Bipra Charan Patro (JC-52693), 1st June 1973.

Naib Sub Jagdish Lal Bakhshi (JC-52746), 1st July 1973.

Naib Sub Jagdish Narain (JC-52694), 1st July 1973.

Naib Sub N Krishnan (JC-52695), 1st July 1973.

Naib Sub Madan Sarup (JC-53756), 1st July 1973.

To be Sub Storekeeper Tech

Naib Sub Narayan Kutty K (JC-37165), 1st July 1973.

Naib Sub Mohd Ali Khan (JC-37166), 1st July 1973.

Naib Sub P K Subramanian (JC-38770), 1st July 1973.

To be Sub (Driving Wing)

Naib Sub Kunju Moideen (JC-38865), 1st Apr 1973.

Naib Sub N Govindan (JC-38883), 1st June 1973.

Naib Sub Ram Lal (JC-42202), 1st June 1973.

Naib Sub Maharudrappa Jakate (JC-38887), 1st July 1973.

Naib Sub Gopalan Nair (JC-42204), 1st July 1973.

VIJAI KUMAR, Under Secy.

No. 2132, dated 28th July 1973.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Army Service Corps

(Mechanical Transport)

To be Sub Maj

Sub Jager Deo Singh (JC-36957), 18th Feb 1973.

Sub Munusu Periya Karappa Thevar Ramasami (JC-36959), 25th Feb 1973.

Sub Balakrishna Kurup (JC-36960), 21st Mar 1973.

Sub Binda Prasad Singh (JC-36961), 31st Mar 1973.

Sub Kavuvilail Narayana Pillai Siva Sankaran Nair (JC-36962), 13th Apr 1973.

Sub Zile Singh (JC-36963), 23rd Apr 1973.

Sub Birbal Sharma (JC-36964), 6th May 1973.

Sub Bala Datt (JC-36965), 30th May 1973.

To be Sub

Nb Sub Mohinder Singh (JC-43509), 6th Jan 1973.

Nb Sub Valanparambil Padmanabha Pillai Balakrishnan Nair (JC-43510), 6th Jan 1973.

Nb Sub Babu Singh (JC-43511), 13th Jan 1973.

Nb Sub Chet Ram (JC-44036), 13th Jan 1973.

Nb Sub Hari Ram (JC-43512), 13th Jan 1973.

Nb Sub Bhagwati Parshad Singh (JC-43513), 13th Jan 1973.

Nb Sub Ram Pat Singh (JC-43514), 14th Jan 1973.

Nb Sub Joginder Singh (JC 43515), 14th Jan 1973.

Nb Sub Amar Singh (JC-43516), 14th Jan 1973.

Nb Sub Nihal Singh (JC-43517), 14th Mar 1973.

Nb Sub Dewan Singh (JC-43518), 14th Mar 1973.
 Nb Sub Tejpal Singh (JC-43519), 17th Mar 1973.
 Nb Sub Harbans Lal (JC-42520), 12th Apr 1973.
 Nb Sub Sidh Singh (JC-45287), 12th Apr 1973.

ASC

AT

To be Ris Maj

Ris Biraj Lal (JC-10493), 15th Dec 1972.
 Ris Rachhpal Singh (JC-5477), 1st Jan 1973.
 Ris Ram Saran Nautiyal (JC-12389), 1st Jan 1973.
 Ris Raghbir Singh (JC-12390), 1st Feb 1973.

To be Ris

Nb Ris Lehri Singh (JC-35747), 19th Sep 1972.
 Nb Ris Mer Singh Sajwan (JC-35748), 15th Dec 1972.
 Nb Ris Shib Singh Rawat (JC-35749), 1st Jan 1973.
 Nb Ris Mor Singh Negi (JC-35750), 1st Jan 1973.
 Nb Ris Hoshiyar Singh (JC-35752), 1st Feb 1973.

*Army Service Corps**Supply**To be Sub Personal Assistant*

Nb Sub Amolak Singh (JC-45237), 18th Mar 1973.
 V S RAGHAVAN, Under Secy.

No. 2133, dated 28th July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to relinquish their Emergency Commission in the Army Medical Corps wef 7th Jan 1972 and to grant them Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 191/62 as modified by Min of Def letter No. 5404/(69)/DAGFMS/DG-1(X)/794/S/D(Med) dated 10th Aug 1970 :—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**To be Capt*

Scutipada CHATTERJEE, MB, BS DPH (Cal), (M-30603 now MR-03065-Y), AMC, with seniority for pay and promotion from 7th June, 1962 (includes 6 months ante date for DPH which will not count for gratuity), except for purpose of promotion to the rank of Major for which it will reckon from 7th June 1963.

Vijai Ramchandra PATHAK, MB, BS, (M-30205 now MR-3075-H), AMC, with seniority for pay and promotion from 24th Dec 1963, except for the purpose of promotion to the rank of Major for which it will reckon from 24th Dec 1964.

Chara Chandra GOGOI, MB, BS (M-30267 now MR-03077-N), AMC, with seniority for pay and promotion from 4th Sep, 1963 (includes 6 months ante date for Hospital Appointment which will not count for gratuity), except for the purpose of promotion to the rank of Major for which it will reckon from 4th Sep 1964.

Nirjala Pandurangam NAIDU, MB, BS (M-30252 now MR-03092-H), AMC, with seniority for pay and promotion from 24th Dec 1963 except for the purpose of promotion to Major for which it will reckon from 24th Dec 1964.

Patanjali SHARMA, MB, BS, DTD (Delhi) (M-30254 now MR-03093-L), AMC, with seniority for pay and promotion from 4th Sep 1963 (includes 6 months ante date for DTD which will not count for gratuity), except for the purpose of promotion to the rank of Major for which it will reckon from 4th Sep 1964.

Digamber Maroti RAO, MB, BS, DPH (Osmania), (M-30127 now MR-03137-X), AMC, with seniority for pay and promotion from 4th Sep 1963 (includes 6 months ante date for DPH which will not count for gratuity), except for purpose of promotion to the rank of Major for which it will reckon from 4th Sep 1964.

Rajvir Singh CHAUHAN, MB, BS, MS (Agra), (M-30598 now MR-03159-W), AMC, with seniority for pay and promotion from 17th Aug 1960 (includes one year ante date for MS which will not count for gratuity), except for purpose of promotion to the rank of Major for which it will reckon from 17th Aug 1961.

No. 2134, dated 29th July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 20th June 1968 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 191/62 as modified by Min of Def letter No. 5404/(69)/DAGFMS/DG-1(X)/794/S/D(Med), dated 10th Aug 1970 :—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**To be Capt*

Nimai Chand DE, MB, BS, (MS-7479 now MR-02399-F), AMC, with seniority for pay and promotion from 27th Dec 1965 except for the purpose of promotion to Major for which it will reckon from 31st Dec 1965.

(Min of Def Notn No. 1026 dated 25th Mar 1970 published in the G of I dated 18th Apr 1970 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

No. 2135, dated 28th July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 19th Apr 1971 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 191/62 as modified by Min of Def letter No. 5404(69)/DAGFMS/DG-1(X)/794/S/D(Med), dated 10th Aug 1970 :—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**To be Capt*

Buddha Nath BORGHAIN, MB, BS (MS-7940 now MR-02862-X), AMC, with seniority for pay and promotion from 13th May, 1968.

No. 2136, dated 28th July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 14th Dec 1971 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 191/62 as modified by Min of Def letter No. 5404(69)/DAGFMS/DG-1(X)/794/S/D(Med), dated 10th Aug 1970 :—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**To be Capt*

Santosh Kumar MISHRA, MB, BS (MS-8069 now MR-02996-W), (11983), AMC, with seniority for pay and promotion from 12th Jan 1964 except for purpose of promotion to Major for which it will reckon from 12th Jan 1965.

No. 2137, dated 6th July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Commission on reversion to Civil employment :—

REGULAR ARMY

(Emergency Commission)

Capt P RAMANJANEYULU, (M-30428), AMC, 29th Sep 1967.

No. 2138, dated 6th July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Commission on grounds of ill health :—

REGULAR ARMY

(Emergency Commission)

Capt D P BANSAL (M-30836), AMC, 3rd June 1968.

F M VIRJEE, Under Secy.

No. 2139, dated 28th July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Territorial Army Commission on grant of Short Service Commission :—

TERRITORIAL ARMY
Territorial Commission

K Ram Singh RATKURIA (TA-41401), Inf., 29th Apr 1973.

J CHOUBEY, Under Secy.

No. 2140, dated 3rd July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service at his own request for personal reasons :—

REGULAR ARMY
Permanent Commission

Col D P SEN (MR-293), AMC, 21st Oct 1972.

S R GURUSWAMY, Dy Secy.

No. 2141, dated 27th July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army Service at their own request for personal reasons :—

REGULAR ARMY
Permanent Commission

Lt Col SOHAN SINGH BYCE (IC 4333) AOC, 5th Feb 1973.

Lt Col B N SHARMA (IC 2603) ARTY, 24th Feb 1973.

Lt Col C SARANGAPANI (IC 8905) ASC, 5th Feb 1973.

Lt Col M SHERGILL (IC 3887) AOC, 12th Feb 1973.

Lt Col (TS) GURCHARAN SINGH (IC 8903) ASC, 4th Apr 1973.

Lt Col S N BHATIA (IC 10305) SIGS, 4th Apr 1973.

Lt Col BASANT SINGH (IC 10904) ENGRS, 2nd Apr 1973.

Capt DATTA NAIK (SL 635), 8th Apr 1973.

Major RL MALIK (IC 10838) AOC 27th Apr 1973.

Lt Col SS KHOKHAR (IC 1477) DOGRA 5th Apr 1973.

Major SUDERSHAN SINGH (IC 6298) SIGS—23rd Apr 1973.

No. 2142, dated 27th July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army service on attaining the age of compulsory retirement.

REGULAR ARMY
Permanent Commission

Capt K S Loyal (IC 11410) SIGS—1st Aug 1968.

C. P. KAPOOR, Under Secy.

No. 2163, dated 3rd August 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army Service on attaining the age of compulsory retirement with permission to retain their substantive ranks :—

TERRITORIAL ARMY
Territorial Commission

Major K C GOEL (TA-40608), Arty, 28th Dec 1971.

Major B Y HOLKAR (TA-40246), Arty, 4th Aug 1972.

V. SRIKANTAN, Under Secy.

No. 2144, dated 28th July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army service on expiry of the period of extension of service granted to him and to use his substantive rank :—

TERRITORIAL ARMY
Territorial Commission

Major M S NAIDU (TA-40611), Inf, 1st Oct 1972.

J. CHOUBEY, Under Secy.

REGULAR ARMY-AOC

No. 2145, dated 1st Oct 1973.—The undermentioned officers retired from service wef the dates shown against their names :—

Shri P PARSAD Pmt. Ordnance Officer Civ (Stores), 1st July 1973 (FN).

Shri S NARAYANAN, Pmt. Ordnance Officer Civ (Stores), 7th July 1973 (FN).

Pmt. Ordnance Officer Civ (Stores).

No. 2146, dated 31st July 1973.—The undermentioned permanent EME Officer (Civilian) retired from service wef the date noted against his name :—

Corps of EME

Shri BP DUBE—11 Jun 73 (FN).

Military Engineer Services

No. 2147, dated 1st August 1973.—The undermentioned officer expired on the date indicated against his name :—

MES : 200001 Shri V P GARG, Pmt Supdt B/R Gde. I and Tempv AEE(B/R)—02 July 1973.

G S AGGARWAL, Under Secy.

No. 2148, dated 30th July 1973.—The undermentioned officer is cashiered wef the date shown against his name by sentence of a General Court Martial :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

IC 3729 Maj SARDUL SINGH, AOC—21st Apr 69.

D. CHATTERJEE, Under Secy.

No. 2149, dated 6th July 1973.—The President is pleased to release the undermentioned officer from Army Service :—

REGULAR ARMY

Short Service Commission

Capt V S SINGH, (MS-07727 N), AMC, 20th Apr 1973.

F. M. VIRJEE, Under Secy.

No. 2150, dated 24th July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned General Officer to relinquish the appointment of Honorary Colonel of the Brigade of GUARDS wef 15th Jan 1973 :—

General SHFJ MANEKSHAW (IC 14) MC.

L. DAYAL, Jt. Secy.

Military Lands and Cantonments Service

No. 2151, dated 2nd August 1973.—The President is pleased to make the following appointment in the Military Lands and Cantonments Service :—

Class II Officers to be offg. Class I on probn for a period of 2 years

1. Shri M K Vaswani—2-1-1973 (FN).
2. Shri Pirthipal Singh—19-1-1973 (FN)
3. Shri R D N Verma—19-1-1973 (FN).
4. Shri M L Srivastava—19-1-1973 (FN).
5. Shri B L Dhawan—19-1-1973 (FN).
6. Shri B Alfred—9-2-1973 (FN).

A S BEDI, Under Secy.

(Navy Branch)

NAVAL HEADQUARTERS

No. 2152, dated 2nd August 1973.—The President is pleased to make the following appointments :—

- (a) Shri M G Madhra, pmt ACSO, as offg CSO from 14th May, 1973 to 30th June, 1973 vice Shri Rai Bahadur, CSO, granted leave;
- (b) Shri Harbans Lal, pmt Asstt. as offg ACSO from 14th May, 1973 to 30th June, 1973 vice Shri M G Madhra, ACSO, promoted.

No. 2153, dated 2nd August 1973.—The President is pleased to appoint Shri R C Gupta, pmt Asstt. as Offg ACSO from 17th Mar 1973 to 30th Jun 1973 vice C A Dalton, granted leave.

No. 2154, dated 27th July 1973.—The President is pleased to appoint Shri O F Rallan, pmt Asstt. as Offg ACSO from 16th Apr., 1973 to 31st May, 1973 vice Shri R L Joshi, granted leave.

No. 2155, dated 27th July 1973.—The President is pleased to appoint Shri J N Sharma, pmt Asstt. as offg ACSO wef 15th June, 1973 vice Shri Prakash Lal, granted leave.

P N MENON.

Sahayak Mukhya Prashasan Adhikari(A)

(Navy Branch)

No. 2156, dated 31st July 1973.—The President is pleased to make the following appointments :—

Shri JM Dias, Pmt. Sr. Storekeeper/Offg Sr. Foreman of Stores to be Offg Asstt NSO vice Shri S Fernandes, Asstt NSO granted leave from 9th Apr 1973 to 2nd June 1973.

Shri C Sudersan, Pmt Sr Storekeeper/Offg Sr Foreman of Stores to be Offg Asstt Naval Store Officer vice Shri HP Rao, Asstt Naval Store Officer granted leave from 9th Apr 73 to 26th May 1973.

A. S. BADI, Under Secy.

No. 2157, dated 3rd August 1973.—The President is pleased to make the following promotions :—

INDIAN NAVY

Short Service Commission

Executive Branch

AG SLTS TO BE SLTS

A K MANRAJ, A S MANAISE and C L NANDA, 22nd Jan 73, with seniority of (for promotion only) 22nd Jan 72 vide Ministry of Defence letters OF/4304/61/NHQ/409/D(N-II) dated 21st Jan 1963 and OF/4356/69/NHQ/3599/D(N-II), dated 3rd May 1970.

S C D PUROHIT, Under Secy.

No. 2158, dated 30th July 1973.—The undermentioned Officer retired from service wef the date indicated against his name :—

Shri MS Kapoor, Pmt Naval Store Officer—27th Nov 1971.

G. S. AGGARWAL, Under Secy.

CORRIGENDA

No. 2159, dated 1st August 1973.—(i) Min of Def Notn No. 1994 dated 27th Jul 71 published in the G of I dated 14th Aug 1971 under the heading 'NAVY BRANCH' Sub Heading

Permanent Commission (Electrical Branch) against the name "UMESH CHANDRA GUPTA" the date of appointment should read '15-12-69' instead of 14-12-69.

(ii) Min of Def Notn No. 2454 dated 2nd Sep 1972 published in Part I Section IV of G of I dated 28th Sep 1972, under the Heading Indian Navy Engineering Branch, Sub heading SLTS TO BE LTS in respect of LT T M RAM :—

For : 29-9-1971

Read : 8-9-1972 with seniority for promotion only of 29-9-1971.

(iii) Min of Def Notn No. 1823 dated 7-7-69 published in Part I section IV of G of I dated 19-7-69 under the heading INDIAN NAVY sub heading SLT TO BE LT in respect of K C DEBRASS :—

For : 16th Mar 1967 (16-3-1967).

Read : 1st Sep 1966 (1-9-1966).

S CD PUROHIT, Under Secy.

(Air Branch)

No. 2160, dated 24th July 1973.—The President is pleased to confirm the undermentioned Air Force officers who were granted Permanent Commission (on probation) :—

INDIAN AIR FORCE

ADM Branch

Plt Offrs C P Raheja (13079); A S Sraon (13080); S S Mehta (13081); J B Saxena (13083); J N Dhawale (13084); A S Mann (13086); I P S Ghuman (13087); K S Sathi (13089); S T Kulkarni (13090); R. Ranganathan (13092); J R Johar (13094); V K Dayalu (13096); Bhopender Singh (13097); 17th June 1972.

LGS Branch

Plt Offrs Moti Lal (13098); S Bhasin (13099); J B Gupta (13100); H S Vickson (13101); V K S Ramesh (13102); P M Balakrishnan (13103); D P S Rekh (13104); S N Ansari (13105); P K Sehgal (13106); P R Arvind (13107); J S Boparai (13108); T N Gupta (13109); S Haralu (13110); A K Singh (13111); S P Singh (13112); 17th June, 1972.

Plt Offr Inderjit Singh (13128); 12th Aug 1972.

ACCTS Branch

Plt Offrs P N Misra (13113); C C Appanna (13114); Rajive Kumar (13116); G Chand (13117); S Mukherjee (13118); D V Arora (13119); S J Oak (13120); A K Jaitly (13121); M G Naidu (13122); U N Kaushik (13123) S S Puri (13124); A N Sood (13125); P K Gupta (13126); and A K Puri (13127); 17th June, 1972.

HOSHNAK SINGH, Under Secy.

No. 2161, dated 24th July 1973.—The President is pleased to promote the undermentioned officers to the acting rank of Gp Capt.

INDIAN AIR FORCE

F(P) Branch

Wg Cdr Man Singh, VM, VSM (4094), 29th Jan 1973.

F(N) Branch

Wg Cdr B L Chadha (4110), 29th Jan 1973.

S P RAI, Dy Secy.

No. 2162, dated 23rd July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from the service.

INDIAN AIR FORCE

A. E. (L) Branch

Wg Cdr R Shukla (3615) wef 24th Apr 1973.

No. 2163, dated 23rd July 1973.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire voluntarily from the service.

INDIAN AIR FORCE

AE(L) Branch

Wg Cdr (Actg Gp Capt) R S Sivaswami (3798), 1st Mar. 1972.

F(P) Branch

Flt Lt N S Mehta (6520), 30th Aug. 1972.

No. 2164, dated 23rd July 1973.—The President is pleased to transfer the undermentioned officer from F(N) to ADM Branch from the date indicated against his name in the substantive rank of Fg Offr but with seniority in that rank wef 31st Dec 1969 *vide* Govt. of India, Min of Def letter No, Air HQ/21901/11372/PO2/5285/D (Air-III) dated 27th June, 1972.

INDIAN AIR FORCE

ADM Branch

Fg Offr Ravinder Singh (11372), 4th Jan 1972.

HOSHNAK SINGH, Under Secy.